



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY  
साप्ताहिक  
WEEKLY

सं. 27] नई दिल्ली, जुलाई 1—जुलाई 7, 2012, शनिवार/आषाढ़ 10—आषाढ़ 16, 1934  
No. 27] NEW DELHI, JULY 1—JULY 7, 2012, SATURDAY/ASADHA 10—ASADHA 16, 1934

भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं  
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India  
(Other than the Ministry of Defence)

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 26 जून, 2012

का.आ. 2214.—केन्द्रीय सरकार एतद्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (1946 का अधिनियम सं. 25) की धारा 6 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पश्चिम बंगाल राज्य सरकार, गृह (राजनैतिक) विभाग, गोपनीय अनुभाग की अधिसूचना संख्या 566-पी.एस., कोलकाता, दिनांक 13 अप्रैल, 2012 के द्वारा जारी सहमति से शिकायत संख्या डीआरआई. एफ. नं 02/सीएल/आईएमपी/डीआरआई/बीआरएम/ 2011-12/936 दिनांक 12-03-2012 में दिनांक 05-03-2012 को राजस्व आसूचना निदेशालय, बेहरामपुर उप-क्षेत्रीय एकक, पश्चिम बंगाल के द्वारा जब्त की गई रुपए 13,98,000 केवल भारतीय जाली मुद्रा नोट में भारतीय दंड संहिता 1860 (1860 की अधिनियम संख्या 45) के अनुच्छेद 489-बी, 489-सी संपठित 120-बी के अधीन प्रयासों, दुष्प्रेरणों तथा षड्यंत्रों तथा उस संव्यवहार के अनुक्रम में किए गए अपराध/अपराधों या उन्हीं तथ्यों से उद्भूत

मामलों का अन्वेषण करने के संबंध में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों की शक्तियों और क्षेत्राधिकार का विस्तार सम्पूर्ण पश्चिम बंगाल राज्य पर करती है।

[फा. सं. 228/31/2012-एवीडी-II]  
राजीव जैन, अवर सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES  
AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

New Delhi, the 26th June, 2012

S. O. 2214.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 read with section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (Act No. 25 of 1946) the Central Government with the consent of the State Government of West Bengal, Home (Political) Department, Secret Section vide Notification No. 566-P. S., Kolkata dated 13th April, 2012, hereby extends the powers and jurisdiction

of the members of the Delhi Special Police Establishment to the whole of the State of West Bengal for investigation of complaint DRI. F. No. 02/CL/IMP/DRI/BRM/2011-12/936 dated 12-03-2012 under sections 489-B, 489-C, read with 120-B of the Indian Penal Code, 1860 (Act No. 45 of 1860) relating to seizure of Fake Indian Currency Notes of Rs. 13,98,000 only effected on 05-03-2012 by the Directorate of Revenue Intelligence, Berhampur Sub-Zonal Unit, West Bengal and attempt, abetment and conspiracy in relation to or in connection with the above mentioned offences and any other offence or offences committed in course of the same transaction or arising out of the same facts.

[F. No. 228/31/2012-AVD-II]

RAJIV JAIN, Under Secy.

### वित्त मंत्रालय

( वित्तीय सेवाएं विभाग )

नई दिल्ली, 22 जून, 2012

**का.आ. 2215.**—रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 की धारा 6 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) एवं (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा श्री अशोक कुमार महापात्रा, आईएस (सेवानिवृत्त/हि.प्र.: 71) की औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण अपीलीय प्राधिकरण (एएआईएफआर) में सदस्य के रूप में हुई नियुक्ति की अवधि को 25-01-2013 तक अर्थात् एसआईसीए, 1985 में यथा अनुमत 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक अथवा एएआईएफआर के समाप्त होने तक अथवा अगले आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, वृद्धि करती है।

[फा. सं. 20/1/2012-आईएफ-II]

रमण कुमार गौड़, अवर सचिव

### MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

New Delhi, the 22nd June, 2012

**S. O. 2215.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (3) of Section 5 read with sub-Section (2) of Section 6 of the Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act, 1985, the Central Government hereby extend the period of appointment of Shri Ashok Kumar Mohapatra, IAS (Retd/HP : 71) as Member, Appellate Authority for Industrial and Financial Reconstruction (AAIFR) upto 25-01-2013 i.e. upto his attaining the age of 65 years as permissible in the SICA, 1985 or till the abolition of AAIFR, or until further orders, whichever is the earliest.

[F. No. 20/1/2012-IF-II]

RAMAN KUMAR GAUR, Under Secy.

नई दिल्ली, 28 जून, 2012

**का.आ. 2216.**—जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंध निदेशक श्री डी.के. मेहरोत्रा को सौंपे गए अध्यक्ष के अतिरिक्त कार्यभार की व्यवस्था को दिनांक 26-05-2012 से 30-05-2012 तक की अवधि के लिए बढ़ाती है।

[फा. सं. ए-15011/02/2010-बीमा-1]

प्रिया कुमार, निदेशक (बीमा)

New Delhi, the 28th June, 2012

**S. O. 2216.**—In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956), the Central Government hereby extends additional charge arrangement of Chairman, Life Insurance Corporation of India to Shri D. K. Mehrotra, Managing Director, LIC for the period 26-05-2012 to 30-05-2012.

[F. No. A-15011/02/2010-Ins. I]

PRIYA KUMAR, Director (Insurance)

(सतर्कता अनुभाग)

नई दिल्ली, 28 जून, 2012

**का.आ. 2217.**—विशेष न्यायालय (प्रतिभूति संव्यवहार संबंधी अपराध विचारण) अधिनियम, 1992 की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा श्री जयन्ती प्रसाद (भा.ले. प. एवं लेखा सेवा, 1986) को विशेष न्यायालय (प्रतिभूति संव्यवहार संबंधी अपराध विचारण) अधिनियम, 1992 के अंतर्गत अभिरक्षक के रूप में नियुक्त करती है। यह नियुक्ति प्रतिनियुक्ति के आधार पर होगी और श्री जयन्ती प्रसाद की यह नियुक्ति इन शर्तों के अध्ययधीन होगी कि उन्हें वही वेतनमान दिया जाएगा जो वे अपने स्वयं के संगठन में ले रहे थे और यदि प्रतिनियुक्ति भत्ता देय हो तो उन्हें यह भत्ता भी दिया जाएगा। उनकी नियुक्ति 15 जून, 2012 से अथवा कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 28 फरवरी, 2013 तक की अवधि के लिए अथवा अभिरक्षक के कार्यालय के समाप्त होने तक अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए है।

[फा. सं. 22/4/2003-सतर्कता (खंड-III)]

जे. एस. फौगाट, अवर सचिव

(VIGILANCE SECTION)

New Delhi, the 28th June, 2012

**S. O. 2217.**—In exercise of the powers conferred by Sub-section (i) of Section 3 of the Special Court (Trial of Offences Relating to Transactions in Securities) Act, 1992, the Central Government hereby appoints Shri Jayanti Prasad (IA & AS : 1986) to the post of Custodian under the Special Court (Trial of Offences Relating to Transactions in Securities) Act, 1992 on deputation basis with the terms

and conditions that he may be given the pay scale which he is carrying in his own organization plus deputation allowance, if any for a period from 15-6-2012 or from the date of joining to 28-2-2013 or till the office of the Custodian is wound up or till further orders whichever event occurs the earliest.

[F.No. 22/4/2003-VIG (Vol. III)]

J. S. PHAUGAT, Under Secy.

नई दिल्ली, 3 जुलाई, 2012

**का.आ. 2218.**— बीमांकक अधिनियम, 2006 (2006 का 35) की धारा 12 की उपधारा (2) के खण्ड (ख)(ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री एम. रामाप्रसाद, सदस्य (गैर-जीवन) बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण को अगले आदेश होने तक भारतीय बीमांकक संस्थान परिषद के सदस्य के रूप में नामित करती है।

[फा. सं. एम-18013/01/2011-बीमा-1]

एस. के. मोहन्ती, अवर सचिव

New Delhi, the 3rd July, 2012

**S. O. 2218.**—In exercise of the powers conferred by clause (b) (ii) of sub-section (2) of section 12 of the Actuaries Act, 2006 (35 of 2006), the Central Government hereby nominates Shri M. Ramaprasad, Member (Non-life), Insurance Regulatory and Development Authority as a member of the Council of the Institute of Actuaries of India, till further orders.

[F.No. M-18013/01/2011-Ins. I]

S. K. MOHANTY, Under Secy.

**सीमा शुल्क के मुख्य आयुक्त, गुजरात क्षेत्र का कार्यालय**

अहमदाबाद, 27 जून, 2012

सं. 1/2012-13-सीमा शुल्क

**का.आ. 2219.**—भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, नई दिल्ली, द्वारा जारी अधिसूचना सं. 33/94--सीमा शुल्क (NT) दिनांक 01 जुलाई 1994 (यथा संशोधित) और अधिसूचना संख्या 14/2002-सीमा शुल्क (NT) दिनांक 7 मार्च 2002 (यथा संशोधित) द्वारा, सीमा शुल्क अधिनियम 1962, की धारा 152 खंड (a) और सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 4 की उप-अनुभाग 1 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, हंस कुमार जैन, मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क, गुजरात क्षेत्र, अहमदाबाद, गुजरात राज्य के अंतर्गत कच्छ जिले के मुंद्रा तालुका में स्थित गांव "प्रागपार", को, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 9 के तहत "वेरहाडसिंग स्टेशन" घोषित करता हूँ।

[फा. सं. VIII/48-166/टी/सीसीओ/2011]

हंस कुमार जैन, मुख्य आयुक्त

## OFFICE OF THE CHIEF COMMISSIONER OF CUSTOMS, GUJARAT ZONE

Ahmedabad, the 27th June, 2012

No. 1/2012-13-Customs

**S. O. 2219.**—In exercise of the powers conferred vide Notification No. 33/94-Cus (N.T.) dated 01-07-1994 (as amended) and Notification No. 14/2002-Cus. (N.T.), dated 07-03-2002 (as amended) issued by Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue, New Delhi, under clause (a) of Section 152 of the Customs Act, 1962 and Sub-section 1 of Section 4 of the Customs Act, 1962 respectively, I, Hans Kumar Jain, Chief Commissioner of Customs, Gujarat Zone, Ahmedabad, hereby declare village "PRAGPAR" falling under Mundra Taluka of Kutch District, in the State of Gujarat, as 'Warehousing Station' under Section 9 of the Customs Act, 1962.

[F.No. VIII/48-166/T/CCO/2011]

HANS KUMAR JAIN, Chief Commissioner of Customs

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय**

नई दिल्ली, 27 जून, 2012

**का.आ. 2220.**—केंद्र सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उपनियम (4) के अनुसरण में, पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली (सूचना और प्रसारण मंत्रालय) के निम्नलिखित अधीनस्थ केंद्रों/कार्यालयों, जिनके 80% से अधिक कर्मचारीवृन्द ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, को अधिसूचित करती है :-

1. पत्र सूचना कार्यालय, जोधपुर
2. पत्र सूचना कार्यालय, रांची

[फा. सं. ई-11017/6/2012 हिंदी]

प्रियम्वदा, निदेशक (रा.भा.)

## MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 27th June, 2012

**S. O. 2220.**—In pursuance of Sub-Rule (4) of Rule 10 of the Official Languages (Use for Official Purposes of the Union) Rules, 1976, the Central Government hereby notifies the following offices under Press Information Bureau, New Delhi (Ministry of Information and Broadcasting), more than 80% of the staff whereof have acquired the working knowledge of Hindi :-

1. Press Information Bureau, Jodhpur
2. Press Information Bureau, Ranchi.

[F.No. E-11017/6/2012-Hindi]

PRIYAMVADA, Director (O. L.)

## विदेश मंत्रालय

(सी पी बी प्रभाग)

नई दिल्ली, 25 जून, 2012

का.आ. 2221.—राजनयिक और कांसलीय ऑफिसर (शपथ और फीस) के अधिनियम, 1948 (1948 का 41) की धारा 2 के खंड (क) के अनुसरण में केंद्र सरकार एतद्वारा श्री नरोत्तम रोहिल्ला, सहायक को 20-6-2012 से भारत के राजदूतावास, गुएतेमाला में सहायक कौंसुलर अधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्राधिकृत करती है।

[सं. टी. 4330/01/2006]

आर. के. पेरिन्डिया, अवर सचिव (कौंसुलर)

## MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

(CPV DIVISION)

New Delhi, the 25th June, 2012

S. O. 2221—In pursuance of the clause (a) of the Section 2 of the Diplomatic and Consular Officers (Oaths and Fees) Act, 1948 (41 of 1948), the Central Government hereby authorize Shri Narottam Rohilla, Assistant, Embassy of India, Guatemala to perform the duties of Assistant Consular Officer with effect from 20th June, 2012.

[No. T. 4330/01/2006]

R. K. PERINDIA, Under Secy. (Consular)

## सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

[एसएसआई (पी)-1 अनुभाग]

नई दिल्ली, 28 जून, 2012

का.आ. 2222.—सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत दखलकारों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग से केन्द्रीय सरकार एतद्वारा नीचे दी गई तालिका के कालम (1) में उल्लिखित अधिकारी का केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी के नाते उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ सम्पदा अधिकारी नियुक्त करती है तथा आगे निर्देश देती है कि उक्त अधिकारी उक्त तालिका के कालम (2) में विनिर्दिष्ट सार्वजनिक परिसरों के संबंध में अपने क्षेत्राधिकार की सीमाओं के भीतर उक्त अधिनियम द्वारा अथवा अन्तर्गत सम्पदा अधिकारी को सौंपे गए कार्यों का निष्पादन तथा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा।

## तालिका

अधिकारी का पदनाम	सार्वजनिक परिसरों की श्रेणियां तथा क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाएं
(1)	(2)
श्रीमती दीपा रफीक, उप महाप्रबंधक (विधि) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, नई दिल्ली	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि., राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली तथा अन्य स्थानों जहां इनके आंचलिक कार्यालय, शाखा कार्यालय, एनएसआईसी-व्यापार विकास विस्तार कार्यालय, कच्ची सामग्री विपणन केंद्र (गोदाम), विपणन इन्टेलीजेंस प्रकोष्ठ, चूक प्रबंधन वसूली शाखाएं, एनएसआईसी-तकनीकी सेवा केंद्र, साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क, प्रदर्शनी केंद्र, औद्योगिक सम्पदा, नैनी, इलाहाबाद (उ.प्र.) स्थित हैं, अपने स्वयं के अथवा पट्टे पर समय-समय पर लिए गए परिसर जैसा कि अनुबंध में उल्लिखित हैं।

## अनुबंध

क्र. सं. कार्यालय	पता
(1)	(2)
(1)	(3)
1. कॉरपोरेट कार्यालय	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड भवन (एनएसआईसी भवन), ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, नई दिल्ली-110020
2. विपणन आसूचना प्रकोष्ठ	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, 411-412, जीवन तारा (आपूर्ति और निपटान महा-निदेशालय) भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001
3. आंचलिक कार्यालय (उत्तर-1)	आंचलिक कार्यालय (उत्तर-1) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, III-बी/118, सेक्टर-18, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, नोएडा-201301 (उत्तर प्रदेश)
4.	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय, III-बी/118, सेक्टर-18, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, नोएडा-201301 (उत्तर प्रदेश)

(1)	(2)	(3)
5.		राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, व्यवसाय विकास विस्तार कार्यालय, शॉप संख्या 3 रतन मार्किट, ऑरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स के पास, दिल्ली-मेरठ रोड, मोदी नगर, जिला-गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश)
6.		राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय, 3/46, लाखनू कम्पाउंड, आईसीआईसीआई बैंक के सामने, मैरिस रोड, अलीगढ़-202001 (उत्तर प्रदेश)
7.		राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय, वी.बी. शॉपिंग प्लाजा, यूजी-11 और 12, प्लॉट संख्या सी-2, सेक्टर-12 वसुंधरा, गाजियाबाद-201012 (उत्तर प्रदेश)
8.		राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय, 112/1, दूसरा तल बेनाजबार रोड, कानपुर-208001 (उत्तर प्रदेश)
9.		राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, व्यवसाय विकास विस्तार कार्यालय, उद्यमिता विकास संस्था उ.प्र., ए-1 और 2, औद्योगिक क्षेत्र, सरोजनी नगर, कानपुर रोड, लखनऊ-226008 (उत्तर प्रदेश)
10.		राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, व्यवसाय विकास विस्तार कार्यालय, जिला उद्योग केंद्र परिसर, गोरखपुर इंडस्ट्रियल एस्टेट, गोरखपुर-273015 (उत्तर प्रदेश)
11.		राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय, इंडस्ट्रियल एस्टेट, डाक घर-उद्योग नगर, नैनी, इलाहाबाद-211009 (उत्तर प्रदेश)
12.		राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, इंडस्ट्रियल एस्टेट, डाक घर-उद्योग नगर, नैनी, इलाहाबाद-211009 (उत्तर प्रदेश)
13.		राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, व्यवसाय विकास विस्तार कार्यालय, जिला उद्योग केंद्र परिसर, लहरतारा, वाराणसी (उत्तर प्रदेश)
14.		राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय, 132, एचआईजी II, फ्लैट, इन्द्रापुरम, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण कॉलोनी, जनरल महादेव सिंह रोड, देहरादून-148001 (उत्तराखंड)
15.		राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड--व्यवसाय विकास विस्तार कार्यालय, बी 1, बी-5 इंडस्ट्रियल एस्टेट, बाजपुर रोड, कासीपुर (उत्तराखंड)
16.		राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय, 707ए, सातवां जल, मारुति प्लाजा, संजय प्लेस, आगरा-282002 (उत्तर प्रदेश)
17.		राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय, उद्योग अपर निदेशक कार्यालय परिसर, जिला उद्योग केंद्र के पास, सूरजकुंड रोड, मेरठ-250002 (उत्तर प्रदेश)
18.	आंचलिक कार्यालय (उत्तर-II)	आंचलिक कार्यालय (उत्तर-II), राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, एनएफ/0/2 नेहरू प्लेस, टोंक रोड, जयपुर-302015 (राजस्थान)
19.		राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय, एनएफ/0/2 नेहरू प्लेस, टोंक रोड, जयपुर-302015 (राजस्थान)
20.		राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, व्यवसाय विकास विस्तार कार्यालय, विश्वकर्मा उद्योग संघ भवन, रोड नं. 1, विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एस्टेट, जयपुर, (राजस्थान)
21.		राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, व्यवसाय विकास विस्तार कार्यालय, 34/37, सेक्टर-3, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर (राजस्थान)
22.		राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, व्यवसाय विकास विस्तार कार्यालय, द्वारा लघु उद्योग संघ, पुरुषार्थ भवन, रोड नं. 5, आईपीआईए, कोटा, (राजस्थान)

(1)	(2)	(3)
23.		राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय, सी-7-18, प्रथम तल, कर्मचारी राज्य बीमा मिनी हॉस्पिटल के सामने, रीको चौक, भिवाड़ी-301019, जिला-अलवर (राजस्थान)
24.		राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय, गुरु गोविन्द सिंह टॉवर, धोलेवाल चौक के पास ग्रांड ट्रंक रोड, लुधियाना-141003 (पंजाब)
25.		राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय, एससीओ, 378, द्वितीय तल, सैक्टर-32, चंडीगढ़
26.		राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, व्यवसाय विकास विस्तार कार्यालय, द्वारा राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड--राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी गोदाम, धर्मपुर, साई रोड, पीडलाइट इंडस्ट्रीज लि. के सामने, बड्डी, हिमाचल प्रदेश
27.		राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय, 121-122, शहीद भगत सिंह कालोनी, बाईपास, ग्रांड ट्रंक रोड, जालंधर सिटी-144008 (पंजाब)
28.		राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड-व्यवसाय विकास विस्तार कार्यालय, कमरा संख्या 12, जिला उद्योग केंद्र परिसर, एकजीबीशन ग्राउंड, जम्मू-180001
29.		राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, -व्यवसाय विकास विस्तार कार्यालय, बैंक कॉम्प्लैक्स, ग्रांड ट्रंक रोड, दमताल, जिला-कांगड़ा-176403 (हिमाचल प्रदेश)
30.		राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय, शॉप कम ऑफिस (एससीओ), 11-12, गोशाला मंडी, ग्रांड ट्रंक रोड, पानीपत-133103 (हरियाणा)
31.	आंचलिक कार्यालय (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र)	आंचलिक कार्यालय (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र), राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, 411-412, जीवन तारा (आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय) भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली
32.		राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, तकनीकी सेवा केंद्र परिसर, चांदीवाया अस्पताल के पास, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, नई दिल्ली-110020
33.		राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय संख्या 9, द्वितीय तल, आपका सिटी प्लाजा, होटल पार्क इन के पास, सिविल लाइन्स, गुडगांव-122001 (हरियाणा)
34.		राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय, प्लॉट संख्या 107, निसान हट, एनएच-5, रेलवे रोड, फरीदाबाद-121001 (हरियाणा)
35.		राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय, 411-412, जीवन तारा (आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय) भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001
36.		राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय, डी-16, शाहदरा विनिर्माता संघ इन्डस्ट्रियल एस्टेट, जीटी करनाल रोड, जहांगीरपुरी (जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन के पास) दिल्ली-110033
37.		राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय, 706, सातवां तल, प्लस बेस्ट हाईट-1, नेताजी सुभाष प्लेस, वजीरपुर डिपो के सामने, दिल्ली-110034
38.		राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय, सी-60 और 64, फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लैक्स, झंडेवालान, नई दिल्ली
39.		राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय, शॉप संख्या 1, मॉडर्न इंडस्ट्रियल एस्टेट, फेज-1, फ्रंटियर बिस्कुट फैक्ट्री के सामने, दिल्ली रोहतक रोड, बहादुरगढ़-124507 (हरियाणा)

(1)	(2)	(3)
40.	आंचलिक कार्यालय (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र)	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय, सी-43, दिल्ली विकास प्राधिकरण शेड, प्रथम तल, (होटल क्राउन प्लाजा के पीछे), ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-1, नई दिल्ली-110020
41.		राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय, सीबी-372, दूसरा तल, रिंग रोड, नारायणा, नई दिल्ली-110028
42.	आंचलिक कार्यालय (दक्षिण-II)	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, नई संख्या 422 (पुरानी संख्या 615), अन्ना सलाई, चैन्नै-600006, (तमिलनाडु)
43.		आंचलिक विपणन प्रभाग, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, 422, अन्ना सलाई, चैन्नै-600006 (तमिलनाडु)
44.		राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड--व्यवसाय विकास विस्तार कार्यालय, द्वारा चैन्नै ऑटो एक्सीलरी इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चरल अपग्रेडेशन कंपनी, 'टीआईईएमए' कन्वेंशन सेंटर, 1 मेन रोड, सिडको इंडस्ट्रियल एस्टेट, तिरुमाजीसाई, चैन्नै-600124 (तमिलनाडु)
45.		राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय, नई संख्या 422 (पुरानी संख्या 615), अन्ना सलाई, 422, अन्ना सलाई, चैन्नै-600006, (तमिलनाडु)
46.		राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड--गोदाम, राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, वेदान्ता एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड एवं प्राफिन और वैक्स, द्वारा राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड--तकनीकी सेवा केंद्र, बी-24, गुंडी इंडस्ट्रियल एस्टेट, इकादुथंगल, चैन्नै-600032 (तमिलनाडु)
47.		राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, व्यवसाय विकास विस्तार कार्यालय, संख्या 5, तिरुवल्लुवर स्ट्रीट, कनदनचावडी, पेरुनगुंडी, चैन्नै-600096 (तमिलनाडु)
48.		राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, व्यवसाय विकास विस्तार कार्यालय, द्वारा भारत हैवी इलैक्ट्रिकल लिमिटेड औद्योगिक सेवा संघ, 87, इंडस्ट्रियल एस्टेट तुवाकुडी, त्रिचै-620015, (तमिलनाडु)
49.		राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय, तमिलनाडु लघु उद्योग विकास निगम (सिडको) प्रशासनिक भवन, दूसरा मेन रोड, अंबातुर इंडस्ट्रियल एस्टेट, अंबातुर, चैन्नै-600058 (तमिलनाडु)
50.		राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय, संख्या 148, लेबर कॉलोनी, गुंडी, चैन्नै-600032 (तमिलनाडु)
51.		राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय, प्रशासनिक भवन, इंडस्ट्रियल एस्टेट थाटनचावडी, पांडिचेरी-605009
52.		राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय, संख्या 19, तमिलनाडु लघु उद्योग संवर्धन निगम (सिपकोट) शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, होसुर-635126, जिला-कृष्णागिरी (तमिलनाडु)
53.		आंचलिक कार्यालय (दक्षिण-2), राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, संख्या 6, आयरन एंड स्टील कॉर्पोरेटिव सोसाइटी (आईएसआईसीओएस) बिल्डिंग, वेस्ट ऑफ कार्ड रोड, इंडस्ट्रियल टाऊन, राजाजीनगर, बंगलौर-560044 (कर्नाटक)
54.		राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय संख्या 6 और 7, आयरन एंड स्टील कॉर्पोरेटिव सोसाइटी (आईएसआईसीओएस) बिल्डिंग, वेस्ट ऑफ कार्ड रोड, इंडस्ट्रियल टाऊन, राजाजीनगर, बंगलौर-560044 (कर्नाटक)
55.		राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड-- व्यवसाय विकास विस्तार कार्यालय, द्वारा बेलगाम लघु उद्योग संघ, प्लॉट सं. 41, खानपुर रोड, उद्यमबाग, बेलगाम (कर्नाटक)

(1)	(2)	(3)
56.	आंचलिक कार्यालय (दक्षिण-II)	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड--गोदाम, 113/2-4, आयरन एंड स्टील कॉरपोरेटिव सोसाइटी गोदाम, राजाजीनगर इंडस्ट्रियल टाऊन, बंगलौर-560044
57.		राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड--शाखा कार्यालय, सी-424, पीनया प्रथम स्टेज, पीनया पुलिस स्टेशन के पीछे, बंगलौर-560058 (कर्नाटक)
58.		राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड--शाखा कार्यालय, 201, 203 और 303, श्री दत्तासाई कॉम्प्लैक्स, रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन (आरटीसी) 'एक्स रोड्स, हैदराबाद-500020 (आंध्र प्रदेश)
59.		राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड-- व्यवसाय विकास विस्तार कार्यालय, 25/197, वैल्लोर रोड, वेनसन ट्रांसपोर्ट प्रोमाइसिस, रेड्डीगुंटा, चित्तूर-517002 (आंध्र प्रदेश)
60.		राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड-- शाखा कार्यालय, प्रथम तल, प्लॉट संख्या 49, मेन रोड, गुरू नानक कॉलोनी, विजयवाड़ा-520008 (आंध्र प्रदेश)
61.		राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड-- गोदाम संख्या 6-67-27/2(3), गाजुवाका पुलिस स्टेशन के सामने, श्रमिक नगर, गाजुवाका, विशाखापट्टनम-530026
62.	आंचलिक कार्यालय (दक्षिण-III)	आंचलिक कार्यालय (दक्षिण-III), राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, नई संख्या 422 (पुरानी संख्या 615), अन्ना सलाई, चैन्नै-600006 (तमिलनाडु)
63.		राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय, 1055/10, गौतम सेन्टर अक्वीरी रोड, कोयम्बटूर-641018 (तमिलनाडु)
64.		राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय, नई संख्या 14, पहली गली, हार्वे नगर, अरसरादी अरम्पलायम रोड, मदुरै-625016 (तमिलनाडु)
65.		राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय, एस-67, ग्रेटर कोचीन विकास प्राधिकरण कॉम्प्लेक्स, मरीन ड्राइव, एर्नाकुलम, कोच्ची, कोचीन-682031 (केरल)
66.		राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड-- व्यवसाय विकास विस्तार कार्यालय, अय्याथोले डाकघर के पास, अय्याथोले डाकघर-कंजनी, रोड, त्रिचुर (केरल)
67.		राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड-- व्यवसाय विकास विस्तार कार्यालय, द्वारा जिला उद्योग केन्द्र, सिविल स्टेशन के पीछे, जिला पलक्कड-678001 (केरल)
68.		राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड-- व्यवसाय विकास विस्तार कार्यालय, XIV/105ए, कोट्टायम म्युनिसिपल इंडस्ट्रियल एस्टेट, कोडिमथा, कोट्टायम-686103 (केरल)
69.		राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड-- व्यवसाय विकास विस्तार कार्यालय, द्वारा जिला उद्योग केंद्र, वॉटर वर्क्स कम्पाउंड, वेल्लायाम्बलम, त्रिवेन्द्रम-695033, (केरल)
70.	आंचलिक कार्यालय (पूर्व)	आंचलिक कार्यालय (पूर्व) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, बाई लेन संख्या 3, इंडस्ट्रियल स्टेट, बमुनिमैदन, गुवाहाटी-781021 (असम)
71.		राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड-- शाखा कार्यालय, 20-बी, अब्दुल हामिद रोड, कोलकाता-700069, (पश्चिम बंगाल)
72.		राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड-- गोदाम (एजेंसी सेल), धुलागढ़ ट्रक टर्मिनल, गोदाम संख्या 45, पी.एस. संक्रेल, हावड़ा (पश्चिम बंगाल)
73.		राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड-- व्यवसाय विकास विस्तार कार्यालय, द्वारा एम/एस सत्यानारायणन उद्यम, 32/4, ब्रज नाथ लहरी लेन, संत्रागाची, हावड़ा-711104 (पश्चिम बंगाल)



(1)	(2)	(3)
74.	आंचलिक कार्यालय (पूर्व)	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड—व्यवसाय विकास विस्तार कार्यालय, ओल्ड हास्टिंग्स बंग्लोव, हेल्थ बिल्डिंग, ऋषि बंकिम सारणी (मोटर व्हिकल्स के सामने) बरसाथ, जिला 24 परगना (उत्तर), (पश्चिम बंगाल)
75.		राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड—व्यवसाय विकास विस्तार कार्यालय, द्वारा हावड़ा उद्यम और व्यापार मण्डल लिलुह, हावड़ा, -711204 (पश्चिम बंगाल)
76.		राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय, एए-177, साल्ट लेक सिट्टी, सेक्टर-1, कोलकाता-700064 (पश्चिम बंगाल)
77.		राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय, जिला उद्योग केंद्र कैम्पस, रसूलगढ़ इंडस्ट्रियल एस्टेट, भुवनेश्वर (उड़ीसा)
78.		राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, व्यवसाय विकास विस्तार कार्यालय, लिंक रोड, कटक-753012 (उड़ीसा)
79.		राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय, प्लॉट संख्या जेजेजे-16, सिविल टाउनशिप, राउरकेला-769004 (उड़ीसा)
80.		राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, 104, प्रथम तल, मन्ना-सुर्ती कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर्स कालोनी, कंकरबाग, पटना-800020 (बिहार)
81.		एनएसआईसी लि., पी-3, रेकोल पार्क, शहीद खुदी राम सारनी, सिटी सेंटर, दुर्गापुर-713216
82.		राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, व्यवसाय विकास विस्तार कार्यालय, प्लॉट सं. 33, इंडस्ट्रियल एस्टेट, द्वितीय एमआईई, सेवोके रोड, सिलीगुड़ी-734001 (पश्चिम बंगाल)
83.		राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय, विकास भवन कॉम्प्लेक्स, आदित्यपुर, जमशेदपुर-831013 (झारखंड)
84.		राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, व्यवसाय विकास विस्तार कार्यालय, उद्योग भवन, कोकर औद्योगिक क्षेत्र, रांची-834001 (झारखंड)
85.		राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड—व्यवसाय विकास विस्तार कार्यालय, बाईपास रोड चास बोकरो (झारखंड)
86.		राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, व्यवसाय विकास विस्तार कार्यालय, मध्य आय समूह (एमआईजी) ए/39, हाउसिंग कालोनी, धनबाद-826001
87.	आंचलिक कार्यालय (उत्तर-पूर्व)	आंचलिक कार्यालय (उत्तर-पूर्व), राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, बाय लेन संख्या 3, इंडस्ट्रियल एस्टेट, बमुनिमैदम, गुवाहाटी-781021 (असम)
88.		राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, (शाखा कार्यालय), बाय लेन संख्या 3, इंडस्ट्रियल एस्टेट, बमुनिमैदम, गुवाहाटी-781021 (असम)
89.		राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, (शाखा कार्यालय), चिर्वापट्टी, तिनसुकिया-786125 (असम)
90.		राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, व्यवसाय विकास विस्तार कार्यालय, उद्यमिता विकास संस्थान (ईडीआई) कॉम्प्लेक्स, उद्यमिता विकास सोसाइटी (सोफेड), औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के सामने, इंडिया नगर, अगरतला-799006 (त्रिपुरा)
91.		राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड—व्यवसाय विकास विस्तार कार्यालय, उरीपोक अकोम लेकई, इम्फाल-795001 (मणिपुर)

(1)	(2)	(3)
92.		राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, व्यवसाय विकास विस्तार कार्यालय, मेघालय औद्योगिक विकास निगम काम्प्लेक्स, "किस्मत, उपलंद रोड, लैतुम्ब्रह, शिलांग-793003 (मेघालय)
93.		राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड--व्यवसाय विकास विस्तार कार्यालय, जिला उद्योग केंद्र कॉम्प्लेक्स, ए-सेक्टर, इंडस्ट्रियल एस्टेट, नहार्लागुन-791110 (अरुणाचल प्रदेश)
94.		राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड--व्यवसाय विकास विस्तार कार्यालय, द्वारा महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र, हाफ नगाजन, दीमापुर-797112 (नागालैंड)
95.	आंचलिक कार्यालय (पश्चिम)	आंचलिक कार्यालय (पश्चिम), राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, तृतीय तल, आर एण्ड सी लिमिटेड बिल्डिंग, सर जेजे रोड, बायकुर्ला, मुम्बई-400008, (महाराष्ट्र)
96.		राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, क्षेत्रीय विपणन विभाग, भू-तल, आर एण्ड सी लिमिटेड बिल्डिंग, सर जेजे रोड, बायकुर्ला, मुम्बई-400008, (महाराष्ट्र)
97.		राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय, प्रथम तल, प्रेसटिज चैम्बर्स, कल्याण रोड, मस्जिद (ई), मुम्बई-400009, (महाराष्ट्र)
98.		राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, व्यवसाय विकास विस्तार कार्यालय, द्वारा ठाणे लघु उद्योग संघ हाउस, प्लॉट संख्या 26, रोड संख्या 16, वागले इंडस्ट्रियल एस्टेट, ठाणे (प.) 400064
99.		राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, (गोदाम--राष्ट्रीय एल्युमिनियम लिमिटेड कंपनी उत्पाद), 42/57, भारतीय तेल निगम परिसर, मंकोलि नाका, भिवंडी, जिला ठाणे (महाराष्ट्र)
100.		राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, (गोदाम--स्टरलाइट उत्पाद), 42/7 और 57/7, इंडियन नाका, भिवंडी, जिला-ठाणे (महाराष्ट्र)
101.		राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, (गोदाम--भारत एल्युमिनियम लिमिटेड कंपनी उत्पाद), गोदाम संख्या ए-6, गुप्ता वेयरहाउसिंग कॉम्प्लेक्स, दपोडे, भिवंडी (ठाणे)
102.		राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, (गोदाम--जिक उत्पाद), संग्रह वेयरहाउस, गोदाम संख्या जी-2, सर्वे संख्या 838-6, ग्राम पदामिया, पदामिया सकरदा मेन रोड, बड़ौदा 391350 (गुजरात)
103.		राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, (गोदाम--स्टरलाइट उत्पाद), जी-9/जी-2, संग्रह वेयरहाउस, सर्वे संख्या 838-6, ग्राम पदामिया, पदामिया सकरदा मेन रोड, बड़ौदा-391350 (गुजरात)
104.		राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, (गोदाम--जिक प्रोडक्ट), एन-14/2, तारापुर इंडस्ट्रियल एस्टेट, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी)-तालुका बोईसर, कुमभावलि, तारापुर, जिला ठाणे (महाराष्ट्र)
105.		राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय, कमरा संख्या 316/318, द्वारा लघु उद्योग सेवा संस्थान, साकीनाका, कुर्ला, अंधेरी रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400072 (महाराष्ट्र)
106.		राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय, एनडीटीए कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक 9, द्वितीय तल लिबर्टी सिनेमा के सामने, रेसिडेंस रोड, सदर, नागपुर-440001 (महाराष्ट्र)
107.		राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, (गोदाम--जिक प्रोडक्ट), गोदाम संख्या 1, प्लॉट संख्या 3/87, महाराष्ट्र स्टेट कॉऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी), हिंगना, नागपुर

(1)	(2)	(3)
108.		राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, (गोदाम-भारत एल्यूमिनियम कम्पनी एवं वेदान्ता एल्यूमिनियम लिमिटेड प्रोडक्ट), प्लॉट संख्या 3, ग्राम पंचायत हाउस संख्या 1182, देखमुख लेआउट, वदधमर्ना, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6, तहसील-हिंमना, जिला नागपुर
109.		राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय, द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संस्थान, शंकरसेठ रोड, स्वर्गेट, पीएमटी वर्कशॉप के पास, जानकी हॉल परिसर, पुणे-411037 (महाराष्ट्र)
110.		राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय, द्वारा मराठवाड़ा लघु उद्योग एवं कृषि संघ (एमएसएसआई), पी-15, एमआईडीसी, वलुज, मौर चौक, औरंगाबाद-431136 (महाराष्ट्र)
111.		राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय, गली संख्या 13, तृतीय तल, उद्योग भवन, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी), सतपुर नासिक-422007
112.		राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय, 105-106, होटल विराज बिल्डिंग, गुरुदेव कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, ऑफ सायलि रोड, सिलवासा-396230, (दादर, नागर और हवेली संघ शासित प्रदेश)
113.		राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, (गोदाम-राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी उत्पाद), सर्वे संख्या 80/4, दायत फलिया रोड, अमली, सिलवासा-396230, (दादर, नागर और हवेली संघ शासित प्रदेश)
114.		राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, (गोदाम-स्टील/वायर उत्पाद/बेदमुथा), गोदाम संख्या 3, सर्वे संख्या 80/4, दायत फलिया रोड, अमली, सिलवासा-396230, (दादर, नागर और हवेली संघ शासित प्रदेश)
115.		राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, व्यवसाय विकास विस्तार कार्यालय, श्रीगी कॉम्प्लेक्स, चतुर्थ तल, होटल मनोशक्ति के पास, डॉ. डाया वैद्य रोड, पणजी-403001 (गोवा)
116.	आंचलिक कार्यालय (मध्य)	आंचलिक कार्यालय (मध्य), राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय, 202, 203, समरूद्ध बिल्डिंग, गुजरात हाई कोर्ट के सामने, अहमदाबाद-380014, (गुजरात)
117.		राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय, 202, 203, समरूद्ध बिल्डिंग, गुजरात हाई कोर्ट के सामने, अहमदाबाद-380014, (गुजरात)
118.		राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड --व्यवसाय विकास विस्तार कार्यालय, 1, सत्यम सोसाइटी, शिव पॉइंट, इस्कॉन आर्केड के सामने, कॉलेज रोड, नडियाड़ (गुजरात)
119.		राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड --व्यवसाय विकास विस्तार कार्यालय, 404, राजहंस बिल्डिंग, जे.के. टावर के सामने, रिंग रोड, सूरत (गुजरात)
120.		राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड --शाखा कार्यालय, श्री टावर, द्वितीय तल, प्लॉट संख्या 1/1, 1/2, 1/3, मेन रोड, शंकर नगर, रेलवे क्रॉसिंग के पास (मीटर गेज), रायपुर-492007 (छत्तीसगढ़)
121.		राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड शाखा कार्यालय, 10, पोलोग्राउण्ड, इंडस्ट्रियल एस्टेट, इंदौर-452015 (म.प्र.)
122.		राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड --व्यवसाय विकास विस्तार कार्यालय, द्वारा जिला व्यवसाय और उद्योग केन्द्र, यूनिवर्सिटी चौराहा, सिटी सेंटर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश
123.		राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड --शाखा कार्यालय, 110, मालवीय नगर, (पंचानन बिल्डिंग के पीछे) भोपाल-462003 (मध्य प्रदेश)

(1)	(2)	(3)
124.	चूक प्रबंधन वसूली शाखा	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, चूक प्रबंधन वसूली शाखा, बी-38, डी, सेक्टर-57, नोएडा-201301 (यू. पी.)
125.		राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, चूक प्रबंधन वसूली शाखा, चतुर्थ तल, प्रेस्टिज चैम्बर, कल्याण स्ट्रीट, मस्जिद (पूर्व), मुंबई-400009 (महाराष्ट्र)
126.		राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, चूक प्रबंधन वसूली शाखा, नई संख्या 422, अन्ना सलाई, चैन्नै-600006 (तमिलनाडु)
127.		राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, चूक प्रबंधन वसूली शाखा, 15, एन, नेल्ली सेन गुप्ता स्मरनि, कोलकाता-700087 (पश्चिम बंगाल)
128.		राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, चूक प्रबंधन वसूली शाखा, 202, 203, समरूद्ध बिल्डिंग, गुजरात हाई कोर्ट के सामने, अहमदाबाद-380014, (गुजरात)
129.	एनएसआईसी तकनीकी सेवा केन्द्र	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, तकनीकी सेवा केन्द्र, सेक्टर बी-24, गुंडी इंडस्ट्रियल एस्टेट, एक्कादुथंगल डाकघर, चैन्नै-600032 (तमिलनाडु)
130.		राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, तकनीकी सेवा केन्द्र--डाकघर बालितिकुरी, जिला हावड़ा-711113 (पश्चिम बंगाल)
131.		राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड--तकनीकी सेवा केन्द्र, कुशैगुदा, कमला नगर, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक निगम लिमिटेड (ईसीआईएल) हैदराबाद-500062 (आन्ध्र प्रदेश)
132.		राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड-- तकनीकी सेवा केन्द्र, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, नई दिल्ली-110020
133.		राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड-- तकनीकी सेवा केन्द्र, भाव नगर रोड, अजि इंडस्ट्रियल एस्टेट, राजकोट-360003 (गुजरात)
134.		राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, तकनीकी सेवा केन्द्र, डी-82/83, फोकल पोइंट ओल्ड क्यूएमई बिल्डिंग, राजपुरा-140401 (पंजाब)
135.		राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड-- तकनीकी सेवा केन्द्र, ए-1 इंडस्ट्रियल एस्टेट अलीगढ़-202001 (उत्तर प्रदेश)
136.		राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, प्रशिक्षण केन्द्र, 1714/663, ग्राम--हलेल, डाकघर--कनैद, तहसील--सुन्दर नगर, जिला--मंडी-175010 (हिमाचल प्रदेश)
137.	सॉफ्टवेयर टेक्नोलोजी पार्क	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड-- सॉफ्टवेयर टेक्नोलोजी पार्क, सॉफ्टवेयर टेक्नोलोजी पार्क बिल्डिंग, सेक्टर बी-24, गुंडी इंडस्ट्रियल एस्टेट, एक्कादुथंगल पीओ, चैन्नै-600032 (तमिलनाडु)
138.		राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड-- सॉफ्टवेयर टेक्नोलोजी पार्क, सॉफ्टवेयर टेक्नोलोजी पार्क बिल्डिंग, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, नई दिल्ली
139.	प्रदर्शनी सह विपणन विकास व्यवसाय पार्क	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, प्रदर्शनी सह विपणन विकास व्यवसाय पार्क, कुशैगुदा इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स, कमला नगर, हैदराबाद-500062 (आन्ध्र प्रदेश)

[फा. सं 9 (6)/2012-एसएसआई (पी)-1]

एम. एल. शर्मा, अवर सचिव

**MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES**  
**[SSI(P)-I Section]**

New Delhi, the 28th June, 2012

**S.O. 2222** —. In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby appoints the officer mentioned in column (1) of the Table below, being an officer equivalent to the rank of the Gazetted Officer of the Central Government to be estate officer for the purpose of the said Act and further directs that the said officer shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed on estate officer by or under the said Act within the limits of his jurisdiction in respect of public premises specified in column (2) of the said Tables.

**TABLE**

Designation Officer	Categories of public premises and local limits of jurisdiction
(1)	(2)
Smt. Deepa Rafeeqe, Deputy General Manager (Law), the National Small Industries Corporation Limited, New Delhi.	Premise owned or taken on lease from time to time by the National Small Industries Corporation Limited in the National Capital Territory of Delhi and in other places where its Zonal Offices, Branch Offices, NSIC - Business Development Extension Offices, Raw Material Distribution Centres (Godowns), Marketing Intelligence Cell, Dafault Management Recovery Branches, NSIC-Technical Services Centres, Software Technology Parks, Exhibition Centres, Industrial Estate, Naini, Allahabad (Uttar Pradesh) are situated as mentioned in Annexure.

**ANNEXURE**

S.No.	Offices	Address
(1)	(2)	(3)
1.	<b>Corporate Office</b>	National Small Industries Corporation Limited, National Small Industries Corporation Limited Bhawan, (NSIC Bhawan) Okhla Industrial Estate, New Delhi - 110 020
2.	<b>Marketing Intelligence Cell</b>	National Small Industries Corporation Limited, 411-412, Jeevan Tara (Directorate General of Supply and Disposal) Building, Parliament Street, New Delhi - 110 001
3.	<b>Zonal Office (North-I)</b>	Zonal Office (North-I) National Small Industries Corporation Limited, III-B/118, Sector- 18, Shopping Complex, Noida - 201301 (Uttar Pradesh)
4.		National Small Industries Corporation Limited, Branch Office, III-B/118, Sector-18, Shopping Complex, Noida - 201301 (Uttar Pradesh)
5.		National Small Industries Corporation Limited - Business Development Extension Office, Shop No. 3, Ratan Market, Near Oriental Bank of Commerce, Delhi-Meerut Road, Modi Nagar, District-Ghaziabad (Uttar Pradesh)
6.		National Small Industries Corporation Limited, Branch Office, 3/46, Lakhnoo Compund, Opposite of ICICI Bank, Marris Road, Aligarh - 202001 (Uttar Pradesh)
7.		National Small Industries Corporation Limited, Branch Office, V. V. Shopping Plaza, UG- 11 and 12, Plot No. C2, Sector-12, Vasundhara, Ghaziabad- 201012 (Uttar Pradesh)
8.		National Small Industries Corporation Limited, Branch Office, 112/1, IInd Floor, Benajhbar Road, Kanpur - 208001 (Uttar Pradesh)

(1)	(2)	(3)
9.	<b>Zonal Office (North-I)</b>	National Small Industries Corporation Limited - Business Development Extension Office, Institution of Entrepreneurship Development Uttar Pradesh A-1 and 2, Industrial Area, Sarojini Nagar, Kanpur Road, Lucknow - 226008 (Uttar Pradesh)
10.		National Small Industries Corporation Limited - Business Development Extension Office, District Industries Centre Campus, Gorakhpur Industrial Estate, Gorakhpur- 273015 (Uttar Pradesh)
11.		National Small Industries Corporation Limited, Branch Office, Industrial Estate, Post Office - Udyog Nagar, Naini, Allahabad- 211 009 (Uttar Pradesh)
12.		National Small Industries Corporation Limited, Industrial Estate, Post Office- Udyog Nagar, Naini, Allahabad-211009 (Uttar Pradesh)
13.		National Small Industries Corporation Limited - Business Development Extension Office, Districts Industries Centre Campus, Lahartara, Varanasi (Uttar Pradesh)
14.		National Small Industries Corporation Limited, Branch Office, 132, HIG-II Flat, Indrapuram, Mushoorie Dehradun Development Authority Colony, General Mahadev Singh Road, Dehradun - 148 001 (Uttarakhand)
15.		National Small Industries Corporation Limited - Business Development Extension Office, B-1, B-5 Industrial Estate, Bazpur Road, Kashipur (Uttarakhand)
16.		National Small Industries Corporation Limited -Branch Office, 707A, 7th Floor, Maruti Plaza, Sanjay Place, Agra - 282 002 (Uttar Pradesh)
17.		National Small Industries Corporation Limited, Branch Office, Additional Director of Industries Office Campus, Near to District Industries Centre, Surajkund Road, Meerut- 250002 (Uttar Pradesh)
18.	<b>Zonal Office (North-II)</b>	Zonal Office (North-II), National Small Industries Corporation Limited, NF/ 0/2 Nehru Place, Tonk Road, Jaipur - 302015 (Rajasthan)
19.		National Small Industries Corporation Limited, Branch Office, NF/0/2 Nehru Place, Tonk Road, Jaipur - 302015 (Rajasthan)
20.		National Small Industries Corporation Limited - Business Development Extension Office, Vishwakarma Industries Association Bhawan, Road No. 1, Viswakarma Industrial Estate, Jaipur (Rajasthan)
21.		National Small Industries Corporation Limited - Business Development Extension Office, 34/37, Sector-3, Pratap Nagar, Sanganer, Jaipur (Rajasthan)
22.		National Small Industries Corporation Limited - Business Development Extension Office, C/o The Small Scale Industries Association, Purusarath Bhawan, Road No. 5, IPIA, Kota (Rajasthan)
23.		National Small Industries Corporation Limited, Branch Office, C-7-18, 1st Floor, Opposite Employee State Insurance Mini Hospital, RIICO Chowk, Bhiwadi - 301019, District-Alwar (Rajasthan)
24.		National Small Industries Corporation Limited, Branch Office, Guru Gobind Singh Tower, Near Dholewal Chowk, Grant Trunk Road, Ludhiana - 141003 (Punjab)
25.		National Small Industries Corporation Limited, Branch Office, SCO,- 378, 2nd Floor, Sector - 32, Chandigarh.

(1)	(2)	(3)
26.	<b>Zonal Office (North-II)</b>	National Small Industries Corporation Limited - Business Development Extension Office, C/o National Small Industries Corporation Limited- National Aluminium Company Godown, Dharampur, Sai Road, Opp. Pidlite Industries Limited Baddi (Himachal Pradesh).
27.		National Small Industries Corporation Limited, Branch Office, 121-122, Saheed Bhagat Singh Colony, Bye Pass, Grant Trunk Road, Jalandhar City- 144008 (Punjab)
28.		National Small Industries Corporation Limited - Business Development Extension Office, Room No. 12, District Industries Centre Complex, Exhibition Grounds, Jammu - 180 001
29.		National Small Industries Corporation Limited - Business Development Extension Office, Bank Complex, GT Road, Damtal, District- Kangra- 176403 (Himachal Pradesh)
30.		National Small Industries Corporation Limited, Branch Office, Shop cum Office (SCO), 11 - 12, Gaushala Mandi, Grant Trunk Road, Panipat-133 103 (Haryana).
31.	<b>Zonal Office (National Capital Region)</b>	Zonal Office (National Capital Region), National Small Industries Corporation Limited, 411-412, Jeevan Tara (Directorate General of Supply & Disposal) Building, Parliament Street, New Delhi.
32.		National Small Industries Corporation Limited, Branch Office, National Small Industries Corporation Limited - Technical Services Centre Complex, Near Chandiwalla Hospital, Okhla Industrial Estate. New Delhi - 110 020
33.		National Small Industries Corporation Limited, Branch Office, No. 9, II nd Floor, Aap Ka City Plaza, Near Hotel Park Inn, Civil Lines, Gurgaon-122001 (Haryana).
34.		National Small Industries Corporation Limited, Branch Office, Plot No. 107, Nissan Hut, NH-5, Railway Road, Faridabad-121001 (Haryana).
35.		National Small Industries Corporation Limited, Branch Office, 411-412 Jeevan Tara (Directorate General of Supply & Disposal) Building, Parliament Street, New Delhi-110 001
36.		National Small Industries Corporation Limited, Branch Office, D-16, Shadara Manufacture's Association Industrial Estate, GT Kamal Road, Jahangirpuri, (Near Jahangirpuri Metro Station) Delhi-110033
37.		National Small Industries Corporation Limited, Branch Office, 706, 7th Floor, Pearls Best Height-I, Netaji Subhash Place, Opposite of Wazirpur Depot, Delhi-110034
38.		National Small Industries Corporation Limited, Branch Office, C-60 & 64, Flatted Factory Complex, Jhandewalan, New Delhi.
39.		National Small Industries Corporation Limited, Branch Office, Shop No.1, Modern Industrial Estate, Phase-I, Opposite of Frontier Biscuit Factory, Delhi Rohtak Road, Bahadurgarh -124507 (Haryana)
40.		National Small Industries Corporation Limited, Branch Office, C-43, Delhi Development Authority Shed, 1st Floor, (Bihind Hotel Crown Plaza) Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110020
41.		National Small Industries Corporation Limited, Branch Office, CB-372, 2nd Floor, Ring Road, Naraina, New Delhi-110028

(1)	(2)	(3)
42.	<b>Zonal Office (South-II)</b>	National Small Industries Corporation Limited, New No. 422 (Old No.615), Anna Salai, Chennai-600006, (Tamil Nadu).
43.		Zonal Marketing Division, National Small Industries Corporation Limited, 422 Anna Salai, Chennai-600006 (Tamil Nadu).
44.		National Small Industries Corporation Limited, Business Development Extension Office, C/o. Chennai Auto Ancillary Industrial Infrastructure Upgradation Company, 'TIEMA' Convention Centre, 1 Main Road, Sidco Industrial Estate, Thirumazhisai, Chennai-600124 (Tamil Nadu).
45.		National Small Industries Corporation Limited, Branch Office, New No. 422 (Old No. 615), Anna Salai, Chennai-600006 (Tamil Nadu).
46.		National Small Industries Corporation Limited, Godown National Aluminum Company Limited, Bharat Aluminium Company Limited, Vedanta Aluminium Company Limited & Prafin and Wax, C/o National Small Industries Corporation Limited - Technical Services Centre, B-24, Guindy Industrial Estate, Ekkaduthangal, Chennai-600032 (Tamil Nadu)
47.		National Small Industries Corporation Limited, Business Development Extension Office, No. 5, Thiruvalluvar Street, Kandanchavadi, Perungundi, Chennai-600096 (Tamil Nadu)
48.		National Small Industries Corporation Limited, Business Development Extension Office, C/o. Bharat Heavy Electrical Limited Industrial Services Association, 87, Industrial Estate, Thuvakudi, Trichy-620 015 (Tamil Nadu)
49.		National Small Industries Corporation Limited, Branch Office, Small Industries Development Corporation of Tamil Nadu (SIDCO) Administration Building, Second Main Road, Ambattur Industrial Estate, Ambattur, Chennai-600058 (Tamil Nadu)
50.		National Small Industries Corporation Limited, Branch Office, No. 148, Labour Colony, Guindy, Chennai-600032 (Tamil Nadu)
51.		National Small Industries Corporation Limited, Branch Office, Administrative Building, Industrial Estate, Thattanchavady, Pondicherry-605009
52.		National Small Industries Corporation Limited, Branch Office, No. 19, Small Industries Promotion Corporation of Tamil Nadu (SIPCOT) Shopping Complex, Hosur-635126, Dist. Krishnagiri (Tamil Nadu).
53.		Zonal Office (South-II), National Small Industries Corporation Limited, No. 6, Iron and Steel Cooperative Society (ISICOS) Building, West of Chord Road, Industrial Town, Rajajinagar, Bangalore-560044 (Karnataka).
54.		National Small Industries Corporation Limited, Branch Office, No. 6 and 7, Iron and Steel Cooperative Society (ISICOS) Building, West of Chord Road, Industrial Town, Rajajinagar, Bangalore-(Karnataka)
55.		National Small Industries Corporation Limited, Business Development Extension Office, C/o Belgaum Small Scale Industries Association, Plot No. 41, Khanapur Road, Udyambag, Belgaum (Karnataka)
56.		National Small Industries Corporation Limited, Godown, 113/2-4, Iron and Steel Cooperative Society Godown, Rajajinagar Industrial Town, Bangalore-560044 (Karnataka)
57.		National Small Industries Corporation Limited, Branch Office, C-424, Peenya 1st Stage, Behind Peenya Police Station Bangalore-560058 (Karnataka).



(1)	(2)	(3)
58.		National Small Industries Corporation Limited, Branch Office, 201, 203 and 303, Sri Dattasai Complex, Road Transport Corporation (RTC) X-Roads, Hyderabad-500020 (Andhra Pradesh).
59.		National Small Industries Corporation Limited, Business Development Extension Office, 25/197, Vellare Road, Vennu Transport-Premises, Reddigunta, Chittoor-517002 (Andhra Pradesh).
60.		National Small Industries Corporation Limited, Branch Office, 1st Floor, Plot No. 49, Main Road, Guru Nanak Colony, Vijayawada-520005 (Andhra Pradesh).
61.		National Small Industries Corporation Limited, Godown No. 6-67-272 (3), Opposite Gajuwaka Police Station, Shramika Nagar, Gajuwaka, Visakhapatnam-530026
62.	Zonal Office (South-III)	Zonal Office (South-III), National Small Industries Corporation Limited, New No. 422 (Old No. 615), Anna Salai, Chennai-600006 (Tamil Nadu).
63.		National Small Industries Corporation Limited, Branch Office, 0055/10, Gowtham Centre Avinashi Road, Coimbatore-641015 (Tamil Nadu).
64.		National Small Industries Corporation Limited, Branch Office, New No. 14, 1st Street, Harvey Nagar, Azasardi Arappalayam Road, Madurai-625016 (Tamil Nadu).
65.		National Small Industries Corporation Limited, Branch Office, S-67, Greater Cochin Development Authority Complex, Marine Drive, Ernakulam, Kochi, Cochin-682031 (Kerala).
66.		National Small Industries Corporation Limited, Business Development Extension Office, Near Ayyanthole Post Office, Ayyanthole, Post Office, Kanjani Road, Trichur (Kerala)
67.		National Small Industries Corporation Limited, Business Development Extension Office, C/o District Industries Centre, Behind Civil Station, Dist. Palakkad-670001 (Kerala)
68.		National Small Industries Corporation Limited, Business Development Extension Office, XIV/105A, Kottayam Municipal Industrial Estate, Kodimatha, Kottayam-686103 (Kerala).
69.		National Small Industries Corporation Limited, Business Development Extension Office, C/o District Industries Centre, Water Works Compound, Vellayambalam, Thiruvananthapuram-695033 (Kerala)
70.	Zonal Office (East)	Zonal Office (East), National Small Industries Corporation Limited, Bye Lane No. 3, Industrial Estate, Bannamunnilam, Guwahati-781021 (Assam)
71.		National Small Industries Corporation Limited, Branch Office, 20-B, Abul Hasan Ali Nadwi Street, Kolkata-700009 (West Bengal)
72.		National Small Industries Corporation Limited, Godown (Agency Sale), Bhadrakali Tank Terminal, Godown No. 45, Bhadrakali, P.S. Sankrail, Howrah (West Bengal)
73.		National Small Industries Corporation Limited, Business Development Extension Office, C/o B.K. Sanyal & Sons Enterprise, 32/4, Braja Nath Lahiri Lane, Santagachi, Howrah-711004 (West Bengal)
74.		National Small Industries Corporation Limited, Business Development Extension Office, Old Hastings Bungalow, Health Building, Rishi Bankim Samai, (Opposite : Motor Vehicles), Bannock, District - 24 Parganas (North), (West Bengal)

(1)	(2)	(3)
75.		National Small Industries Corporation Limited - Business Development Extension Office, C/o Howrah Chamber of Commerce & Industry, Liluah, Howrah-711204 (West Bengal)
76.		National Small Industries Corporation Limited - Branch Office, AA-177, Salt Lake City, Sector-I, Kolkata-700064 (West Bengal)
77.		National Small Industries Corporation Limited, Branch Office, District Industries Centre Campus, Rasulgarh Industrial Estate, Bhubaneswar (Orissa).
78.		National Small Industries Corporation Limited, Business Development Extension Office, Link Road, Cuttack-753012 (Orissa).
79.		National Small Industries Corporation Limited, Branch Office, Plot No. JJJ-16, Civil Township, Rourkela-769004 (Orissa).
80.		National Small Industries Corporation Limited, 104, 1st Floor, Manna-Surti Complex, Doctor's Colony, Kankarbag, Patna-800020 (Bihar).
81.		National Small Industries Corporation Limited, P-3, Recol Park, Saheed Khudi Ram Sarani, City Centre, Durgapur-713216 (West Bengal).
82.		National Small Industries Corporation Limited - Business Development Extension Office, Plot No. 33, Industrial Estate, 2nd MIE, Sevoke Road, Siliguri-734001 (West Bengal).
83.		National Small Industries Corporation Limited, Branch Office, Vikash Bhawan Complex, Adityapur, Jamshedpur-831013 (Jharkhand).
84.		National Small Industries Corporation Limited - Business Development Extension Office, Udvog Bawan, Kokar Industrial Area, Ranchi-834001 (Jharkhand).
85.		National Small Industries Corporation Limited - Business Development Extension Office, By-Pass Road Chas, Bokaro (Jharkhand).
86.		National Small Industries Corporation Limited - Business Development Extension Office, Medium Income Group (MIG), A-39, Housing Colony, Dhandbad-826001.
87.	Zonal Office (North East)	Zonal Office (North East), National Small Industries Corporation Limited, Bye Lane No. 3, Industrial Estate, Bamunimaidam, Guwahati-781021 (Assam).
88.		NSIC Limited (Branch Office), Bye Lane No. 3, Industrial Estate, Bamunimaidam, Guwahati-781021 (Assam).
89.		National Small Industries Corporation Limited, Branch Office, Chirvapatty, Tinsukia-786125 (Assam).
90.		National Small Industries Corporation Limited - Business Development Extension Office, Entrepreneurship Development Institute (EDI) Complex, Society for Entrepreneurship Development (SOFED), Opposite of Industrial Training Institute, India Nagar, Agartala-799006 (Tripura).
91.		National Small Industries Corporation Limited - Business Development Extension Office, Uripok Achom Leikai, Imphal-795001 (Manipur).
92.		National Small Industries Corporation Limited, Business Development Extension Office, Meghalaya Industrial Development Corporation Complex, "Kismat", Upland Road, Laitumkrah, Shillong-793003 (Meghalaya).

(1)	(2)	(3)
93.	<b>Zonal Office (North East)</b>	National Small Industries Corporation Limited - Business Development Extension Office, District Industries Centre Complex, A-Sector, Industrial Estate, Naharlagun-(Arunachal Pradesh).
94.		National Small Industries Corporation Limited - Business Development Extension Office, C/o General Manager District Industries Centre, Half Nagajan, Dimapur-797112 (Nagaland)
95.	<b>Zonal Office (West)</b>	Zonal Office (West), National Small Industries Corporation Limited, 3rd Floor, R & C Limited Building, Sir J.J. Road, Byculla, Mumbai - 400008, (Maharashtra).
96.		National Small Industries Corporation Limited, Zonal Marketing Division, Ground Floor, R & C Limited Building, Sir J.J. Road, Byculla, Mumbai-400008 (Maharashtra).
97.		National Small Industries Corporation Limited, Branch Office, 1st Floor, Prestige Chambers, Kalyan Street, Masjid(E), Mumbai-400009 (Maharashtra).
98.		National Small Industries Corporation Limited - Business Development Extension Office, C/o Thane Small Scale Industries Association House, Plot No. 26, Road No. 16, Wagle Indl. Estate, Thane (West)-400064.
99.		National Small Industries Corporation Limited, (Godown—National Aluminum Limited Company Product), 42/57, Indian Oil Corporation Compound, Mankoli Naka, Bhiwandi, District - Thane (Maharashtra).
100.		National Small Industries Corporation Limited, (Godown- Sterlite Product), 42/7 and 57/7, Indian Naka, Bhiwandi, District - Thane (Maharashtra).
101.		National Small Industries Corporation Limited, (Godown- Bharat Aluminum Limited Company Product), Godown No. A-6, Gupta Warehousing Complex, Dapode, Bhiwandi (Thane).
102.		National Small Industries Corporation Limited, (Godown - Zinc Product), Sangrah Warehouse, Godown No. G-2, Survey No. 838-6, Padamia Village, Padamia Sakarda Main Road, Baroda-391 350 (Gujarat).
103.		National Small Industries Corporation Limited, (Godown- Sterlite Product), G-9/G-2, Sangrah Warehouse, Survey No. 838-6, Padamia Village, Padamia Sakarda Main Road, Baroda-391350 (Gujarat).
104.		National Small Industries Corporation Limited, Godown- Zinc Product), N-14/2, Tarapur Indl. Estate, Maharashtra Industrial Development Corporation (MIDC), Taluka Boisar, Kumbhavali, Tarapur, District - Thane (Maharashtra).
105.		National Small Industries Corporation Limited, Branch Office, Room No. 316/318, C/o Small Industries Service Institute, Sakinaka, Kurla, Andheri Road, Andheri (East), Mumbai-400072 (Maharashtra).
106.		National Small Industries Corporation Limited, Branch Office, NDTA Complex, Block 9, 2nd Floor, Opposite: Liberty Cinema, Residence Road, Sadar, Nagpur-440001 (Maharashtra).
107.		National Small Industries Corporation Limited, (Godown - Zinc Product), Godown No. 1, Plot No. 3/87, Maharashtra State Co-op Marketing Federation, Maharashtra Industrial Development Corporation (MIDC), Hingna, Nagpur.
108.		National Small Industries Corporation Limited, (Godown Bharat Aluminum Company and Vedanta Aluminum Limited Product), Plot No. 3, Grampanchayat House No. 1182, Deshmukh Layout, Wed-dhamna, National High-way No. 6, Tehsil - Hingna, District- Nagpur,

(1)	(2)	(3)
109.	<b>Zonal Office (West)</b>	National Small Industries Corporation Limited, Branch Office, C/o Micro, Small & Medium Enterprises Development Institute, Shankarshet Road, Swargate, Near PMT Workshop, Janki Hall Compound, Pune-411037 (Maharashtra).
110.		National Small Industries Corporation Limited, Branch Office, C/o Maharathwada Association of Small Scale Industries and Agriculture (MASSIA), P-15, MIDC, Waluj, More Chowk, Aurangabad-431136 (Maharashtra).
111.		National Small Industries Corporation Limited, Branch Office, Galla No 13, 3rd Floor Udyog Bhawan, Maharashtra Industrial Development Corporation (MIDC), Satpur Nasik-422007.
112.		National Small Industries Corporation Limited, Branch Office, 105-106, Hotel Viraj Building, Opposite: Gurdev Commercial Complex, Off Sayli Road, Silvassa-396230, (UT of Dadra, Nagar & Haveli).
113.		National Small Industries Corporation Limited, (Godown - National Aluminium Company Product), Survey No. 80/4, Dayat Falia Road, Amli, Silvassa-396230 (Union Territory of Dadra & Nagar Haveli).
114.		National Small Industries Corporation Limited, (Godown - Steel/Wire Product/Bedmutha), Godown No. 3, Survey No. 80/4, Dayat Falia Road, Amli, Silvassa-396230 (Union Territory of Dadra & Nagar Haveli).
115.		National Small Industries Corporation Limited- Business Development Extension Office, Shrigi Complex, 4th Floor, Near Manoshanthi Hotel, Dr. Data Vaidhya Road, Panaji-403001 (Goa).
116.	<b>Zonal Office (Central)</b>	Zonal Office (Central), National Small Industries Corporation Limited, Branch Office, 202, 203, Samruddh Building, Opposite: Gujarat High Court, Ahmedabad-380014 (Gujarat).
117.		National Small Industries Corporation Limited, Branch Office, 202, 203, Samruddh Building, Opposite: Gujarat High Court, Ahmedabad-380014
118.		National Small Industries Corporation Limited, Branch Office- Business Development Extension Office, 1, Satyam Society, Shiv Point, Opp. Iscon Arcade, College Road, Nadiad (Gujarat).
119.		National Small Industries Corporation Limited, Branch Office- Business Development Extension Office, 404, Rajhans Building, Opposite: JK Tower, Ring Road, Surat (Gujarat).
120.		National Small Industries Corporation Limited, Branch Office, Shree Tower, 2nd Floor, Plot No. 1/1, 1/2, 1/3, Main Road, Shankar Nagar, Near Railway Crossing (Meter Gate), Raipur-492007 (Chhattisgarh).
121.		National Small Industries Corporation Limited, Branch Office, 10, Pologround, Industrial Estate, Indore-452015 (Madhya Pradesh).
122.		National Small Industries Corporation Limited, Branch Office - Business Development Extension Office, C/o District Trade and Industries Centre, University Chauraha, City Centre, Gwalior (Madhya Pradesh).
123.		National Small Industries Corporation Limited, Branch Office, 110, Malviya Nagar, (Behind Panchan Building), Bhopal-462003 (Madhya Pradesh).
124.	<b>Default Management Recovery Branch</b>	National Small Industries Corporation Limited, Default Management Recovery Branch, B-38 D, Sector-57, Noida-201301 (Uttar Pradesh).

(1)	(2)	(3)
125.	<b>Default Management Recovery Branch</b>	National Small Industries Corporation Limited, Default Management Recovery Branch, 4th Floor, Prestige Chambers, Kalyan Street, Masjid (East), Mumbai—400009 (Maharashtra)
126.		National Small Industries Corporation Limited, Default Management Recovery Branch, New No. 422, Anna Salai, Chennai-600006 (Tamil Nadu).
127.		National Small Industries Corporation Limited, Default Management Recovery Branch, 15N, Nellie Sengupta Sarani, Kolkata-700 087 (West Bengal).
128.		National Small Industries Corporation Limited, Default Management Recovery Branch, 202, 203 Samrudh Building, Opposite Gujarat High Court, Ahmedabad-380014 (Gujarat).
129.	<b>NSIC Technical Services Centre</b>	National Small Industries Corporation Limited - Technical Services Centre, Sector B-24, Guindy Industrial Estate, Ekkaduthangal Post Office, Chennai- 600032 (Tamil Nadu).
130.		National Small Industries Corporation Limited - Technical Services Centre, Post Office - Balitkuri, Distt. Howrah-711113 (West Bengal).
131.		National Small Industries Corporation Limited - Technical Services Centre, Kushaiguda, Kamalanagar, Electronic Corporation of India Limited (ECIL), Hyderabad-500062 (Andhra Pradesh)
132.		National Small Industries Corporation Limited - Technical Services Centre, Okhla Industrial Estate, New Delhi-110020.
133.		National Small Industries Corporation Limited - Technical Services Centre, Bhav Nagar Road, Aji Industrial Estate, Rajkot-360003 (Gujarat)
134.		National Small Industries Corporation Limited - Technical Services Centre, D-82/83, Focal Point Old QME Building, Rajpura—140401 (Punjab)
135.		National Small Industries Corporation Limited - Technical Services Centre, A-1 Industrial Estate, Aligarh-202001 (Uttar Pradesh)
136.		National Small Industries Corporation Limited - Training Centre, 1714/663. Village - Hakeel, Post Office - Kanaid, Tehsil - Sundernagar, District - Mandi-175010 (Himachal Pradesh)
137.	<b>Software Technology Park</b>	National Small Industries Corporation Limited - Software Technology Park, Software Technology Park Building, Sector B-24, Guindy Industrial Estate, Ekkaduthangal - Post Office, Chennai-600032 (Tamil Nadu)
138.		National Small Industries Corporation Limited - Software Technology Park, Software Technology Park Building, Okhla Industrial Estate, New Delhi.
139.	<b>Exhibition cum Marketing Development Business Park</b>	National Small Industries Corporation Limited - Exhibition cum Marketing Development Business Park, Kusaiguda Electronic Complex, Kamalanagar, Hyderabad -500062 (Andhra Pradesh)

[F. No. 9(6)/2012-SSI(P)-I]

M. L. SHARMA, Under Secy.

## स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, 5 मई, 2012

का. आ. 2223.—केन्द्र सरकार, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 11 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् से परामर्श करने के बाद, एतद्द्वारा अर्हता की नामावली के बदलाव के कारण उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में निम्नलिखित और संशोधन करती है अर्थात् :-

उक्त अनुसूची में -

(क) "आन्ध्रा विश्वविद्यालय" के समक्ष शीर्षक 'मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हता' [इसके आगे कालम (2) के रूप में संदर्भित] के अन्तर्गत, शीर्षक 'पंजीकरण के लिए संक्षेपण' [इसके आगे कालम (3) के रूप में संदर्भित] के अन्तर्गत अंतिम प्रविष्टि एवं उससे संबंधित प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

(2)	(3)
"डाक्टर आफ मेडिसिन (रेडियोलोजी/रेडियोडायग्नोसिस)"	एम डी (रेडियोलोजी/रेडियोडायग्नोसिस) (यह एक मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी यदि यह आन्ध्रा मेडिकल कालेज, विशाखापटनम में प्रशिक्षित किए जा रहे विद्यार्थियों के संबंध में आन्ध्रा विश्वविद्यालय द्वारा 1986 से फरवरी, 1990 की अवधि में प्रदान की गई हो)
(ख) "आन्ध्रा प्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, विजयवाड़ा" के समक्ष शीर्षक 'मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हता' [इसके आगे कालम (2) के रूप में संदर्भित] के अन्तर्गत, शीर्षक 'पंजीकरण के लिए संक्षेपण' [इसके आगे कालम (3) के रूप में संदर्भित] के अन्तर्गत अंतिम प्रविष्टि एवं उससे संबंधित प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-	
"डाक्टर आफ मेडिसिन (रेडियोलोजी/रेडियोडायग्नोसिस)"	एमडी(रेडियोलोजी/रेडियोडायग्नोसिस) (यह एक मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी यदि यह आन्ध्रा मेडिकल कालेज, विशाखापटनम में प्रशिक्षित किए जा रहे विद्यार्थियों के संबंध में आन्ध्रा प्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, विजयवाड़ा द्वारा 31 मार्च, 1992 से जनवरी, 1998 की अवधि में प्रदान की गई हो)
(ग) "एनटीआर स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, विजयवाड़ा" के समक्ष शीर्षक 'मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हता' [इसके आगे कालम (2) के रूप में संदर्भित] के अन्तर्गत, शीर्षक 'पंजीकरण के लिए संक्षेपण' [इसके आगे कालम (3) के रूप में संदर्भित] के अन्तर्गत अंतिम प्रविष्टि एवं उससे संबंधित प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-	
"डाक्टर आफ मेडिसिन (रेडियोलोजी/रेडियोडायग्नोसिस)"	एमडी(रेडियोलोजी/रेडियोडायग्नोसिस) (यह एक मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी यदि यह आन्ध्रा मेडिकल कालेज, विशाखापटनम में प्रशिक्षित किए जा रहे विद्यार्थियों के संबंध में एनटीआर स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, विजयवाड़ा द्वारा 2 फरवरी, 1998 को अथवा उसके पश्चात् प्रदान की गई हो)
(घ) "ए.पी. सिंह विश्वविद्यालय, रेवा, मध्य प्रदेश" के समक्ष शीर्षक 'मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हता' [इसके आगे कालम (2) के रूप में संदर्भित] के अन्तर्गत, शीर्षक 'पंजीकरण के लिए संक्षेपण' [इसके आगे कालम (3) के रूप में संदर्भित] के अन्तर्गत अंतिम प्रविष्टि एवं उससे संबंधित प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-	
"ओथलमोलोजी में डिप्लोमा/ओपथलमिक मेडिसिन एवं सर्जरी में डिप्लोमा"	डीओ/डीओएमएस (यह एक मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी यदि यह एसएस मेडिकल कालेज, रेवा, मध्य प्रदेश में प्रशिक्षित किए जा रहे विद्यार्थियों के संबंध में ए.पी. सिंह विश्वविद्यालय, रेवा, मध्य प्रदेश द्वारा वर्ष 1979 में अथवा उसके पश्चात् प्रदान की गई हो)
(ङ) "पांडिचेरी विश्वविद्यालय" के समक्ष शीर्षक 'मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हता' [इसके आगे कालम (2) के रूप में संदर्भित] के अन्तर्गत, शीर्षक 'पंजीकरण के लिए संक्षेपण' [इसके आगे कालम (3) के रूप में संदर्भित] के अन्तर्गत अंतिम प्रविष्टि एवं उससे संबंधित प्रविष्टि	

(2)

(3)

के बाद निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“मास्टर आफ सर्जरी (ओर्थोपैडिक्स)”

एमएस (ओर्थो)

(यह एक मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी यदि यह पांडिचेरी आयुर्विज्ञान संस्थान, पुदुचेरी में प्रशिक्षित किए जा रहे विद्यार्थियों के संबंध में पांडिचेरी विश्वविद्यालय, द्वारा वर्ष 2011 में अथवा उसके पश्चात् प्रदान की गई हो)

(च) “शोर-ए-कश्मीर आयुर्विज्ञान संस्थान (मानद विश्वविद्यालय), जम्मू एवं कश्मीर” के समक्ष शीर्षक ‘मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हता’ [इसके आगे कालम (2) के रूप में संदर्भित] के अन्तर्गत, शीर्षक ‘पंजीकरण के लिए संक्षेपण’ [इसके आगे कालम (3) के रूप में संदर्भित] के अन्तर्गत अंतिम प्रविष्टि एवं उससे संबंधित प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“डाक्टर आफ मेडिसिन (पैडिएट्रिक्स)”

एमडी (पैडिएट्रिक्स)

(यह एक मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी यदि यह शोर-ए-कश्मीर आयुर्विज्ञान संस्थान, श्रीनगर, जम्मू एवं कश्मीर में प्रशिक्षित किए जा रहे विद्यार्थियों के संबंध में शोर-ए-कश्मीर आयुर्विज्ञान संस्थान (मानद विश्वविद्यालय), जम्मू एवं कश्मीर द्वारा वर्ष 2006 में अथवा उसके पश्चात् प्रदान की गई हो)

(छ) “राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, बैंगलोर” के समक्ष शीर्षक ‘मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हता’ [इसके आगे कालम (2) के रूप में संदर्भित] के अन्तर्गत, शीर्षक ‘पंजीकरण के लिए संक्षेपण’ [इसके आगे कालम (3) के रूप में संदर्भित] के अन्तर्गत अंतिम प्रविष्टि एवं उससे संबंधित प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“डिप्लोमा इन ओर्थोपैडिक्स”

डी. ओर्थोपैडिक्स

(यह एक मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी यदि यह नवोदय मेडिकल कालेज, रायचूर, कर्नाटक में प्रशिक्षित किए जा रहे विद्यार्थियों के संबंध में राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, बैंगलोर द्वारा मई, 2011 में अथवा उसके पश्चात् प्रदान की गई हो)

(ज) “दि वेस्ट बंगाल स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, कोलकाता” के समक्ष शीर्षक ‘मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हता’ [इसके आगे कालम (2) के रूप में संदर्भित] के अन्तर्गत, शीर्षक ‘पंजीकरण के लिए संक्षेपण’ [इसके आगे कालम (3) के रूप में संदर्भित] के अन्तर्गत अंतिम प्रविष्टि एवं उससे संबंधित प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“डाक्टर आफ मेडिसिन (एन्सथीसिया)”

एमडी(एन्सथीसिया)

(यह एक मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी यदि यह कमांड अस्पताल, कोलकाता में प्रशिक्षित किए जा रहे विद्यार्थियों के संबंध में दि वेस्ट बंगाल स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, कोलकाता द्वारा अप्रैल, 2011 में अथवा उसके पश्चात् प्रदान की गई हो)

“डाक्टर आफ मेडिसिन (फिजियोलोजी)”

एमडी(फिजियोलोजी)

(यह एक मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी यदि यह कमांड अस्पताल, कोलकाता में प्रशिक्षित किए जा रहे विद्यार्थियों के संबंध में दि वेस्ट बंगाल स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, कोलकाता द्वारा मई, 2011 में अथवा उसके पश्चात् प्रदान की गई हो)

सभी नोट करें कि : 1. स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम को प्रदान की गई मान्यता अधिकतम 5 वर्ष तक की अवधि के लिए होगी जिसके पश्चात् इसे नवीकृत करवाना होगा।

2. उप-खण्ड 4 में यथापेक्षित मान्यता को समय से नवीकृत न करवाने के परिणामस्वरूप संबंधित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में दाखिले निरपवाद रूप में बंद हो जाएंगे।

[सं. यू. 12012/23/2012-एमई(पी. II)]

अनिता त्रिपाठी, अवर सचिव

**MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE****(Department of Health and Family Welfare)**

New Delhi, the 5th May, 2012

S.O. 2223.— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of the Section 11 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Central Government, after consulting the Medical Council of India, hereby makes the following further amendments in the First Schedule to the said Act, due to change of nomenclature of the qualification namely:—

In the said Schedule —

(a) against “Andhra University” under the heading ‘Recognised Medical Qualification’ [hereinafter referred to as column (2)], after the last entry and entry relating thereto under the heading ‘Abbreviation for Registration’ [hereinafter referred to as column(3)], the following shall be inserted, namely:—

(2)	(3)
“Doctor of Medicine (Radiology/Radiodiagnosis)”	MD (Radiology/Radiodiagnosis) (This shall be a recognised medical qualification when granted by Andhra University in respect of the students being trained at Andhra Medical College, Visakhapatnam from 1986 to February, 1990).

(b) against “Andhra Pradesh University of Health Sciences, Vijaywada ” under the heading ‘Recognised Medical Qualification’ [hereinafter referred to as column (2)], after the last entry and entry relating thereto under the heading ‘Abbreviation for Registration’ [hereinafter referred to as column(3)], the following shall be inserted, namely:—

“Doctor of Medicine (Radiology/Radiodiagnosis)”	MD (Radiology/Radiodiagnosis) (This shall be a recognised medical qualification when granted by Andhra Pradesh University of Health Sciences, Vijayawada in respect of the students being trained at Andhra Medical College, Visakhapatnam from 31st March, 1992 to January, 1998).
---	--

(c) against “NTR University of Health Sciences, Vijayawada” under the heading ‘Recognised Medical Qualification’ [hereinafter referred to as column (2)], after the last entry and entry relating thereto under the heading ‘Abbreviation for Registration’ [hereinafter referred to as column(3)], the following shall be inserted, namely:—

“Doctor of Medicine (Radiology/Radiodiagnosis)”	MD (Radiology/Radiodiagnosis) (This shall be a recognised medical qualification when granted by NTR University of Health Sciences, Vijayawada in respect of the students being trained at Andhra Medical College, Visakhapatnam on or after 2nd February, 1998).
---	---

(d) against “A.P. Singh University, Rewa, Madhya Pradesh” under the heading ‘Recognised Medical Qualification’ [hereinafter referred to as column (2)], after the last entry and entry relating thereto under the heading ‘Abbreviation for Registration’ [hereinafter referred to as column (3)], the following shall be inserted, namely:—

“Diploma in Ophthalmology/Diploma in Ophthalmic Medicine & Surgery”	DO/DOMS (This shall be a recognised medical qualification when granted by A.P. Singh University, Rewa, Madhya Pradesh in respect of students being trained at S.S. Medical College, Rewa, Madhya Pradesh on or after 1979).
---	--

(e) against “Pondicherry University” under the heading ‘Recognised Medical Qualification’ [hereinafter referred to as column (2)], after the last entry and entry relating thereto under the heading ‘Abbreviation for Registration’ [hereinafter referred to as column (3)], the following shall be inserted, namely:—

“Master of Surgery (Orthopaedics)”	MS (Ortho.) (This shall be a recognised medical qualification when granted by Pondicherry University in respect of students being trained at Pondicherry Institute of Medical Sciences, Puducherry on or after 2011).
------------------------------------	--

(f) against “Sher-I-Kashmir Institute of Medical Sciences (Deemed University) J & K” under the heading ‘Recognised Medical Qualification’ [hereinafter referred to as column (2)], after the last entry and entry relating thereto under the heading ‘Abbreviation for Registration’ [hereinafter referred to as column (3)], the following shall be inserted, namely:—



(2)	(3)
"Doctor of Medicine (Paediatrics)"	MD (Paediatrics) (This shall be a recognised medical qualification when granted by Sher-I-Kashmir Institute of Medical Sciences (Deemed University) J&K in respect of students being trained at Sher-I-Kashmir Institute of Medical Sciences, Srinagar, J&K on or after 2006).
(g) against "Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Bangalore" under the heading 'Recognised Medical Qualification' [hereinafter referred to as column (2)], after the last entry and entry relating thereto under the heading 'Abbreviation for Registration' [hereinafter referred to as column (3)], the following shall be inserted, namely :—	
"Diploma in Orthopaedics"	D. Orthopaedics (This shall be a recognised medical qualification when granted by Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Bangalore in respect of students being trained at Navodaya Medical College, Raichur, Karnataka on or after May, 2011).
(h) against "The West Bengal University of Health Sciences, Kolkata" under the heading 'Recognised Medical Qualification' [hereinafter referred to as column (2)], after the last entry and entry relating thereto under the heading 'Abbreviation for Registration' [hereinafter referred to as column (3)], the following shall be inserted, namely :—	
"Doctor of Medicine (Anaesthesia)"	MD (Anaesthesia) (This shall be a recognised medical qualification when granted by West Bengal University of Health Sciences, Kolkata in respect of students being trained at Command Hospital, Kolkata on or after April, 2011).
"Doctor of Medicine (Physiology)"	MD (Physiology) (This shall be a recognised medical qualification when granted by West Bengal University of Health Sciences, Kolkata in respect of students being trained at Command Hospital, Kolkata on or after May, 2011).

**Note to all :** 1. The recognition so granted to a Postgraduate Course shall be for a maximum period of 5 years, upon which it shall have to be renewed.

2. Failure to seek timely renewal of recognition as required in sub-clause-4 shall invariably result in stoppage of admissions to the concerned Postgraduate Course.

[No. U. 12012/23/2012-ME(P. II)]

ANITA TRIPATHI, Under Secy.

नई दिल्ली, 10 मई, 2012

का. आ. 2224.—केन्द्र सरकार, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 11 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् से परामर्श करने के बाद, एतद्वारा अर्हता की नामावली के बदलाव के कारण उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में निम्नलिखित और संशोधन करती है अर्थात् :—

उक्त अनुसूची में -

(क) "राजस्थान विश्वविद्यालय" के समक्ष शीर्षक 'मान्यताप्राप्त चिकित्सा अर्हता' [इसके आगे कालम (2) के रूप में संदर्भित] के अन्तर्गत, शीर्षक 'पंजीकरण के लिए संक्षेपण' [इसके आगे कालम (3) के रूप में संदर्भित] के अन्तर्गत अंतिम प्रविष्टि एवं उससे संबंधित प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

(2)	(3)
"डाक्टर आफ मेडिसिन (माइक्रोबायोलोजी)"	एम डी (माइक्रोबायोलोजी) (यह एक मान्यताप्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी यदि यह एस.पी. मेडिकल कॉलेज, बीकानेर, राजस्थान में प्रशिक्षित किए जा रहे विद्यार्थियों के संबंध में राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा नवम्बर, 1990 से सितम्बर, 2006 की अवधि में प्रदान की गई हो)।

(ख) "राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर" के समक्ष शीर्षक 'मान्यताप्राप्त चिकित्सा अर्हता' [इसके आगे कालम (2) के रूप में संदर्भित] के अन्तर्गत, शीर्षक 'पंजीकरण के लिए संक्षेपण [इसके आगे कालम (3) के रूप में संदर्भित] के अन्तर्गत अंतिम प्रविष्टि एवं उससे संबंधित प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"डॉक्टर आफ मेडिसिन  
(माइक्रोबायोलोजी)"

एमडी (माइक्रोबायोलोजी)

(यह एक मान्यताप्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी यदि यह एस.पी. मेडिकल कालेज, बीकानेर, राजस्थान में प्रशिक्षित किए जा रहे विद्यार्थियों के संबंध में राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा अक्टूबर, 2006 में अथवा उसके पश्चात् प्रदान की गई हो)।

- सभी नोट करें कि।** 1. स्नाकोत्तर पाठ्यक्रम को प्रदान की गई मान्यता अधिकतम 5 वर्ष तक की अवधि के लिए होगी जिसके पश्चात् इसे नवीकृत करवाना होगा।
2. उप-खण्ड 4 में यथापेक्षित मान्यता को समय से नवीकृत न करवाने के परिणामस्वरूप संबंधित स्नाकोत्तर पाठ्यक्रम में दाखिले निरपवाद रूप से बंद हो जाएंगे।

[सं. यू.12012/105/2011-एमई (पी. II)]

अनिता त्रिपाठी, अवर सचिव

New-Delhi, the 10th May, 2012

**S.O. 2224.**— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of the Section 11 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Central Government, after consulting the Medical Council of India, hereby makes the following further amendments in the First Schedule to the said Act, due to change of nomenclature of the qualification namely :—

In the said Schedule —

(a) against "Rajasthan University" under the heading 'Recognised Medical Qualification' [hereinafter referred to as column (2)], after the last entry and entry relating thereto under the heading 'Abbreviation for Registration' [hereinafter referred to as column (3)], the following shall be inserted, namely :—

(2)	(3)
"Doctor of Medicine(Microbiology)"	MD (Microbiology) (This shall be a recognised medical qualification when granted by Rajasthan University in respect of the students being trained at S.P. Medical College, Bikaner, Rajasthan on or after November, 1990 to September, 2006).
(b) against "Rajasthan University of Health Sciences, Jaipur" under the heading 'Recognised Medical Qualification' [hereinafter referred to as column (2)], after the last entry and entry relating thereto under the heading 'Abbreviation for Registration' [hereinafter referred to as column(3)], the following shall be inserted, namely :—	
"Doctor of Medicine(Microbiology)"	MD (Microbiology) (This shall be a recognised medical qualification when granted by Rajasthan University of Health Sciences, Jaipur in respect of students being trained at S.P. Medical College, Bikaner, Rajasthan on or after October, 2006).

**Note to all :** 1. The recognition so granted to a Postgraduate Course shall be for a maximum period of 5 years, upon which it shall have to be renewed.

2. Failure to seek timely renewal of recognition as required in sub-clause-4 shall invariably result in stoppage of admissions to the concerned Postgraduate Course.

[No. U. 12012/105/2011-ME(P. II)]

ANITA TRIPATHI, Under Secy.

**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक विभाग संज्ञासूचक**

(उपभोक्ता मामले विभाग)


नई दिल्ली, 2 मई, 2012

**का.आ. 2225.**—केन्द्रीय सरकार का विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल (नीचे दी गई आकृति देखें) विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) तथा विधिक माप विज्ञान (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 2011 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, विधिक माप विज्ञान (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 2011 के नियम 8 के उप-नियम (6) और नियम 11 के उप-नियम (4) के साथ पठित विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) की धारा 22 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स प्रगति इंस्ट्रुमेंटेशन (पी) लिमिटेड, केदार दास नगर, गुरुद्वारा रोड, चास-827013, जिला बोकारो द्वारा विनिर्मित मध्यम यथार्थता (यथार्थता वर्ग-III) वाले "क्यू-6500" शृंखला के अंकक सूचन सहित अस्वचालित तोलन उपकरण (इलेक्ट्रॉनिक वेब्रिज) के मॉडल का, जिसके ब्रांड का नाम "क्वांटमाटिक प्लस" है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/11/556 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण-पत्र जारी करती है।

उक्त मॉडल एक विकृत गेज प्रकार का भार सेल आधारित अस्वचालित तोलन उपकरण (इलेक्ट्रॉनिक वेब्रिज) है। इसकी अधिकतम क्षमता 50 टन है और न्यूनतम क्षमता 100 कि. ग्रा. है। सत्यापन मापमान अंतराल (ई) 5 कि.ग्रा. है। इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत-प्रतिशत व्यवकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है। एलईडी/एलसीडी तोलन परिणाम उपदर्शित करता है। उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है।

आकृति-1



आकृति-2 : मॉडल को सीलिंग करने का योजनाबद्ध डायग्राम।

डिस्पले की बाड़ी में से सीलिंग वायर निकाल कर डिस्पले पर सीलिंग की जाती है। सील के साथ जुड़े हुए डिस्पले के बेस प्लेट और टॉप कवर में बने दो छेदों में से सीलिंग वायर निकाल कर सील से जोड़ा गया है। मॉडल को सीलबंद करने के उपबंध का एक प्ररूपी योजनाबद्ध डायग्राम उपरोक्त दिया गया है।

उपकरण में बाहरी केलिब्रेशन तक पहुंच की सुविधा है। बाहरी केलिब्रेशन तक पहुंच को रोकने के लिए ए/डी कार्ड/मदर बोर्ड में डिप स्विच भी दिया गया है।

और केन्द्रीय सरकार विधिक माप विज्ञान (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 2011 के नियम 8 के उप-नियम (9) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाण-पत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धांत, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे उक्त अनुमोदित मॉडल का विनिर्माण किया गया है, विनिर्मित उसी शृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 5 ग्रा. या उससे अधिक के "ई" मान के लिए 500 से 10,000 तक की रेंज में सत्यापन मापमान अंतराल (ई) सहित 5 टन से 200 टन तक की अधिकतम क्षमता वाले हैं और "ई" मान  $1 \times 10^3$ ,  $2 \times 10^3$ ,  $5 \times 10^3$ , के हैं, जो धर्म मक या जगान्मक पूर्णक या शून्य के समतुल्य हैं।

[फा. सं. डब्ल्यू एम-21 (172)/2011]

बी. एन. दीक्षित, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

# **MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION**

**(Department of Consumer Affairs)**


New Delhi, the 2nd May, 2012

**S.O. 2225.**—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by prescribed authority, is satisfied that the model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) and the Legal Metrology (Approval of Models) Rules, 2011 and the said model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 22 of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) read with sub-rule (6) of rule 8 and sub-rule (4) of rule 11 of the Legal Metrology (Approval of Models) Rules, 2011, the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the model of non-automatic weighing instrument (electronic weighbridge) with digital indication of medium accuracy (accuracy class-III) of series "Q-6500" and with brand name "QUANTAMATIC PLUS" (hereinafter referred to as the said model), manufactured by M/s Pragati Instrumentation (P) Limited, Kedar Das Nagar, Gurudwara Road, Chas-827013, District Bokaro and which is assigned the approval mark IND/09/11/556;

The said model is a strain gauge type load cell based non-automatic weighing instrument (electronic weighbridge) with a maximum capacity of 50 tonne and minimum capacity of 100 kg. The verification scale interval (e) is 5 kg. It has a tare device with a 100 per cent subtractive retained tare effect. The LED/LCD indicates the weighing result. The instrument operates on 230Volts, 50Hertz alternative current power supply:

**Figure-1**



**Figure-2 : Schematic Diagram of the sealing provision of the model.**

Sealing is done on the display by passing sealing wire from the body of the display. The seal is connected by whole in base plate and top cover of display, than seal wire is passed through these two holes attached with seal. A typical schematic diagram of sealing provision of the model is given above.

The instrument has external control to calibration. A dip switch has also been provided in mother board to disable access to external calibration.

Further, in exercise of the power conferred by sub-rule (9) of rule 8 of the Legal Metrology (Approval of Models) Rules, 2011, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the weighing instruments of similar make, accuracy and performance of same series with above 5tonne and up to 200 tonne with verification scale interval (n) in the range of 500 to 10,000 for 'e' value of 5g. or more and with 'e' value of  $1 \times 10^k$ ,  $2 \times 10^k$  or  $5 \times 10^k$ , where k is a positive or negative whole number or equal to zero manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which, the said approved model has been manufactured.

[F. No. WM-21(172)/2011]

B. N. DIXIT, Director of Legal Metrology

नई दिल्ली, 2 मई, 2012

**का.आ. 2226.**—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी नेशनल मेट्रोलोजी इंस्टीट्यूट आफ जापान (एन एम आई) द्वारा जारी मॉडल अनुमोदन प्रमाण-पत्र के साथ उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल (नीचे दी गई आकृति देखें) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उप-धारा (7) और उप-धारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स तनिता अकिता कोरपोरेशन, 28-1, शिमोत्सुजिओए, होरिमिनय, एसा, दैसेन-शी, अकिता-के, 014-0113 जापान द्वारा विनिर्मित मध्यम यथार्थता (यथार्थता वर्ग-III) वाले "एमसी" शृंखला के अंकक सूचन सहित अस्वचालित तोलन उपकरण (बॉडी कम्पोजिशन एनालाइजर) के मॉडल का, जिसके ब्रांड का नाम "तनिता" है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है) और जिसे मैसर्स तनिता इंडिया प्रा. लि., लेवल 9, प्लाटिना, सी-59, जी ब्लॉक, बान्द्रा कुर्ला कम्प्लैक्स, बान्द्रा (ई), मुंबई-400051 द्वारा भारत में बिक्रीत से पूर्व अथवा बाद में बिना किसी परिवर्तन के विपणीत किया गया है और अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/10/519 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण-पत्र जारी करती है।

उक्त मॉडल एक मल्टी फ्रीक्विंसी इंपेडेंस एनालिसिस आधारित अस्वचालित तोलन उपकरण (बॉडी कम्पोजिशन एनालाइजर) है जिसकी अधिकतम क्षमता 200 कि.ग्रा./270 कि.ग्रा. और न्यूनतम क्षमता 1 कि.ग्रा. है। सत्यापन मापमान अंतराल (ई) 200 कि.ग्रा. क्षमता तक 50 ग्रा. और 200 कि.ग्रा. से ऊपर की क्षमता के लिए 100 ग्रा. है। इसका अधिकतम टेंसर 10 कि.ग्रा. है। एल सी डी तोलन परिणाम उपदर्शित करता है। उपकरण 230 वोल्ट और 50-60 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है।




Figure 1  
Use film here




Figure 2  
Use film here

#### आकृति-2 उपकरण के मॉडल का सीलिंग प्रावधान

स्केल की बाड़ी के होल्स में से सीलिंग वायर निकाल कर सीलिंग की जाती है। मॉडल को सीलबंद करने के उपबंध का एक प्ररूपी योजनाबद्ध डायग्राम उपरोक्त दिया गया है।

उपकरण में बाहरी केलिब्रेशन तक पहुंच की सुविधा है। बाहरी केलिब्रेशन तक पहुंच को रोकने के लिए ए/डी कार्ड/मदर बोर्ड में डिप स्विच भी दिया गया है।

[फा. सं. डब्ल्यू एम-21(61)/2010]

बी. एन. दीक्षित, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 2nd May, 2012

**S.O. 2226.**—Whereas the Central Government after considering the report submitted to it by National Metrology Institute of Japan (NMIJ) is satisfied that the model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976(60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rule 1987 and the said model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (7) and (8) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the model of non-automatic weighing instrument (Body Composition Analyser) with digital indication of medium accuracy (Accuracy class-III) of series "MC" and brand name "TAN ITA" (hereinafter referred to as the said model), manufactured by M/s Tanita Akita Corporation, 28-1 Shimotamogizoe, Horiminai, Aza, Daisen-shi, Akita-ken, 014-0113, Japan and marketed in India without any alteration before and after sale by M/s Tanita India Pvt. Ltd. Level 9, Platina, C-59, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra(E), Mumbai- 400051 and which is assigned the approval mark IND/09/1 0/519;

The said model is a multi frequency impedance analysis based non-automatic weighing instrument (Body Composition Analyser) with a maximum capacity of 200 kg./270 kg. and minimum capacity of 1 kg. The verification scale interval (e) is 50 g. for capacity upto 200 kg. and 100g. for capacity above 200 kg. It has maximum tare of 10 kg. The LCD display indicates the weighing results, The instrument operates on 230 Volts, 50-60 Hertz alternative current power supply.

Figure-1




Figure-2 Sealing provision of the indicator of model.

Sealing is done by passing the sealing wire from the body of the scale through holes. A typical schematic diagram of sealing provision of the model is given above.

The instrument has external control to calibration. A dip switch has also been provided in A/D card/mother board to disable access to external calibration.

[F.No. WM-21(61)/2010]

B. N. DIXIT, Director of Legal Metrology



नई दिल्ली, 2 मई, 2012

का.आ. 2227.—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल (नीचे दी गई आकृति देखें) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) और उपधारा (8) द्वारा शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स जे. पी. सेमसंग वेइंग टेक्नोलोजी, गांव व डाक बांक पुर, जिला बिजनोर (उत्तर प्रदेश) द्वारा विनिर्मित उच्च यथार्थता (यथार्थता वर्ग II) वाले "जेपीएसटी" शृंखला के अंकक सूचन सहित अस्वचालित तोलन उपकरण (टेबलटॉप टाइप) के मॉडल का, जिसके ब्रांड का नाम "जेपी सेमसंग" है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/10/69 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण-पत्र जारी करती है।

उक्त मॉडल एक विकृत गेज प्रकार का भार सेल आधारित अस्वचालित तोलन उपकरण (टेबलटॉप प्रकार) है। इसकी अधिकतम क्षमता 30 कि.ग्रा. और न्यूनतम क्षमता 100 ग्रा. है। सत्यापन मापमान अंतराल (ई) 2 ग्रा. है। इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत प्रतिशत व्यवकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एलईडी) प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है। उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है।

आकृति-1



आकृति-2 : मॉडल को सीलिंग करने का योजनाबद्ध डायग्राम।

डिस्पले की बाड़ी में से सीलिंग वायर निकाल कर डिस्पले के टॉप साइड/बाटम साइड की ओर सीलिंग की जाती है। सील के साथ जुड़े हुए डिस्पले के बेस प्लेट और टॉप कवर में बने दो छेदों में से सीलिंग वायर निकाल कर सील से जोड़ा गया है। मॉडल को सीलबंद करने के उपबंध का एक प्ररूपी योजनाबद्ध डायग्राम उपरोक्त दिया गया है।

उपकरण में बाहरी केलिब्रेशन तक पहुंच की सुविधा है। बाहरी केलिब्रेशन तक पहुंच को रोकने के लिए ए/डी कार्ड/मदर बोर्ड में डिप स्विच भी दिया गया है।

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाण-पत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धांत, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे उक्त अनुमोदित मॉडल का विनिर्माण किया गया है, विनिर्मित उसी शृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 1 मि.ग्रा. से 50 मि.ग्रा. तक के "ई" मान के लिए 100 से 100,000 तक की रेंज में सत्यापन मापमान अंतराल (एन) और 100 मि.ग्रा. या उससे अधिक के "ई" मान के लिए 5000 से 100,000 तक की रेंज में सत्यापन मापमान अंतराल (एन) सहित 50 कि.ग्रा. तक की अधिकतम क्षमता वाले हैं और "ई" मान  $1 \times 10^{-6}$ ,  $2 \times 10^{-6}$ ,  $5 \times 10^{-6}$ , के हैं, जो घनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं।

[फा. सं. डब्ल्यू एम-21(71)/2010]

बी. एन. दीक्षित, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 2nd May, 2012

**S.O. 2227.**—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by prescribed authority, is satisfied that the model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (7) and (8) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the model of non-automatic weighing instrument (Table top type) with digital indication of High Accuracy (Accuracy Class-II) of series "JPST" and with brand name "JP SAAMSUNG" (hereinafter referred to as the said model), manufactured by M/s. J. P. Saamsung Weighing Technology, Village & Post Bank Pur, Distt. Bijnor (U.P) which is assigned the approval mark IND/09/10/69;

The said model is a strain gauge type load cell based non-automatic weighing instrument (Tabletop type) with a maximum capacity of 30 kg. and minimum capacity of 100g. The verification scale interval (e) is 2g. It has a tare device with a 100 per cent subtractive retained tare effect. The Light Emitting Diode (LED) display indicates the weighing result. The instrument operates on 230 Volts, 50 Hertz alternative current power supply.

Figure-1




Figure-2 : Schematic Diagram of sealing provision of the model.

Sealing is done on the top side/bottom side of the display by passing sealing wire from the body of the display. The seal is connected by whole in base plate and top cover of display, then seal wire is passed through these two holes attached with seal. A typical schematic diagram of sealing provision of the model is given above.

The instrument has external control to calibration. A dip switch has also been provided in A/D card/mother board to disable access to external calibration.

Further, in exercise of the powers conferred by sub-section (12) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the weighing instrument of similar make and performance of same series with maximum capacity up to 50 kg. and with number of verification scale interval (n) in the range of 100 to 100,000 for 'e' value of 1mg. to 50mg. and with number of verification scale interval (n) in the range of 5000 to 100,000 for 'e' value of 100mg. or more and with 'e' value of  $1 \times 10^4$ ,  $2 \times 10^4$  or  $5 \times 10^4$ , 'k' being the positive or negative whole number or equal to zero, manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which, the approved model has been manufactured.

[F.No. WM-21(71)2010]

B. N. DIXIT, Director of Legal Metrology




नई दिल्ली, 2 मई, 2012

**का.आ. 2228.**—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल (नीचे दी गई आकृति देखें) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) तथा बाट और माप मानक (माडलों का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) और उपधारा (8) द्वारा शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स जे. पी. सेमसंग वेइंग टेक्नोलोजी, गांव व डाक बांक पुर, जिला बिजनौर (उत्तर प्रदेश) द्वारा विनिर्मित मध्यम यथार्थता (यथार्थता वर्ग III) वाले "जेपीएसपी" शृंखला के अंकक सूचन सहित अस्वचालित तोलन उपकरण (प्लेटफार्म टाइप) के मॉडल का, जिसके ब्रांड का नाम "जेपी सेमसंग" है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/10/70 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण-पत्र जारी करती है।

उक्त मॉडल एक विकृत गेज प्रकार का भार सेल आधारित अस्वचालित तोलन उपकरण (प्लेटफार्म टाइप) है। इसकी अधिकतम क्षमता 200 कि.ग्रा. और न्यूनतम क्षमता 1 कि.ग्रा. है। सत्यापन मापमान अंतराल (ई) 50 ग्रा. है। इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत प्रतिशत व्यकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एलईडी) प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है। उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है।

आकृति-1



आकृति-2 : मॉडल को सीलिंग करने का योजनाबद्ध डायग्राम।

डिस्पले की बाडी में से सीलिंग वायर निकाल कर डिस्पले के टॉप साइड/बाटम साइड की ओर सीलिंग की जाती है। सील के साथ जुड़े हुए डिस्पले के बेस प्लेट और टॉप कवर में बने दो छेदों में से सीलिंग वायर निकाल कर सील से जोड़ा गया है। मॉडल को सीलबंद करने के उपबंध का एक प्ररूपी योजनाबद्ध डायग्राम उपरोक्त दिया गया है।

उपकरण में बाहरी केलिब्रेशन तक पहुंच की सुविधा है। बाहरी केलिब्रेशन तक पहुंच को रोकने के लिए ए/डी कार्ड/मदर बोर्ड में डिप स्विच भी दिया गया है।

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाण-पत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धांत, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे उक्त अनुमोदित मॉडल का विनिर्माण किया गया है, विनिर्मित उसी शृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 5 ग्रा.या उससे अधिक के "ई" मान के लिए 500 से 10000 तक की रेंज में सत्यापन मापमान अंतराल (एन) सहित 50 कि.ग्रा. से 5000 कि.ग्रा. तक की अधिकतम क्षमता वाले हैं और "ई" मान  $1 \times 10^*$ ,  $2 \times 10^*$ ,  $5 \times 10^*$ , के हैं, जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं।

[फा. सं. डब्ल्यू एम-21(71)/2010]

बी. एन. दीक्षित, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 2nd May, 2012

**S.O. 2228.**—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by prescribed authority, is satisfied that the model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (7) and (8) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the model of non-automatic weighing instrument (Platform type) with digital indication of Medium Accuracy (Accuracy Class-III) of series "JPSP" and with brand name "JP SAAMSUNG" (hereinafter referred to as the said model), manufactured by M/s. J. P. Saamsung Weighing Technology, Village & Post Bank Pur, Distt., Bijnor (U.P) which is assigned the approval mark IND/09/10/70.

The said model is a strain gauge type load cell based non-automatic weighing instrument (Platform type) with a maximum capacity of 200 kg. and minimum capacity of 1 kg. The verification scale interval (e) is 50g. It has a tare device with a 100 percent subtractive retained tare effect. The Light Emitting Diode (LED) display indicates the weighing result. The instrument operates on 230 Volts, 50 Hertz alternative current power supply.

Figure-1




Figure-2 : Schematic Diagram of sealing provision of the model.

Sealing is done on the top side/bottom side of the display by passing sealing wire from the body of the display. The seal is connected by whole in base plate and top cover of display, than seal wire is passed through these two holes attached with seal. A typical schematic diagram of sealing provision of the model is given above.

The instrument has external control to calibration. A dip switch has also been provided in A/D card/mother board to disable access to external calibration.

Further, in exercise of the power conferred by sub-section (12) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the weighing instruments of similar make accuracy and performance of same series with maximum capacity above 50 kg. up to 5000 kg. with verification scale interval (n) in the range of 500 to 10,000 for 'e' value of 5g. or more and with 'e' value of  $1 \times 10^k$ ,  $2 \times 10^k$  or  $5 \times 10^k$ , where 'k' is a positive or negative whole number or equal to zero, manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which, the said approved model has been manufactured.

[F. No. WM-21(71)2010]

B. N. DIXIT, Director of Legal Metrology

नई दिल्ली, 4 मई, 2012

**का.आ. 2229.**—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल (नीचे दी गई आकृति देखें) विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) तथा विधिक माप विज्ञान (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 2011 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, विधिक माप विज्ञान (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 2011 के नियम 8 के उप-नियम (6) और नियम 11 के उप-नियम (4) के साथ पठित विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) की धारा 22 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स रामसंस आटोमेशन सिस्टम्स, #187, सुपराजनगर, चुन्नाघट्टा मैन् रोड, कौनानकुंते पोस्ट, बंगलोर-560062 द्वारा विनिर्मित मध्यम यथार्थता (यथार्थता वर्ग III) वाले “आरएसटी” शृंखला के अंकक सूचन सहित अस्वचालित तोलन उपकरण (टेबल टॉप टाइप) के मॉडल का, जिसके ब्रांड का नाम “रामसंस” है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/11/533 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण-पत्र जारी करती है।

उक्त मॉडल एक विकृत गेज प्रकार का भार सेल आधारित अस्वचालित तोलन उपकरण (टेबल टॉप टाइप) है। इसकी अधिकतम क्षमता 35 कि.ग्रा. है और न्यूनतम क्षमता 100 ग्रा. है। सत्यापन मापमान अंतराल (ई) 5 कि.ग्रा. है। इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत प्रतिशत व्यवकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एलईडी) प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है। उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है।

### आकृति-1



### आकृति-2 : मॉडल को सीलिंग करने का योजनाबद्ध डायग्राम।

डिस्पले की बाड़ी में से सीलिंग वायर निकालकर डिस्पले पर सीलिंग की जाती है। सील के साथ जुड़े हुए डिस्पले के बेस प्लेट और टॉप कवर में बने दो छेदों में से सीलिंग वायर निकालकर सील से जोड़ा गया है। मॉडल को स्पिलबंद करने के उपबंध का एक प्ररूपी योजनाबद्ध डायग्राम उपरोक्त दिया गया है।

उपकरण में बाहरी केलिब्रेशन तक पहुंच की सुविधा है। बाहरी केलिब्रेशन तक पहुंच को रोकने के लिए ए/डी कार्ड/मदर बोर्ड में डिप स्विच भी दिया गया है।

और केन्द्रीय सरकार विधिक माप विज्ञान (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 2011 के नियम 8 के उप-नियम (9) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाण-पत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धांत, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे उक्त अनुमोदित मॉडल का विनिर्माण किया गया है, विनिर्मित उसी शृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 100 मि.ग्रा. से 2 ग्रा. तक के “ई” मान के लिए 100 से 10,000 तक की रेंज में सत्यापन मापमान अंतराल (एन) और 5 ग्रा. या उससे अधिक के “ई” मान के लिए 500 से 10,000 तक की रेंज में सत्यापन मापमान अंतराल (एन) सहित 50 कि.ग्रा. तक की अधिकतम क्षमता वाले हैं और “ई” मान  $1 \times 10^3$ ,  $2 \times 10^3$  या  $5 \times 10^3$ , के हैं, जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं।

[फा. सं. डब्ल्यू एम-21(299)/2011]

बी. एन. दीक्षित, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 4th May, 2012

**S.O. 2229.**—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) and the Legal Metrology (Approval of Models) Rules, 2011 and the said model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 22 of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) read with sub-rule (6) of rule 8 and sub-rule (4) of rule 11 of the Legal Metrology (Approval of Models) Rules, 2011, the Central Government hereby publishes the certificate of approval of the model of non-automatic weighing instrument (Table top type) with digital indication of medium accuracy (accuracy, class-III) of series "RST" and with brand name "RAMSONS" (hereinafter referred to as the said model), manufactured by M/s Ramsons Automation Systems, #187, Suprajanagar, Chunchaghatta Main Road, Konanakunte Post, Bangalore-560062 and which is assigned the approval mark IND/09/11/533.

The said model is a strain gauge type load cell based non-automatic weighing instrument (Table top type) with a maximum capacity of 35kg and minimum capacity of 100g. The verification scale interval (e) is 5g. It has a tare device with a 100 per cent subtractive retained tare effect. The light emitting diode (LED) display indicates the weighing result. The instrument operates on 230Volts, 50Hertz alternative current power supply.



Figure-2 : Schematic Diagram of the sealing provision of the model.

Sealing is done on the display by passing sealing wire from the body of the display. The seal is connected by whole in base plate and top cover of display, than seal wire is passed through these two holes attached with seal. A typical schematic diagram of sealing provision of the model is given above.

The instrument has external control to calibration. A dip switch has also been provided in mother board to disable access to external calibration.

Further, in exercise of the power conferred by sub-rule (9) of rule 8 of the Legal Metrology (Approval of Models) Rules, 2011, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the weighing instruments of similar make, accuracy and performance of same series with maximum capacity up to 50kg with verification scale interval (n) in the range of 100 to 10000 for 'e' value of 100mg to 2g and with verification scale interval (n) in the range of 500 to 10000 for 'e' value of 5g or more and with 'e' value of  $1 \times 10^k$ ,  $2 \times 10^k$  or  $5 \times 10^k$ , where k is a positive or negative whole number or equal to zero, manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which, the said approved model has been manufactured.

[F.No. WM-21(299)/2011]

B. N. DIXIT, Director of Legal Metrology


नई दिल्ली, 4 मई, 2012

**का.आ. 2230.**—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल (नीचे दी गई आकृति देखें) विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) तथा विधिक माप विज्ञान (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 2011 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, विधिक माप विज्ञान (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 2011 के नियम 8 के उप-नियम (6) और नियम 11 के उप-नियम (4) के साथ पठित विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) की धारा 22 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स रामसंस आटोमेशन सिस्टम्स, #187, सुपराजनगर, चुन्नाघट्टा मैन् रोड, कोनानकुंते पोस्ट, बंगलोर-560062 द्वारा विनिर्मित मध्यम यथार्थता (यथार्थता वर्ग III) वाले “आरएसपी” शृंखला के अंकक सूचन सहित अस्वचालित तोलन उपकरण (प्लेटफार्म टाइप) के मॉडल का, जिसके ब्रांड का नाम “रामसंस” है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/11/534 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण-पत्र जारी करती है।

उक्त मॉडल एक विकृत गेज प्रकार का भार सेल आधारित अस्वचालित तोलन उपकरण (प्लेटफार्म टाइप) है। इसकी अधिकतम क्षमता 1500 कि.ग्रा. और न्यूनतम क्षमता 4 कि.ग्रा. है। सत्यापन मापमान अंतराल (ई) 200 कि.ग्रा. है। इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत-प्रतिशत व्यवकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एलईडी) प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है। उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है।

आकृति-1



आकृति-2 मॉडल को सीलिंग करने का योजनाबद्ध डायग्राम।

डिस्पले की बाड़ी में से सीलिंग वायर निकाल कर डिस्पले पर सीलिंग की जाती है। सील के साथ जुड़े हुए डिस्पले के बेस प्लेट और टॉप कवर में बने दो छेदों में से सीलिंग वायर निकाल कर सील से जोड़ा गया है। मॉडल को सीलबंद करने के उपबंध का एक प्ररूपी योजनाबद्ध डायग्राम उपरोक्त दिया गया है।

उपकरण में बाहरी केलिब्रेशन तक पहुंच की सुविधा है। बाहरी केलिब्रेशन तक पहुंच को रोकने के लिए ए/डी कार्ड/मदर बोर्ड में डिप स्विच भी दिया गया है।

और केन्द्रीय सरकार विधिक माप विज्ञान (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 2011 के नियम 8 के उप-नियम (9) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाण-पत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धांत, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे उक्त अनुमोदित मॉडल का विनिर्माण किया गया है, विनिर्मित उसी शृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 5 ग्रा. या उससे अधिक के “ई” मान के लिए 500 से 10,000 तक की रेंज में सत्यापन मापमान अंतराल (एन) सहित 50 कि.ग्रा. से 5000 कि.ग्रा. तक की अधिकतम क्षमता वाले हैं और “ई” मान  $1 \times 10^*$ ,  $2 \times 10^*$  या  $5 \times 10^*$  के हैं, जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं।

[फा. सं. डब्ल्यू एम 21(299)/2011]

बी. एन. दीक्षित, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 4th May, 2012

**S.O. 2230.**—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) and the Legal Metrology (Approval of Models) Rules, 2011 and the said model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 22 of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) read with sub-rule (6) of rule 8 and sub-rule (4) of rule 11 of the Legal Metrology (Approval of Models) Rules, 2011, the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the model of non-automatic weighing instrument (Platform type) with digital indication of medium accuracy (accuracy class-III) of series "RSP" and with brand name "RAMSONS" (hereinafter referred to as the said model), manufactured by M/s Ramsons Automation Systems, #187, Suprajanagar, Chunchaghatta Main Road, Konanakunte Post, Bangalore-560062 and which is assigned the approval mark IND/09/11/534.

The said model is a strain gauge type load cell based non-automatic weighing instrument (Platform type) with a maximum capacity of 1500 kg. and minimum capacity of 4 kg. The verification scale interval (e) is 200g. It has a tare device with a 100 per cent subtractive retained tare effect. The light emitting diode (LED) display indicates the weighing result. The instrument operates on 230Volts, 50Hertz alternative current power supply.

Figure-1




Figure-2: Schematic Diagram of the sealing provision of the model.

Sealing is done on the display by passing sealing wire from the body of the display. The seal is connected by a hole in the base plate and top cover of the display, then the seal wire is passed through these two holes attached with a seal. A typical schematic diagram of the sealing provision of the model is given above.

The instrument has external control to calibration. A dip switch has also been provided in the mother board to disable access to external calibration.

Further, in exercise of the powers conferred by sub-rule (9) of rule 8 of the Legal Metrology (Approval of Models) Rules, 2011, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the weighing instruments of similar make, accuracy and performance of the same series with maximum capacity above 50kg. and up to 5000 kg. with verification scale interval (n) in the range of 500 to 10000 for 'e' value of 5g. or more and with 'e' value of  $1 \times 10^k$ ,  $2 \times 10^k$  or  $5 \times 10^k$ , where k is a positive or negative whole number or equal to zero, manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which, the said approved model has been manufactured.

[F. No. WM-21(299)/2011]

B. N. DIXIT, Director of Legal Metrology


नई दिल्ली, 4 मई, 2012

**का.आ. 2231.**—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल (नीचे दी गई आकृति देखें) विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) तथा विधिक माप विज्ञान (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 2011 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, विधिक माप विज्ञान (माडलों का अनुमोदन) नियम, 2011 के नियम 8 के उप-नियम (6) और नियम 11 के उप-नियम (4) के साथ पठित विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) की धारा 22 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स हिंदुस्तान वेइंग स्केल, आरजेड-50ए, ईस्ट उत्तम नगर, इंदिरा पार्क, एक्सटेंशन उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059 द्वारा विनिर्मित उच्च यथार्थता (यथार्थता वर्ग II) वाले "एचडब्ल्यूएसटी" शृंखला के अंकक सूचन सहित अस्वचालित तोलन उपकरण (टेबल टॉप टाइप) के मॉडल का, जिसके ब्रांड का नाम "लिओसैन" है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/11/559 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण-पत्र जारी करती है।

उक्त मॉडल एक विकृत गेज प्रकार का भार सेल आधारित अस्वचालित तोलन उपकरण (टेबल टॉप टाइप) है। इसकी अधिकतम क्षमता 30 कि.ग्रा. है और न्यूनतम क्षमता 100 ग्रा. है। सत्यापन मापमान अंतराल (ई) 2 ग्रा. है। इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत प्रतिशत व्यवकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एलईडी) प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है। उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है।

आकृति-1



आकृति-2 मॉडल को सीलिंग करने का योजनाबद्ध डायग्राम।

डिस्पले की बाड़ी में से सीलिंग वायर निकाल कर डिस्पले पर सीलिंग की जाती है। सील के साथ जुड़े हुए डिस्पले के बेस प्लेट और थ्रॉप कवर में बने दो छेदों में से सीलिंग वायर निकाल कर सील से जोड़ा गया है। मॉडल को सीलबंद करने के उपबंध का एक प्ररूपी योजनाबद्ध डायग्राम उपरोक्त दिया गया है।

उपकरण में बाहरी केलिब्रेशन तक पहुंच की सुविधा है। बाहरी केलिब्रेशन तक पहुंच को रोकने के लिए ए/डी कार्ड/मदर बोर्ड में डिप स्विच भी दिया गया है।

और केन्द्रीय सरकार विधिक माप विज्ञान (माडलों का अनुमोदन) नियम, 2011 के नियम 8 के उप-नियम (9) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाण-पत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धांत, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे उक्त अनुमोदित मॉडल विनिर्माण किया गया है, विनिर्मित उसी शृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 1 मि.ग्रा. से 50 मि. ग्रा. तक के "ई" मान के लिए 100 से 100,000 तक की रेंज में सत्यापन मापमान अंतराल (एन) और 100 मि.ग्रा. या उससे अधिक के "ई" मान के लिए 5000 से 100,000 तक की रेंज में सत्यापन मापमान अंतराल (एन) सहित 50 कि.ग्रा. तक की अधिकतम क्षमता वाले हैं और "ई" मान  $1 \times 10^*$ ,  $2 \times 10^*$ ,  $5 \times 10^*$ , के हैं, जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं।

[फा. सं. डब्ल्यू एम-21(256)/2011]

बी. एन. दीक्षित, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 4th May, 2012

**S.O. 2231.**—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) and the Legal Metrology (Approval of Models) Rules, 2011 and the said model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 22 of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) read with sub-rule (6) of rule 8 and sub-rule (4) of rule 11 of the Legal Metrology (Approval of Models) Rules, 2011, the Central Government hereby publishes the certificate of approval of the model of non-automatic weighing instrument (Table top type) with digital indication of high accuracy (accuracy, class-II) of series "HWST" and with brand name "LEOSAIN" (hereinafter referred to as the said model), manufactured by M/s. Hindustan Weighing Scale, RZ-50A, East Uttam Nagar, Indra Park, Extension Uttam Nagar, New Delhi-110059 and which is assigned the approval mark IND/09/11/ 559.

The said model is a strain gauge type load cell based non-automatic weighing instrument (Table top type) with a maximum capacity of 30 kg. and minimum capacity of 100 g. The verification scale interval (e) is 2g. It has a tare device with a 100 per cent subtractive retained tare effect. The light emitting diode (LED) display indicates the weighing result. The instrument operates on 230Volts, 50Hertz alternative current power supply.

Figure-1




Figure-2 : Schematic Diagram of the sealing provision of the model.

Sealing is done on the display by passing sealing wire from the body of the display. The seal is connected by whole in base plate and top cover of display, than seal wire is passed through these two holes attached with seal. A typical schematic diagram of sealing provision of the model is given above.

The instrument has external control to calibration. A dip switch has also been provided in mother board to disable access to external calibration.

Further, in exercise of the powers conferred by sub-rule (9) of rule 8 of the Legal Metrology (Approval of Models) Rules, 2011, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the weighing instruments of similar make, accuracy and performance of same series with maximum capacity up to 50kg. with verification scale interval (n) in the range of 100 to 100,000 for 'e' value of 1 mg. to 50mg. and with verification scale interval (n) in the range of 5000 to 100,000 for 'e' value of 100 mg. or more and with 'e' value of  $1 \times 10^k$ ,  $2 \times 10^k$  or  $5 \times 10^k$ , where k is a positive or negative whole number or equal to zero, manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which, the said approved model has been manufactured.

[F. No. WM-21(256)/2011]

B. N. DIXIT, Director of Legal Metrology




नई दिल्ली, 4 मई, 2012

का.आ. 2232.—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल (नीचे दी गई आकृति देखें) विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) तथा विधिक माप विज्ञान (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 2011 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, विधिक माप विज्ञान (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 2011 के नियम 8 के उप-नियम (6) और उप-नियम 11 के उप-नियम (4) के साथ पठित विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) की धारा 22 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स हिंदुस्तान वेइंग स्केल, आरजेड-50ए, ईस्ट उत्तम नगर, इंदिरा पार्क, एक्सटेंशन उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059 द्वारा विनिर्मित मध्यम यथार्थता (यथार्थता वर्ग III) वाले "एचडब्ल्यूएसपी" शृंखला के अंकक सूचन सहित अस्वचालित तोलन उपकरण (प्लेटफार्म टाइप) के मॉडल का, जिसके ब्रांड का नाम "लिओसैन" है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/11/560 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण-पत्र जारी करती है।

उक्त मॉडल एक विकृत गेज प्रकार का भार सेल आधारित अस्वचालित तोलन उपकरण (प्लेटफार्म टाइप) है। इसकी अधिकतम क्षमता 500 कि.ग्रा. और न्यूनतम क्षमता 2 कि.ग्रा. है। सत्यापन मापमान अंतराल (ई) 100 ग्रा. है। इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत प्रतिशत व्यवकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एलईडी) प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है। उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है।

आकृति-1



(Indicator of the Platform Scale-Front View)

आकृति-2 मॉडल को सीलिंग करने का योजनाबद्ध डायग्राम।

डिस्पले की बाड़ी में से सीलिंग वायर निकाल कर डिस्पले पर सीलिंग की जाती है। सील के साथ जुड़े हुए डिस्पले के बेस प्लेट और टॉप कवर में बने दो छेदों में से सीलिंग वायर निकाल कर सील से जोड़ा गया है। मॉडल को सीलबंद करने के उपबंध का एक प्ररूपी योजनाबद्ध डायग्राम उपरोक्त दिया गया है।

उपकरण में बाहरी केलिब्रेशन तक पहुंच की सुविधा है। बाहरी केलिब्रेशन तक पहुंच को रोकने के लिए ए/डी कार्ड/मदर बोर्ड में डिप स्विच भी दिया गया है।

और केन्द्रीय सरकार विधिक माप विज्ञान (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 2011 के नियम 8 के उप-नियम (9) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाण-पत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धांत, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे उक्त अनुमोदित मॉडल विनिर्माण किया गया है, विनिर्मित उसी शृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 5 ग्रा. या उससे अधिक के "ई" मान के लिए 500 से 100,00 तक की रेंज में सत्यापन मापमान अंतराल (एन) सहित 50 कि.ग्रा. से 5000 कि.ग्रा. तक की अधिकतम क्षमता वाले हैं और "ई" मान  $1 \times 10^3$ ,  $2 \times 10^3$ ,  $5 \times 10^3$ , के हैं, जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं।

[फा. सं. डब्ल्यू एम-21(256)/2011]

बी. एन. दीक्षित, निदेशक, विधिक माप विज्ञान


New Delhi, the 4th May, 2012

**S.O. 2232.**—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) and the Legal Metrology (Approval of Models) Rules, 2011 and the said model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 22 of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) read with sub-rule (6) of rule 8 and sub-rule (4) of rule 11 of the Legal Metrology (Approval of Models) Rules, 2011, the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the model of non-automatic weighing instrument (Platform type) with digital indication of medium accuracy (accuracy class-III) of series "HWSP" and with brand name "LEOSAIN" (hereinafter referred to as the said model), manufactured by M/s. Hindustan Weighing Scale, RZ-50A, East Uttam Nagar, Indra Park, Extension Uttam Nagar, New Delhi-110059 and which is assigned the approval mark IND/09/11/560.

The said model is a strain gauge type load cell based non-automatic weighing instrument (Platform type) with a maximum capacity of 500 kg. and minimum capacity of 2 kg. The verification scale interval (e) is 100g. It has a tare device with a 100 per cent subtractive retained tare effect. The light emitting diode (LED) display indicates the weighing result. The instrument operates on 230Volts, 50Hertz alternative current power supply.

Figure-1



Indicator of the Platform Scale-Front

Figure-2 Schematic Diagram of the sealing provision of the model.

Sealing is done on the display by passing sealing wire from the body of the display. The seal is connected by whole in base plate and top cover of display, than seal wire is passed through these two holes attached with seal. A typical schematic diagram of sealing provision of the model is given above.

The instrument has external control to calibration. A dip switch has also been provided in mother board to disable access to external calibration.

Further, in exercise of the powers conferred by sub-rule (9) of rule 8 of the Legal Metrology (Approval of Models) Rules, 2011, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the weighing instruments of similar make, accuracy and performance of same series with maximum capacity above 50kg. and up to 5000 kg. with verification scale interval (n) in the range of 500 to 10000 for 'e' value of 5g. or more and with 'e' value of  $1 \times 10^k$ ,  $2 \times 10^k$  or  $5 \times 10^k$ , where k is a positive or negative whole number or equal to zero, manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which, the said approved model has been manufactured.

[F. No. WM-21(256)/2011]

B. N. DIXIT, Director of Legal Metrology


नई दिल्ली, 4 मई, 2012

**का.आ. 2233.**—केन्द्रीय सरकार का, एन एम आई सर्टिफिकेट की. बी., दी नोबरलैंड द्वारा जारी प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल (नीचे दी गई आकृति देखें) विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) तथा विधिक माप विज्ञान (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 2011 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, विधिक माप विज्ञान (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 2011 के नियम 8 के उप-नियम (6) और नियम 11 के उप-नियम (4) के साथ पठित विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) की धारा 22 के दूसरे परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तों का प्रयोग करते हुए मैसर्स ब्रोडी मीटर कं. एलएलसी, 19267, यूएस हाइवे 301 एन, स्टेट्सबोरो, जीए 30461, यूएसए द्वारा विनिर्दिष्ट यथार्थता वर्ग '0.3' वाले, 'एसबी 25 एक्स', श्रृंखला के जहां एक्स मीटर की दाब रेटिंग दर्शाने के लिए कोड है, के मॉडल का, जिसके ब्रांड का नाम 'बाइरोटोर प्लस, पीडी-मीटर' (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है) और जिसका प्रयोग पानी के अलावा अन्य द्रव्यों के मापन ट्रांसड्यूसर जो मापन उपकरण के भाग के रूप में ओ. आई.एम. एल.आर. 117-1: 2007 (ई) गतिशील मापन प्रणाली के अनुसार प्रयोग किया जाता है (पाइप लाइन की मापन प्रणाली, जहाज टैंक, और रेल तथा रोड टैंकर की उतराई के लिए मापन प्रणाली एवं जहाजों में माल को चढ़ाने के लिए मापन प्रणाली) और जिसे मैसर्स एडवांसड सिस्टेक प्रा. लि. 299/300, जी आई डी सी, मकरपुरा, कडोदस-390010, गुजरात द्वारा बिक्री से पहले अथवा बाद में बिना कोई परिवर्तन किए भारत में विपणित किया गया है और जिसे अनुमोदन चिह्न आई.एन.डी./13/11/469 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण-पत्र जारी करती है।

संदर्भित मॉडल मैकेनिकल पाजीटिव डिस्प्लेसमेंट के सिद्धान्त पर आधारित है जिसमें परिवेशीय तापमान की सीमा-25°C से +55°C (कन्डेन्सिंग, खुली स्थिति में) और तरल तापमान की सीमा-10°C से +55°C तक है। अन्य तकनीकी ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

Min. flow rate (Qmin)	Depends on viscosity of the product
	Viscosity (m Pa.s)      Flow rate (L/min)
	0.4-0.8      —
	0.8-2      57
	2-5      57
Max. flow rate (Qmax)	570 L/min
Minimum measured quantity sensor	10 L
Diameter in-and outlet	50 mm (2")
Cyclic volume	0.129 L
K-factor	252 pulses/L
Max. viscosity	5 m Pa.s
Pmax	Depends on pressure rating; upto 51 bar
Max pressure drop	1.37 bar (20 PSI)
Bearing	Stainless Steel/Ceramic
Construction details	Single casing; Requires adjustment when used for different liquids
आकृति-1	



आकृति-2 : मॉडल के इंडीकेटर को सीलिंग करने का प्रावधान

मॉडल को उपरोक्त आकृति में दिखाए गए अनुसार सील किया जाता है। इसके अलावा, कपटपूर्ण व्यवहार के लिए मशीन को खोले जाने से रोकने के लिए भी सीलिंग की जाती है।

[फा. सं. डब्ल्यू.एम. 21(193)/2011]

बी. एन. दीक्षित, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 4th May, 2012

**S.O. 2233.**—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it along with the model approval certificate issued by the NMI Certin, B.V., The Netherlands is satisfied that the model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) and the Legal Metrology (Approval of Models) Rules, 2011 and the said model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the second proviso to Section 22 of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) and sub-rule (6) of rule 8 and sub-rule (4) of rule 11 of the Legal Metrology (Approval of Models) Rules, 2011, the Central Government hereby approves, issues and publishes the certificate of approval of model of a measurement transducer intended to be used as a part of measurement instrument as per OIML R117-1:2007(E) dynamic measuring systems for liquids other than water (Measuring systems on pipelines & Measuring systems for the unloading of ships, tanks and rail and road tankers) of accuracy class-'0.3', series-'SB25X'; where X is code for indicating the pressure rating of the meter' and brand name "BiRotor Plus, PD-meter (hereinafter referred to as the said model) manufactured by M/s Brodie Meter Co. LLC, 19267, US Highway 301 N, Statesboro, GA 30461, USA and marketed in India without any alteration before or after sale by M/s Advanced Systek Pvt. Ltd, 299/300, GIDC, Makarpura, Vadodara-390010, Gujarat and which is assigned the approval mark IND/13/11/469;

The said model is based on the principle of mechanical positive displacement having following ambient temperature range from -25°C to +55°C, (condensing, open location) and liquid temperature range from -10°C to +55°C. Other technical details are:

Min. flow rate (Qmin)	Depends on viscosity of the product	
	Viscosity (m Pa.s)	Flow rate (L/min)
	0.4-0.8	—
	0.8-2	57
	2.5	57
Max. flow rate (Qmax)	570 L/min	
Minimum measured quantity sensor	10 L	
Diameter in-and outlet	50 mm (2")	
Cyclic volume	0.129 L	
K-factor	252 pulses/L	
Max. viscosity	5m Pa.s	
Pmax	Depends on pressure rating; upto 51 bar	
Max pressure drop	1.37 bar (20 PSI)	
Bearing	Stainless Steel/Ceramic	
Construction details	Single casing; Requires adjustment when used for different liquids	

Figure-1




Figure-2 : Sealing arrangement

The model is sealed as shown in figure above. In addition, sealing shall also be done to prevent the opening of the machine for fraudulent practices.

[F.No. WM-21(193)/2011]

B. N. DIXIT, Director of Legal Metrology

नई दिल्ली, 4 मई, 2012


क्र.आ. 2234.—केन्द्रीय सरकार का, एन एम आई सरटिन बी. वी., दी नीदरलैंड द्वारा जारी प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल (नीचे दी गई आकृति देखें) विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) तथा विधिक माप विज्ञान (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 2011 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, विधिक माप विज्ञान (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 2011 के नियम 8 के उप-नियम (6) और नियम 11 के उप-नियम (4) के साथ पठित विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) की धारा 22 के दूसरे परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स ब्रोडी मीटर कं. एलएलसी, 19267, यूएस हाइवे 301 एन, स्टेट्सबोरो, जीए 30461, यूएसए द्वारा विनिर्मित यथार्थता वर्ग '0.5' वाले, 'एसबी 25 एक्स', श्रृंखला के जहां एक्स मीटर की दाब रेटिंग दर्शाने के लिए कोड है, के मॉडल का, जिसके ब्रांड का नाम 'बाइरोटर प्लस, पीडी-मीटर' (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है) और जिसका प्रयोग पानी के अलावा अन्य द्रव्यों के मापन ट्रांसड्यूसर जो मापन उपकरण के भाग के रूप में ओ. आई. एम. एल आर 117+1: 2007 (ई) गतिशील मापन प्रणाली के अनुसार प्रयोग किया जाता है (पाइप लाइन की मापन प्रणाली, जहाज़ टैंक, और रेल तथा रोड टैंकर की उतराई के लिए मापन प्रणाली एवं जहाजों में माल को चढ़ाने के लिए मापन प्रणाली) और जिसे मैसर्स एडवांसड सिस्टेक प्रा. लि. 299/300, जी आई डी सी, मकरपुरा, वडोदरा-390010, गुजरात द्वारा बिक्री से पहले अथवा बाद में बिना कोई परिवर्तन किए भारत में विपणित किया गया है और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/13/11/470 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण-पत्र जारी करती है।

संदर्भित मॉडल मैकेनिकल पाजीटिव डिस्प्लेस्मेंट के सिद्धान्त पर आधारित है जिसमें परिवेशीय तापमान की सीमा -25°C से +55°C (कन्डेन्सिंग, खुली स्थिति में) और तरल तापमान की सीमा -10°C से +55°C (से तक है। अन्य तकनीकी ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-

Min. flow rate (Qmin)	Depends on viscosity of the product	
	Viscosity (m Pa.s)	Flow rate (L/min)
	0.4-0.8	30
	0.8-2	20
	2-5	57
Max. flow rate (Qmax)	570 L/min	
Minimum measured quantity sensor	10 L	
Diameter in-and outlet	50 mm (2")	
Cyclic volume	0.129 L	
K-factor	252 pulses/L	
Max. viscosity	5m Pa.s	
Pmax	Depends on pressure rating; upto 51 bar	
Max pressure drop	1.37 bar (20 PSI)	
Bearing	Stainless Steel/Ceramic	
Construction details	Single casing; Requires adjustment when used for different liquids	

आकृति-1



आकृति-2 : मॉडल के इंडीकेटर को सीलिंग करने का प्रावधान

मॉडल को उपरोक्त आकृति में दिखाए गए अनुसार सील किया जाता है। इसके अलावा, कपटपूर्ण व्यवहार के लिए मशीन को खोले जाने से रोकने के लिए भी सीलिंग की जाती है।

[फा. सं. डब्ल्यू एम-21(193)/2011]

बी. एन. दीक्षित, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 4th May, 2012

**S.O. 2234.**—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it along with the model approval certificate issued by the NMi Certin, B.V., The Netherlands is satisfied that the model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) and the Legal Metrology (Approval of Models) Rules, 2011 and the said model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the second proviso to Section 22 of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) and sub-rule (6) of rule 8 and sub-rule (4) of rule 11 of the Legal Metrology (Approval of Models) Rules, 2011, the Central Government hereby approves, issues and publishes the certificate of approval of model of a measurement transducer intended to be used as a part of measurement instrument as per OIML R117-1:2007(E) dynamic measuring systems for liquids other than water (Measuring systems on pipelines & Measuring systems for the unloading of ships, tanks and rail and road tankers) of accuracy class-'0.5', series-'SB25X'; where X is code for indicating the pressure rating of the meter' and brand name "BiRotor Plus, PD-meter" (hereinafter referred to as the said model) manufactured by M/s. Brodie Meter Co. LLC, 19267, US Highway 301 N, Statesboro, GA 30461, USA and marketed in India without any alteration before or after sale by M/s Advanced Systek Pvt. Ltd, 299/300, GIDC, Makarpura, Vadodara-390010, Gujarat and which is assigned the approval mark IND/13/11/470;

The said model is based on the principle of mechanical positive displacement having following ambient temperature range from -25°C to +55°C, (condensing, open location) and liquid temperature range from -10°C to +55°C. Other technical details are:

Min. flow rate (Q min)	Depends on viscosity of the product	
	Viscosity (m Pa.s)	Flow rate (L/min)
	0.4-0.8	30
	0.8-2	20
	2-5	57
Max. flow rate (Q max)	570 L/min	
Minimum measured quantity sensor	10 L	
Diameter in-and outlet	50 mm (2")	
Cyclic volume	0.129 L	
K-factor	252 pulses/L	
Max. viscosity	5m Pa.s	
P max	Depends on pressure rating; upto 51 bar	
Max pressure drop	1.37 bar (20 PSI)	
Bearing	Stainless Steel/Ceramic	
Construction details	Single casing; Requires adjustment when used for different liquids	

Figure-1




Figure-2 : Sealing arrangement

The model is sealed as shown in figure above. In addition, sealing shall also be done to prevent the opening of the machine for fraudulent practices.

[F. No. WM-21(193)2011]  
B. N. DIXIT, Director of Legal Metrology



नई दिल्ली, 4 मई, 2012

**का.आ. 2235.**—केन्द्रीय सरकार का, एन एम आई सरटिन बी. बी., दी नीदरलैंड द्वारा जारी प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल (नीचे दी गई आकृति देखें) विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) तथा विधिक माप विज्ञान (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 2011 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, विधिक माप विज्ञान (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 2011 के नियम 8 के उप-नियम (6) और नियम 11 के उप-नियम (4) के साथ पठित विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) की धारा 22 के दूसरे परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स ब्रोडी मीटर कं. एलएलसी, 19267, यूएस हाइवे 301 एन, स्टेट्सबोरो, जीए 30461, यूएसए द्वारा विनिर्मित यथार्थता वर्ग '0.5' वाले, 'बी 27 एक्स', शृंखला के जहां एक्स मीटर की दाब रेटिंग दर्शाने के लिए कोड है, के मॉडल का, जिसके ब्रांड का नाम 'बाइरोटर प्लस, पीडी-मीटर' (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है) और जिसका प्रयोग पानी के अलावा अन्य द्रव्यों के मापन ट्रांसड्यूसर जो मापन उपकरण के भाग के रूप में ओ. आई एम. एल आर 117-1-2007 (ई) गतिशील मापन प्रणाली के अनुसार प्रयोग किया जाता है (पाइप लाइन की मापन प्रणाली, जहाज टैंक, और रेल तथा रोड टैंकर की उतराई के लिए मापन प्रणाली एवं जहाजों में माल को चढ़ाने के लिए मापन प्रणाली) और जिसे मैसर्स एडवांस्ड सिस्टेक प्रा. लि. 299/300, जी आई डी सी, मकरपुरा, वडोदरा-390010, गुजरात द्वारा बिक्री से पहले अथवा बाद में बिना कोई परिवर्तन किए भारत में विपणीत किया गया है और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/13/11/471 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण-पत्र जारी करती है।

संदर्भित मॉडल मैकेनिकल पाजीटिव डिस्प्लेस्मेंट के सिद्धान्त पर आधारित है जिसमें परिवेशीय तापमान की सीमा-25°C से +55°C (कन्डेन्सिंग, खुली स्थिति में) और तरल तापमान की सीमा-10°C से +55°C तक है। अन्य तकनीकी ब्यौरे निम्नानुसार हैं :—

Min. flow rate ( $Q_{min}$ )	114 L/min
Max. flow rate ( $Q_{max}$ )	2081 L/min
Minimum measured quantity sensor	100 L
Diameter in-and outlet.	80 mm (3")
Cyclic volume	0.937 L
K-factor	42 pulses/L
Max. viscosity	400 m Pa.s
P max	Depends on pressure rating; upto 51 bar
Max pressure drop	1.37 bar (20 PSI)
Bearing	Stainless Steel/Ceramic
construction details	Double casing; Requires adjustment when used for different liquids
आकृति-1	



आकृति-2 : मॉडल के इंडीकेटर को सीलिंग करने का प्रावधान

मॉडल को उपरोक्त आकृति में दिखाए गए अनुसार सील किया जाता है। इसके अलावा, कपटपूर्ण व्यवहार के लिए मशीन को खोले जाने से रोकने के लिए भी सीलिंग की जाती है।

[फा. सं. डब्ल्यू एम-21(193)/2011]

बी. एन. दीक्षित, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 4th May, 2012

**S.O. 2235.**—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it along with the model approval certificate issued by the NMI Certin, B.V., The Netherlands is satisfied that the model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) and the Legal Metrology (Approval of Models) Rules, 2011 and the said model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the second proviso to Section 22 of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) and sub-rule (6) of rule 8 and sub-rule (4) of rule 11 of the Legal Metrology (Approval of Models) Rules, 2011, the Central Government hereby approves, issues and publishes the certificate of approval of model of a measurement transducer intended to be used as a part of measurement instrument as per OIML R117-1:2007(E) dynamic measuring systems for liquids other than water (Measuring systems on pipelines Measuring systems for the unloading of ships' tanks and rail and road tankers and Measuring systems for loading ships) of accuracy class-'0.5', series-'B27X' where X is code for indicating the pressure rating of the meter, and brand name "BiRotor Plus, PD-meter (hereinafter referred to as the said model) manufactured by M/s Brodie Meter Co. LLC, 19267, US Highway 301 N, Statesboro, GA 30461, USA and marketed in India without any alteration before or after sale by M/s Advanced Systek Pvt. Ltd, 299/300, GIDC, Makarpura, Vadodara-390010, Gujarat and which is assigned the approval mark IND/13/11/471;

The said model is based on the principle of mechanical positive displacement having following ambient temperature range from -25°C to +55°C, (condensing, open location) and liquid temperature range from -10°C to +55°C. Other technical details are:

Min. flow rate ( $Q_{min}$ )	114 L/min
Max. flow rate ( $Q_{max}$ )	2081 L/min
Minimum measured quantity sensor	100 L
Diameter in-and outlet	80 mm (3")
Cyclic volume	0.937 L
K-factor	42 pulses/L
Max. viscosity	400 m Pa.s
P <sub>max</sub>	Depends on pressure rating; upto 51 bar
Max pressure drop	1.37 bar (20 PSI)
Bearing	Stainless Steel/Ceramic
Construction details	Double casing; Requires adjustment when used for different liquids

Figure-1




Figure-2 : Sealing arrangement

The model is sealed as shown in figure above. In addition, sealing shall also be done to prevent the opening of the machine for fraudulent practices.

[F.No. WM-21(193)/2011]

B. N. DIXIT, Director of Legal Metrology





नई दिल्ली, 4 मई, 2012

**का.आ. 2236.**—केंद्रीय सरकार का, एन एम आई सरटिन बी. वी., दी नीडरलैंड द्वारा जारी प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल (नीचे दी गई आकृति देखें) विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) तथा विधिक माप विज्ञान (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 2011 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, विधिक माप विज्ञान (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 2011 के नियम 8 के उप-नियम (6) और उप-नियम 11 के उप-नियम (4) के साथ पठित विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) की धारा 22 के दूसरे परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स ब्रोडी मीटर कं. एलएलसी, 19267, यूएस हाइवे 301 एन, स्टेट्सबोरो, जीए 30461, यूएसए द्वारा विनिर्मित यथार्थता वर्ग '0.3' वाले, 'बी 27 एक्स', शृंखला के जहां एक्स मीटर की दाब रेटिंग दर्शाने के लिए कोड है, के मॉडल का, जिसके ब्रांड का नाम 'बाइरोटर प्लस, पोडी-मीटर' (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है) और जिसका प्रयोग पानी के अलावा अन्य द्रव्यों के मापन ट्रांसड्यूसर जो मापन उपकरण के भाग के रूप में ओ. आई एम. एल आर 117-1:2007 (ई) गतिशील मापन प्रणाली के अनुसार प्रयोग किया जाता है (पाइप लाइन की मापन प्रणाली, जहाज टैंक, और रेल तथा रोड टैंकर की उतराई के लिए, मापन प्रणाली एवं जहाजों में माल को चढ़ाने के लिए मापन प्रणाली) और जिसे मैसर्स एडवांस्ड सिस्टेक प्रा. लि. 299/300, जी आई डी सी, मकरपुरा, वडोदरा-390010, गुजरात द्वारा बिक्री से पहले अथवा बाद में बिना कोई परिवर्तन किए भारत में विपणित किया गया है और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/13/11/472 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण-पत्र जारी करती है।

संदर्भित मॉडल मैकेनिकल पाजीटिव डिस्पलेस्मेंट के सिद्धान्त पर आधारित है जिसमें परिवेशीय तापमान की सीमा -25°C से +55°C (कन्डेन्सिंग, खुली स्थिति में) और तरल तापमान की सीमा -10°C से +55°C तक है। अन्य तकनीकी ब्यौरे निम्नानुसार हैं :—

Min. flow rate ( $Q_{min}$ )	114 L/min
Max. flow rate ( $Q_{max}$ )	2081 L/min
Minimum measured quantity sensor	100 L
Diameter in-and outlet	80 mm (3")
Cyclic volume	0.937 L
K-factor	42 pulses/L
Max. viscosity	400 m Pa.s
Pmax	Depends on pressure rating; upto 51 bar
Max pressure drop	1.37 bar (20 PSI)
Bearing	Stainless Steel/Ceramic
Construction details	Double casing; Requires adjustment when used for different liquids
आकृति-1	



आकृति-2 : मॉडल के इंडीकेटर को सीलिंग करने का प्रावधान

मॉडल को उपरोक्त आकृति में दिखाए गए अनुसार सील किया जाता है। इसके अलावा, कपटपूर्ण व्यवहार के लिए मशीन को खोले जाने से रोकने के लिए भी सीलिंग की जाती है।

[फा. सं. डब्ल्यू एम-21(193)/2011]

बी. एन. दीक्षित, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 4th May, 2012

**S.O. 2236.**—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it along with the model approval certificate issued by the NMi Certin, B.V., The Netherlands is satisfied that the model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) and the Legal Metrology (Approval of Models) Rules, 2011 and the said model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the second proviso to Section 22 of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) and sub-rule (6) of rule 8 and sub-rule (4) of rule 11 of the Legal Metrology (Approval of Models) Rules, 2011, the Central Government hereby approves, issues and publishes the certificate of approval of model of a measurement transducer intended to be used as a part of measurement instrument as per OIML R117-1:2007(E) dynamic measuring systems for liquids other than water (Measuring systems on pipelines Measuring systems for the unloading of ships' tanks and rail and road tankers and Measuring systems for loading ships) of accuracy class-'0.3', series-'B27X' where X is code for indicating the pressure rating of the meter and brand name "BiRotor Plus, PD-meter" (hereinafter referred to as the said model) manufactured by M/s Brodie Meter Co. LLC, 19267, US Highway 301 N, Statesboro, GA 30461, USA and marketed in India without any alteration before or after sale by M/s Advanced Systek Pvt. Ltd, 299/300, GIDC, Makarpura, Vadodara-390010, Gujrat and which is assigned the approval mark IND/13/11/472;

The said model is based on the principle of mechanical positive displacement having following ambient temperature range from -25°C to +55°C, (condensing, open location) and liquid temperature range from -10°C to +55°C. Other technical details are:

Min. flow rate ( $Q_{min}$ )	114 D/min
Max. flow rate ( $Q_{max}$ )	2081 L/min
Minimum measured quantity sensor	100 L
Diameter in-and outlet	80 mm (3")
Cyclic volume	0.937 L
K-factor	42 pulses/L
Max. viscosity	400 m Pa.s
Pmax	Depends on pressure rating; upto 51 bar
Max pressure drop	1.37 bar (20 PSI)
Bearing	Stainless Steel/Ceramic
Construction details	Double casing; Requires adjustment when used for different liquids

Figure-1




Figure-2 : Sealing arrangement

The model is sealed as shown in figure above. In addition, sealing shall also be done to prevent the opening of the machine for fraudulent practices.

[F.No. WM-21(193)/2011]

B. N. DIXIT, Director of Legal Metrology

नई दिल्ली, 4 मई, 2012


**का.आ. 2237.**—केन्द्रीय सरकार का, एन एम आई सरटिन बी. वी., दी नीडरलैंड द्वारा जारी प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल (नीचे दी गई आकृति देखें) विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) तथा विधिक माप विज्ञान (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 2011 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, विधिक माप विज्ञान (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 2011 के नियम 8 के उप-नियम (6) और नियम 11 के उप-नियम (4) के साथ पठित विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) की धारा 22 के दूसरे परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स ब्रोडी मीटर कं. एलएलसी, 19267, यूएस हाइवे 301 एन, स्टेट्सबोरो, जीए 30461, यूएसए द्वारा विनिर्मित यथार्थता वर्ग '0.5' वाले, 'बी 28 एक्स', श्रृंखला के जहां एक्स मीटर की दाब रेटिंग दर्शाने के लिए कोड है, के मॉडल का, जिसके ब्रांड का नाम 'बाइरोटर प्लस, पीडी-मीटर' (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है) और जिसका प्रयोग पानी के अलावा अन्य द्रव्यों के मापन ट्रांसड्यूसर जो मापन उपकरण के भाग के रूप में ओ. आई. एम. एल आर 117-1: 2007 (ई) गतिशील मापन प्रणाली के अनुसार प्रयोग किया जाता है (पाइप लाइन की मापन प्रणाली, जहाज टैंक, और रेल तथा रोड टैंकर की उतराई के लिए मापन प्रणाली एवं जहाजों में माल को चढ़ाने के लिए मापन प्रणाली) और जिसे मैसर्स एडवांस्ड सिस्टेक प्रा. लि., 299/300, जी आई डी सी, मकरपुरा, वडोदरा-390010, गुजरात द्वारा बिक्री से पहले अथवा बाद में बिना कोई परिवर्तन किए भारत में विपणीत किया गया है और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/13/11/473 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण-पत्र जारी करती है।

संदर्भित मॉडल मैकेनिकल पाजिटिव डिस्प्लेस्मेंट के सिद्धान्त पर आधारित है जिसमें परिवेशीय तापमान की सीमा -25°C से +55°C (कन्डेन्सिंग, खुली स्थिति में) और तरल तापमान की सीमा -10°C से +55°C तक है। अन्य तकनीकी व्यौरे निम्नानुसार हैं :

Min. flow rate ( $Q_{min}$ )	166 L/min
Max. flow rate ( $Q_{max}$ )	3406 L/min
Minimum measured quantity sensor	200 L
Diameter in-and outlet	100 mm (4")
Cyclic volume	1.9 L
K-factor	25 pulses/L
Max. viscosity	400 m Pa.s
Prax	Depends on pressure rating; upto 51 bar
Max pressure drop	1.37 bar (20 PSI)
Bearing	Stainless Steel/Ceramic
Construction details	Double casing; Requires no adjustment when used for different liquids

आकृति-1



आकृति-2 : मॉडल के इंडिकेटर को सीलिंग करने का प्रावधान

मॉडल को उपरोक्त आकृति में दिखाए गए अनुसार सील किया जाता है। इसके अलावा, कपटपूर्ण व्यवहार के लिए मशीन को खोले जाने से रोकने के लिए भी सीलिंग की जाती है।

[फा. सं. डब्ल्यू.एम. 21(193)/2011]

बी. एन. दीक्षित, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 4th May, 2012

**S.O. 2237.**—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it along with the model approval certificate issued by the NMi Certin, B.V., The Netherlands is satisfied that the model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) and the Legal Metrology (Approval of Models) Rules, 2011 and the said model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the second proviso to Section 22 of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) and sub-rule (6) of rule 8 and sub-rule (4) of rule 11 of the Legal Metrology (Approval of Models) Rules, 2011, the Central Government hereby approves, issues and publishes the certificate of approval of model of a measurement transducer intended to be used as a part of measurement instrument as per OIML R117-1:2007(E) dynamic measuring systems for liquids other than water (Measuring systems on pipelines, Measuring systems for the unloading of ships' tanks and rail and road tankers & measuring systems for loading ships) of accuracy class '0.5', Series 'B28X; where X is code for indicating the pressure rating of the meter' and brand name "BiRotor Plus, PD-meter" (hereinafter referred to as the said model) manufactured by M/s Brodie Meter Co. LLC, 19267, US Highway 301 N, Statesboro, GA 30461, USA and marketed in India without any alteration before or after sale by M/s Advanced Sytek Pvt. Ltd, 299/300, GIDC, Makarpura, Vadodara-390010, Gujarat and which is assigned the approval mark IND/13/11/473;

The said model is based on the principle of mechanical positive displacement having following ambient temperature range from -25°C to +55°C, (condensing, open location) and liquid temperature range from -10°C to +55°C. Other technical details are:

Min. flow rate ( $Q_{min}$ )	166 L/min
Max. flow rate ( $Q_{max}$ )	3406 L/min
Minimum measured quantity sensor	200 L
Diameter in-and outlet	100 mm (4")
Cyclic volume	1.9 L
K-factor	25 pulses/L
Max. viscosity	400 m Pa.s
$P_{max}$	Depends on pressure rating; upto 51 bar
Max pressure drop	1.37 bar (20 PSI)
Bearing	Stainless Steel/Ceramic
Construction details	Double casing; Requires no adjustment when used for different liquids

Figure-1 Model




Figure-2 : Sealing arrangement

The model is sealed as shown in figure above. In addition, sealing shall also be done to prevent the opening of the machine for fraudulent practices.

[F. No. WM-21(193)/2011]

B. N. DIXIT, Director of Legal Metrology

नई दिल्ली, 4 मई, 2012


**का.आ. 2238.**—केन्द्रीय सरकार का, एन एम आई सरटिन बी. वी., दी नीडरलैंड द्वारा जारी प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित माडल (नीचे दी गई आकृति देखें) विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) तथा विधिक माप विज्ञान (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 2011 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, विधिक माप विज्ञान (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 2011 के नियम 8 के उप-नियम (6) और उप-नियम 11 के उप-नियम (4) के साथ पठित विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) की धारा 22 के दूसरे परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स ब्रोडी मीटर कं. एलएलसी, 19267, यूएस हाइवे 301 एन, स्टेट्सबोरो, जीए 30461, यूएसए द्वारा विनिर्मित यथार्थता वर्ग '0.3' वाले, 'एसबी 28 एक्स', शृंखला के जहां एक्स मीटर की दाब रेटिंग दर्शाने के लिए कोड है, के मॉडल का, जिसके ब्रांड का नाम 'बाइरोटर प्लस, पीडी-मीटर' (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है) और जिसका प्रयोग पानी के अलावा अन्य द्रव्यों के मापन ट्रांसड्यूसर जो मापन उपकरण के भाग के रूप में ओ. आई.एम. एल आर 117-1 : 2007 (ई) गतिशील मापन प्रणाली के अनुसार प्रयोग किया जाता है (पाइप लाइन की मापन प्रणाली, जहाज टैंक, और रेल तथा रोड टैंकर की उतराई के लिए मापन प्रणाली एवं जहाजों में माल को चढ़ाने के लिए मापन प्रणाली) और जिसे मैसर्स एडवॉसड सिस्टेक प्रा. लि. 299/300, जी आई डी सी, मकरपुरा, वडोदरा-390010, गुजरात द्वारा बिक्री से पहले अथवा बाद में बिना कोई परिवर्तन किए भारत में विपणित किया गया है और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/13/11/474 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण-पत्र जारी करती है।

संदर्भित मॉडल मैकेनिकल पाजीटिव डिस्प्लेस्मेंट के सिद्धान्त पर आधारित हैं जिसमें परिवेशीय तापमान की सीमा -25°C से +55°C (कन्डेनसिंग, खुली स्थिति में) और तरल तापमान की सीमा -10°C से +55°C (से तक है। अन्य तकनीकी व्यौर निम्नानुसार हैं :

Min. flow rate ( $Q_{min}$ )	166 L/min
Max. flow rate ( $Q_{max}$ )	3406 L/min
Minimum measured quantity sensor	200L
Diameter in-and outlet	100 mm (4")
Cyclic volume	1.9 L
K-factor	25 pulses/L
Max. viscosity	400 mPa.s
Pmax	Depends on pressure rating; upto 51 bar
Max pressure drop	1.37 bar (20 PSI)
Bearing	Stainless Steel/Ceramic
Construction details	Single casing; Requires no adjustment when used for different liquids

आकृति-1



आकृति 2 : मॉडल के इंडीकेंटर को सीलिंग करने का प्रावधान

मॉडल को उपरोक्त आकृति में दिखाए गए अनुसार सील किया जाता है। इसके अलावा, कपटपूर्ण व्यवहार के लिए मशीन को खोले जाने से रोकने के लिए भी सीलिंग की जाती है।

[फा. सं. डब्ल्यू.एम. 21(193)/2011]

बी. एन. दीक्षित, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 4th May, 2012

**S.O. 2238.**—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it along with the model approval certificate issued by the NMI Certin, B.V., The Netherlands is satisfied that the model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) and the Legal Metrology (Approval of Models) Rules, 2011 and the said model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the second proviso to Section 22 of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) and sub-rule (6) of rule 8 and sub-rule (4) of rule 11 of the Legal Metrology (Approval of Models) Rules, 2011, the Central Government hereby approves, issues and publishes the certificate of approval of model of a measurement transducer intended to be used as a part of measurement instrument as per OIML R117-1:2007(E) dynamic measuring systems for liquids other than water (Measuring systems on pipelines & Measuring systems for the unloading of ships' tanks and rail and road tankers & measuring systems for loading ships) of accuracy class-'0.3', series-'B28X'; where X is code for indicating the pressure rating of the meter and brand name "BiRotor Plus, PD-meter (hereinafter referred to as the said model) manufactured by M/s. Brodie Meter Co. LLC, 19267, US Highway 301 N, Statesboro, GA 30461, USA and marketed in India without any alteration before or after sale by M/s. Advanced Systek Pvt. Ltd, 299/300, GHDC, Makarpura, Vadodara-390010, Gujarat and which is assigned the approval mark IND/13/11/474;

The said model is based on the principle of mechanical positive displacement having following ambient temperature range from -25°C to +55°C, (condensing, open location) and liquid temperature range from -10°C to +55°C. Other technical details are:

Min. flow rate ( $Q_{min}$ )	166 L/min
Max. flow rate ( $Q_{max}$ )	3406 L/min
Minimum measured quantity sensor	200 L
Diameter in-and outlet	100 mm (4")
Cyclic volume	1.9 L
K-factor	25 pulses/L
Max. viscosity	400 m Pa.s
Pmax	Depends on pressure rating; upto 51 bar
Max pressure drop	1.37 bar (20 PSI)
Bearing	Stainless Steel/Ceramic
Construction details	Double casing; Requires no adjustment when used for different liquids

Figure-1





Figure-2 : Sealing arrangement

The model is sealed as shown in figure above. In addition, sealing shall also be done to prevent the opening of the machine for fraudulent practices.

[F. No. WM-21(193)/2011]

B. N. DIXIT, Director of Legal Metrology

नई दिल्ली, 4 मई, 2012


**का.आ. 2239.**—केन्द्रीय सरकार का, एन एम आई सरटिन बी. वी., दी नीदरलैंड द्वारा जारी प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल (नीचे दी गई आकृति देखें) विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) तथा विधिक माप विज्ञान (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 2011 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, विधिक माप विज्ञान (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 2011 के नियम 8 के उप-नियम (6) और उप-नियम 11 के उप-नियम (4) के साथ पठित विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) की धारा 22 के दूसरे परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स ब्रोडी मीटर कं. एलएलसी, 19267, यूएस हाइवे 301 एन, स्टेट्सबोरो, जीए 30461, यूएसए द्वारा विनिर्मित यथार्थता वर्ग '0.5' वाले, 'बी 29 एक्स', शृंखला के जहां एक्स मीटर की दाब रेटिंग दर्शाने के लिए कोड है, के मॉडल का, जिसके ब्रांड का नाम 'बाइरोटर प्लस, पीडी-मीटर' (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है) और जिसका प्रयोग पानी के अलावा अन्य द्रव्यों के मापन ट्रांसड्यूसर जो मापन उपकरण के भाग के रूप में ओ. आई.एम. एल आर 117-1: 2007 (ई) गतिशील मापन प्रणाली के अनुसार प्रयोग किया जाता है (पाइप लाइन की मापन प्रणाली, जहाज टैंक, और रेल तथा रोड टैंकर की उतराई के लिए मापन प्रणाली एवं जहाजों में माल को चढ़ाने के लिए-मापन प्रणाली) और जिसे मैसर्स एडवांसड सिस्टेक प्रा. लि. 299/300, जी आई डी सी, मकरपुरा, वडोदरा-390010, गुजरात द्वारा बिक्री से पहले अथवा बाद में बिना कोई परिवर्तन किए भारत में विपणीत किया गया है और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/13/11/475 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण-पत्र जारी करती है।

संदर्भित मॉडल मैकेनिकल पाजीटिव डिस्पलेस्मेंट के सिद्धान्त पर आधारित है जिसमें परिवेशीय तापमान की सीमा -25°C से +55°C (कन्डेन्सिंग, खुली स्थिति में) और तरल तापमान की सीमा -10°C से +55°C तक है। अन्य तकनीकी व्यौर निम्नानुसार हैं :

Min. flow rate ( $Q_{min}$ )	10 m <sup>3</sup> /hour
Max. flow rate ( $Q_{max}$ )	256 m <sup>3</sup> /hour
Minimum measured quantity sensor	200 L
Diameter in-and outlet	150 mm (6")
Cyclic volume	1.9 L
K-factor	25 pulses/L
Max. viscosity	400 m Pa.s
Pmax	Depends on pressure rating; upto 51 bar
Max pressure drop	1.37 bar (20 PSI)
Bearing	Stainless Steel/Ceramic
construction details	Double casing; Requires no adjustment when used for different liquids

आकृति-1



आकृति-2 : मॉडल के इंडीकेटर को सीलिंग करने का प्रावधान

मॉडल को उपरोक्त आकृति में दिखाए गए अनुसार सील किया जाता है। इसके अलावा, कपटपूर्ण व्यवहार के लिए मशीन को खोलने जाने से रोकने के लिए भी सीलिंग की जाती है।

[फा. सं. डब्ल्यू.एम. 21(193)/2011]

जी. एन. दीक्षित, निदेशक, विधिक माप-विज्ञान

New Delhi, the 4th May, 2012

**S.O. 2239.**—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it along with the model approval certificate issued by the NMi Certin, B.V., The Netherlands is satisfied that the model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) and the Legal Metrology (Approval of Models) Rules, 2011 and the said model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the second proviso to Section 22 of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) and sub-rule (6) of rule 8 and sub-rule (4) of rule 11 of the Legal Metrology (Approval of Models) Rules, 2011, the Central Government hereby approves, issues and publishes the certificate of approval of model of a measurement transducer intended to be used as a part of measurement instrument as per OIML R117-1:2007(E) dynamic measuring systems for liquids other than water (Measuring systems on pipelines & Measuring systems for the unloading of ships' tanks and rail and road tankers & measuring systems for loading ships) of accuracy class-'0.5', series-'B29X'; where X is code for indicating the pressure rating of the meter' and brand name "BiRotor Plus, PD-meter (hereinafter referred to as the said model) manufactured by M/s. Brodie Meter Co. LLC, 19267, US Highway 301 N, Statesboro, GA 30461, USA and marketed in India without any alteration before or after sale by M/s. Advanced Systek Pvt. Ltd., 299/300, GIDC, Makarpura, Vadodra-390010, Gujarat and which is assigned the approval mark IND/13/11/475;

The said model is based on the principle of mechanical positive displacement having following ambient temperature range from -25°C to +55°C, (condensing, open location) and liquid temperature range from -10°C to +55°C. Other technical details are:

Min. flow rate ( $Q_{min}$ )	10 m <sup>3</sup> /hour
Max. flow rate ( $Q_{max}$ )	256 m <sup>3</sup> /hour
Minimum measured quantity sensor	200 L
Diameter in-and outlet	150 mm (6")
Cyclic volume	1.9 L
K-factor	25 pulses/L
Max. viscosity	400 m Pa.s
P <sub>max</sub>	Depends on pressure rating; upto 51 bar
Max pressure drop	1.37 bar (20 PSI)
Bearing	Stainless Steel/Ceramic
construction details	Double casing; Requires no adjustment when used for different liquids

Figure-1




Figure-2 : Sealing arrangement

The model is sealed as shown in figure above. In addition, sealing shall also be done to prevent the opening of the machine for fraudulent practices.

[F. No. WM-21(193)/2011]

B. N. DIXIT, Director of Legal Metrology





नई दिल्ली, 4 मई, 2012

**क्र.आ. 2240.**—केन्द्रीय सरकार का, एन एम आई सरटिन बी. वी., दी नीदरलैंड द्वारा जारी प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल (नीचे दी गई आकृति देखें) विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) तथा विधिक माप विज्ञान (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 2011 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, विधिक माप विज्ञान (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 2011 के नियम 8 के उप-नियम (6) और उप-नियम 11 के उप-नियम (4) के साथ पठित विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) की धारा 22 के दूसरे परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स ब्रोडी मीटर कं. एलएलसी, 19267, यूएस हाइवे 301 एन, स्टेट्सबोरो, जीए 30461, यूएसए द्वारा विनिर्मित यथार्थता वर्ग '0.3' वाले, 'बी 29 एक्स', शृंखला के जहां एक्स मीटर की दाब रेटिंग दर्शाने के लिए कोड है, के मॉडल का, जिसके ब्रांड का नाम 'बाइरोटर प्लस, पीडी-मीटर' (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है) और जिसका प्रयोग पानी के अलावा अन्य द्रव्यों के मापन ट्रांसड्यूसर जो मापन उपकरण के भाग के रूप में ओ. आई.एम. एल आर 117-1: 2007 (ई) गतिशील मापन प्रणाली के अनुसार प्रयोग किया जाता है (पाइप लाइन की मापन प्रणाली, जहाज टैंक, और रेल तथा रोड टैंकर की उतराई के लिए मापन प्रणाली एवं जहाजों में माल को चढ़ाने के लिए मापन प्रणाली) और जिसे मैसर्स एडवांसड सिस्टेक प्रा. लि. 299/300, जी आई डी सी, मकरपुरा, वडोदरा-390010, गुजरात द्वारा बिक्री से पहले अथवा बाद में बिना कोई परिवर्तन किए भारत में विपणित किया गया है और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/13/11/476 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण-पत्र जारी करती है।

संदर्भित मॉडल मैकेनिकल पाजीटिव डिस्प्लेस्मेंट के सिद्धान्त पर आधारित हैं जिसमें परिवेशीय तापमान की सीमा  $-25^{\circ}\text{C}$  से  $+55^{\circ}\text{C}$  (कन्डेन्सिंग, खुली स्थिति में) और तरल तापमान की सीमा  $-10^{\circ}\text{C}$  से  $+55^{\circ}\text{C}$  से तक है। अन्य तकनीकी व्यौरे निम्नानुसार हैं :

Min. flow rate (Qmin)	10 m <sup>3</sup> /hour
Max. flow rate (Qmax)	256 m <sup>3</sup> /hour
Minimum measured quantity sensor	200 L
Diameter in-and outlet	150 mm (6")
Cyclic volume	1.9 L
K-factor	25 pulses/L
Max. viscosity	400 m Pa.s
Pmax	Depends on pressure rating; upto 51 bar
Max pressure drop	1.37 bar (20 PSI)
Bearing	Stainless Steel/Ceramic
construction details	Double casing; Requires no adjustment when used for different liquids
आकृति-1	



आकृति-2 : मॉडल के इंडीकेटर को सीलिंग करने का प्रावधान

मॉडल को उपरोक्त आकृति में दिखाए गए अनुसार सील किया जाता है। इसके अलावा, कपटपूर्ण व्यवहार के लिए मशीन को खोले जाने से रोकने के लिए भी सीलिंग की जाती है।

[फा. सं. डब्ल्यू एम-21(193)/2011]

बी. एन. दीक्षित, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 4th May, 2012

**S.O. 2240.**—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it along with the model approval certificate issued by the NMi Certin, B.V., The Netherlands is satisfied that the model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) and the Legal Metrology (Approval of Models) Rules, 2011 and the said model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the second proviso to Section 22 of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) and sub-rule (6) of rule 8 and sub-rule (4) of rule 11 of the Legal Metrology (Approval of Models) Rules, 2011, the Central Government hereby approves, issues and publishes the certificate of approval of model of a measurement transducer intended to be used as a part of measurement instrument as per OIML R117-1:2007(E) dynamic measuring systems for liquids other than water (Measuring systems on pipelines & Measuring systems for the unloading of ships' tanks and rail and road tankers & measuring systems for loading ships) of accuracy class-'0.3', series-'B29X; where X is code for indicating the pressure rating of the meter' and brand name "BiRotor Plus, PD-meter (hereinafter referred to as the said model) manufactured by M/s. Brodie Meter Co. LLC, 19267, US Highway 301 N, Statesboro, GA 30461, USA and marketed in India without any alteration before or after sale by M/s. Advanced Systek Pvt. Ltd., 299/300, GIDC, Makarpura, Vadodara-390010, Gujarat and which is assigned the approval mark IND/13/11/476;

The said model is based on the principle of mechanical positive displacement having following ambient temperature range from -25°C to +55°C, (condensing, open location) and liquid temperature range from -10°C to +55°C. Other technical details are:

Min. flow rate (Qmin)	10 m <sup>3</sup> /hour
Max. flow rate (Qmax)	256 m <sup>3</sup> /hour
Minimum measured quantity sensor	200 L
Diameter in-and outlet	150 mm (6")
Cyclic volume	1.9 L
K-factor	25 pulses/L
Max. viscosity	400 m Pa.s
Pmax	Depends on pressure rating; upto 51 bar
Max pressure drop	1.37 bar (20 PSI)
Bearing	Stainless Steel/Ceramic
Construction details	Double casing; Requires no adjustment when used for different liquids

Figure-1





Figure-2 : Sealing arrangement

The model is sealed as shown in figure above. In addition, sealing shall also be done to prevent the opening of the machine for fraudulent practices.

[F. No. WM-21(193)2011]

B. N. DIXIT, Director of Legal Metrology


नई दिल्ली, 9 मई, 2012

**का.आ. 2241.**—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल (नीचे दी गई आकृति देखें) विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) तथा विधिक माप विज्ञान (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 2011 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;


अतः, अब केन्द्रीय सरकार, विधिक माप विज्ञान (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 2011 के नियम 8 के उप-नियम (6) और नियम, 11 के उप-नियम (4) के साथ पठित विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) की धारा 22 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स जे. एम. डी. स्कैल्ज एण्ड सिस्टम्स, पॉकेट जीएच-5 एण्ड 7/741, मीरा बाग, पश्चिम विहार, नई दिल्ली-110087 द्वारा विनिर्मित उच्च यथार्थता (यथार्थता वर्ग II) वाले "जेएसडब्ल्यू" शृंखला के अंकक सूचना सहित अस्वचालित तोलन उपकरण (इलेक्ट्रॉनिक वेब्रिज) के मॉडल का, जिसके ब्रांड का नाम "जेएमडी-यूआरओ" है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/11/558 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण-पत्र जारी करती है।

उक्त मॉडल एक विकृत गेज प्रकार का भार सेल आधारित अस्वचालित तोलन उपकरण (इलेक्ट्रॉनिक वेब्रिज) है। इसकी अधिकतम क्षमता 60 टन है और न्यूनतम क्षमता 250 कि.ग्रा. है। सत्यापन मापमान अंतराल (ई) 5 कि.ग्रा. है। इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत-प्रतिशत व्यवकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एलईडी) तोलन परिणाम उपदर्शित करता है। उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है।

आकृति-1



Schematic Diagram of stamping and sealing for Electronic weighbridge Indicator



आकृति-2 : मॉडल को सीलिंग करने का योजनाबद्ध डायग्राम।

डिस्पले की बाड़ी में से सीलिंग वायर निकाल कर डिस्पले पर सीलिंग की जाती है। सील के साथ जुड़े हुए डिस्पले के बेस प्लेट और टॉप कवर में बने दो छेदों में से सीलिंग वायर निकाल कर सील से जोड़ा गया है। मॉडल को सीलबंद करने के उपबंध का एक प्ररूपी योजनाबद्ध डायग्राम उपरोक्त दिया गया है।

उपकरण में बाहरी केलिब्रेशन तक पहुंच की सुविधा है। बाहरी केलिब्रेशन तक पहुंच को रोकने के लिए ए/डी कार्ड/मदर बोर्ड में डिप स्विच भी दिया गया है।

और केन्द्रीय सरकार, विधिक माप विज्ञान (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 2011 के नियम 8 के उप-नियम (9) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धांत, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे उक्त अनुमोदित मॉडल विनिर्माण किया गया है, विनिर्मित उसी शृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 100 मि. ग्रा. या उससे अधिक के "ई" मान के लिए 5,000 से 1,00,000 तक के रेंज में सत्यापन मापमान अंतराल (एन) सहित 5 टन से 200 टन तक की अधिकतम क्षमता वाले हैं और "ई" मान  $1 \times 10^4$ ,  $2 \times 10^4$  या  $5 \times 10^4$ , के हैं, जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं।

[फा. सं. डब्ल्यू एम-21(291)/2011]

बी. एन. दीक्षित, निदेशक, विधिक माप विज्ञान


New Delhi, the 9th May, 2012

**S.O. 2241.**—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by prescribed authority, is satisfied that the model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) and the Legal Metrology (Approval of Models) Rules, 2011 and the said model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 22 of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) read with sub-rule (6) of rule 8 and sub-rule (4) of rule 11 of the Legal Metrology (Approval of Models) Rules, 2011, the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the model of non-automatic weighing instrument (electronic weighbridge) with digital indication of high accuracy (accuracy class-II) of series "JSW" and with brand name "JMD-URO" (hereinafter referred to as the said model), manufactured by M/s. J. M. D. Scales and Systems, Pkt. GH-5 & 7/741, Meera Bagh, Paschim Vihar, New Delhi-110087 and which is assigned the approval mark IND/09/11/558;

The said model is a strain gauge type load cell based non-automatic weighing instrument (electronic weighbridge) with a maximum capacity of 60 tonne. and minimum capacity of 250 kg. The verification scale interval (e) is 5 kg. It has a tare device with a 100 percent subtractive retained tare effect. The Light Emitting Diode (LED) display indicates the weighing result. The instrument operates on 230Volts, 50Hertz alternative current power supply.

Figure 1.



Schematic Diagram of stamping and sealing for Electronic weighbridge Indicator




Figure 2 : Schematic Diagram of sealing provision of the model.

Sealing is done on the display by passing sealing wire from the body of the display. The seal is connected by whole in base plate and top cover of display, than seal wire is passed through these two holes attached with seal. A typical schematic diagram of sealing provision of the model is given above.

The instrument has external control to calibration. A dip switch has also been provided in mother board to disable access to external calibration.

Further, in exercise of the power conferred by sub-rule (9) of rule 8 of the Legal Metrology (Approval of Models) Rules, 2011 the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the weighing instruments of similar make, accuracy and performance of same series with maximum capacity above 5 tonne and up to 200 tonne with verification scale interval (n) in the range of 5000 to 1,00,000 for 'e' value of 100mg. or more and with 'e' value of  $1 \times 10^k$ ,  $2 \times 10^k$  or  $5 \times 10^k$ , where k is a positive or negative whole number or equal to zero manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which, the said approved model has been manufactured.

[F.No. WM-21 (291)/2011]

B. N. DIXIT, Director of Legal Metrology


नई दिल्ली, 9 मई, 2012

**का.आ. 2242.**—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल (नीचे दी गई आकृति देखें) विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) तथा विधिक माप विज्ञान (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 2011 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, विधिक माप विज्ञान (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 2011 के नियम 8 के उप-नियम (6) और नियम, 11 के उप-नियम (4) के साथ पन्ति विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) की धारा 22 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स बी लाल इस्टेब्लिशमेंट, जीत नगर, बी-27, वरसोवा, अंधेरी (वेस्ट), मुंबई-400061 द्वारा विनिर्मित साधारण यथार्थता (यथार्थता वर्ग II) वाले "सीटी" शृंखला के "स्टील टेप मैजर" के मॉडल का, जिसके ब्रांड का नाम "क्रिस्टल" है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/11/550 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण-पत्र जारी करती है।

उक्त मॉडल स्टील टेप माप है जिसकी अधिकतम लम्बाई 5 मीटर है तथा न्यूनतम भाग 1 मिलीमीटर है जिसका उपयोग लम्बाई को मापने के लिए किया जाता है। माप के परिणाम स्टील टेप माप पर अंशकित हुई लाइनों में दिए गए हैं।

आकृति-1



आकृति-2 : सीलिंग प्रावधान

स्टील टेप मेजर के प्रारंभ में सत्यापन स्टाम्प दी गई है जैसाकि ऊपर आकृति में दिखाया गया है।

और केन्द्रीय सरकार, विधिक माप विज्ञान (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 2011 के नियम 8 के उप-नियम (9) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धांत, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे उक्त अनुमोदित मॉडल विनिर्माण किया गया है, विनिर्मित उसी शृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के स्टील टेप मैजर भी होंगे जिनकी रेंज 0.5 मीटर से 5 मीटर तक है।

[फा. सं. डब्ल्यू एम-21(293)/2011]

बी. एन. दीक्षित, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 9th May, 2012

**S.O. 2242.**—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) and the Legal Metrology (Approval of Models) Rules, 2011 and the said model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 22 of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) read with sub-rule (6) of Rule 8 and sub-rule (4) of rule 11 of the Legal Metrology (Approval of Models) Rules, 2011, the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the 'Steel tape measure' of accuracy class-II with series "CT" and brand name "CRYSTAL" (hereinafter to as the said model), manufactured by M/s B. Lal Establishment, Jeet Nagar, B-27, Versova, Andheri (W), Mumbai-400061 and which is assigned the approval mark IND/09/11/550;

The said model is a steel tape measure of maximum length 5m and smallest division is of 1mm which is used for measurement of length. The results of measurements are indicated by graduation lines on the steel tape.

Figure 1.




Figure 2 : Stamping provision

The verification stamp is given at the beginning of the steel tape measure as shown in the figure above.

Further, in exercise of the power conferred by sub-rule (9) of rule 8 of the Legal Metrology (Approval of Models) Rules, 2011 the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said Model shall also cover the steel tape measure of similar make, accuracy and performance of same series in the range of 0.5m to 5m manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which, the said approved Model has been manufactured.

[F. No. WM-21 (293)/2011]

B. N. DIXIT, Director of Legal Metrology


नई दिल्ली, 9 मई, 2012

का.आ. 2243.—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल (नीचे दी गई आकृति देखें) विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) तथा विधिक माप विज्ञान (मॉडलों का अनुमोदन) नियम 2011 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;


अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, विधिक माप विज्ञान (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 2011 के नियम 8 के उप-नियम (6) और नियम 11 के उप-नियम (4) के साथ पठित विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) की धारा 22 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स समुद्रा सिस्टम्स, बी-2, लक्ष्मी प्लाजा, एल्फा लावेल इंडिया के सामने, पुणे-मुंबई रोड, केसरवाडी, पुणे-411031 द्वारा विनिर्मित मध्यम यथार्थता (यथार्थता वर्ग III) वाले "एडब्ल्यूबीएस" शृंखला के अंकक सूचना सहित है अस्वचालित तोलन उपकरण (इलेक्ट्रॉनिक वेब्रिज) के मॉडल का, जिसके ब्रांड का नाम "साम-ट्रॉनिक्स" है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/11/561 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण-पत्र जारी करती है।

उक्त मॉडल एक विकृत गेज प्रकार का भार सेल आधारित अस्वचालित तोलन उपकरण (इलेक्ट्रॉनिक वेब्रिज) है। इसकी अधिकतम क्षमता 50 टन और न्यूनतम क्षमता 100 कि.ग्रा. है। सत्यापन मापमान अंतराल (ई) 5 कि.ग्रा. है। इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत-प्रतिशत व्यकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एलईडी) प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है। उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है।

आकृति-1



Schematic Diagram of stamping and sealing for Electronic weighbridge indicator



(Back Side of Electronic Weighbridge Indicator)

आकृति-2 : मॉडल को सीलिंग करने का योजनाबद्ध डायग्राम।

डिस्पले की बाड़ी में से सीलिंग वायर निकालकर डिस्पले पर सीलिंग की जाती है। सील के साथ जुड़े हुए डिस्पले के बेस प्लेट और टॉप कवर में बने दो छेदों में से सीलिंग वायर निकालकर सील से जोड़ा गया है। मॉडल को सीलबंद करने के उपबंध का एक प्ररूपी योजनाबद्ध डायग्राम उपरोक्त दिया गया है।

उपकरण में बाहरी केलिब्रेशन तक पहुंच की सुविधा है। बाहरी केलिब्रेशन तक पहुंच को रोकने के लिए ए/डी कार्ड/मदर बोर्ड में डिप स्विच भी दिया गया है।

और केन्द्रीय सरकार, विधिक माप विज्ञान (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 2011 के नियम 8 के उप-नियम (9) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धांत, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे उक्त अनुमोदित मॉडल विनिर्माण किया गया है, विनिर्मित उसी शृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 5 ग्रा. या उससे अधिक के "ई" मान के लिए 500 से 10,000 तक के रेंज में सत्यापन मापमान अंतराल (एन) सहित 5 टन से 200 टन तक की अधिकतम क्षमता वाले हैं और "ई" मान  $1 \times 10^*$ ,  $2 \times 10^*$  या  $5 \times 10^*$ , के हैं, जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं।

[फा. सं. डब्ल्यू एम-21(294)72011]

बी. एन. दीक्षित, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 9th May, 2012

**S.O. 2243.**—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) and the Legal Metrology (Approval of Models) Rules, 2011 and the said model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;


Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 22 of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) read with sub-rule (6) of rule 8 and sub-rule (4) of rule 11 of the Legal Metrology (Approval of Models) Rules, 2011, the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the model of non-automatic weighing instrument (electronic weighbridge) with digital indication of medium accuracy (accuracy class-III) of series "AWBS" and with brand name "SAM-TRONICS" (hereinafter referred to as the said model), manufactured by M/s Samudra Systems, B-2, Laxmi Plaza, Opp. Alfa Laval India, Pune- Mumbai Road, Kasarwadi, Pune-411031 and which is assigned the approval mark IND/09/11/561;

The said model is a strain gauge type load cell based non-automatic weighing instrument (electronic weighbridge) with a maximum capacity of 50 tonne and minimum capacity of 100 kg. The verification scale interval (e) is 5 kg. It has a tare device with a 100 per cent subtractive retained tare effect. The Light Emitting Diode (LED) display indicates the weighing result. The instrument operates on 230Volts, 50Hertz alternative current power supply.

Figure 1.



Schematic Diagram of stamping and sealing for Electronic weighbridge Indicator



(Back Side of Electronic Weighbridge Indicator)

Figure 2 : Schematic Diagram of sealing provision of the model.

Sealing is done on the display by passing sealing wire from the body of the display. The seal is connected by whole in base plate and top cover of display, than seal wire is passed through these two holes attached with seal. A typical schematic diagram of sealing provision of the model is given above.

The instrument has external control to calibration. A dip switch has also been provided in mother board to disable access to external calibration.

Further, in exercise of the power conferred by sub-rule (9) of rule 8 of the Legal Metrology (Approval of Models) Rules, 2011 the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the weighing instruments of similar make, accuracy and performance of same series with above 5 tonne and up to 200 tonne with verification scale interval (n) in the range of 500 to 10,000 for 'e' value of 5g. or more and with 'e' value of  $1 \times 10^k$ ,  $2 \times 10^k$  or  $5 \times 10^k$  where k is a positive or negative whole number or equal to zero manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which, the said approved model has been manufactured.

[F. No. WM-21 (294)/2011]

B. N. DIXIT, Director of Legal Metrology





नई दिल्ली, 18 मई, 2012

**का.आ. 2244.**—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल (नीचे दी गई आकृति देखें) विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) तथा विधिक माप विज्ञान (मॉडलों का अनुमोदन) नियम 2011 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, विधिक माप विज्ञान (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 2011 के नियम 8 के उप-नियम (6) और नियम 11 के उप-नियम (4) के साथ पठित विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) की धारा 22 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स मेरू कैब कंपनी प्रा. लि., 128, इजमिमा रहेजा मेट्रोपोलैक्स, गोरेगांव स्पोर्ट क्लब के पीछे, आफ लिंक रोड, मलाड (वैस्ट), मुंबई-400064 द्वारा विनिर्मित "फोर्स वन" शृंखला के अंकक सूचन सहित "टैक्सी फेयर मीटर" के मॉडल का, जिसके ब्रांड का नाम "डिजिटैक्स" है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/11/293 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण-पत्र जारी करती है।

उक्त मॉडल "टैक्सी फेयर मीटर" (प्रिंटिंग सुविधा सहित) मापन उपकरण है जो लगातार योग करता जाता है और यात्री द्वारा देय भाड़े को यात्रा के दौरान किसी भी समय दर्शाता है। सार्वजनिक वाहन के यात्रियों द्वारा देय भाड़ा, तय की गई दूरी और निर्धारित स्पीड से कम पर व्यतीत किए गए समय का फलन है जो प्राधिकृत शुल्क के अनुसार अनुपूरक भाड़े से स्वतंत्र है। मीटर की रीडिंग प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एल ई डी) द्वारा दर्शाई जाती है। टैक्सी मीटर का 'के' फेक्टर 1000 प्लसेस प्रति किलोमीटर है। इंडीकेटर में अधिकतम किराया सूचन के लिए 6 अंक दो डेसीमल प्वाइंट सहित, कि.मी. में अधिकतम दूरी दर्शाने के लिए 4 अंक एक डेसीमल प्वाइंट सहित और 4 अंक (2 अंक मिनट और 2 अंक सैकंड के लिए) अधिकतम समय दर्शाने के लिए है।

आकृति-1



आकृति-2 : मॉडल के सीलिंग प्रावधान का योजनाबद्ध डायग्राम।

सील और स्टाम्प के सत्यापन के लिए दिए गए होल्डर सहित दो स्क्रू में से लीडिड वायर निकाल कर मीटर की रियर बाटम साइड में सील की जाती है। सील से छेड़-छाड़ किए बिना फेयर मीटर को खोला नहीं जा सकता। मॉडल के सीलिंग प्रावधान का योजनाबद्ध डायग्राम ऊपर दिया गया है।

[फा. सं. डब्ल्यू एम-21(150)/2011]

बो. एन. दीक्षित, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 18th May, 2012

**S.O. 2244.**—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the model described in the said report(see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) and the Legal Metrology (Approval of Models) Rules, 2011 and the said model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 22 of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) read with sub-rule (6) of rule 8 and sub-rule (4) of rule 11 of the Legal Metrology (Approval of Models) Rules, 2011, the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the model of "Taxi Fare Meter" with digital indication (hereinafter referred to as the said model) of "Force One" series and with brand name "DIGITAX" imported by M/s. Meru Cab Company Pvt. Ltd., 128, Ijmima Raheja Metroplex, Behind Goregaon sport club, Off link Road, Malad (West), Mumbai-400064 and which is assigned the approval mark IND/09/11/293.

The said model of "Taxi Fare Meter" (with Printing facility) is a measuring instrument which totalizes continuously and indicates the fare at any moment of journey, the charges payable by the passenger of a public vehicle as function of the distance traveled and below a certain speed, the fare is calculated as function of the time taken. This being independent of supplementary charges according to the authorized tariffs. The reading of the meter is indicated by the Light Emitting Diode (LED). The 'k' factor of the Taxi Meter is 1000 pulses per kilometer. The indicator have 6 digits with two decimal points for maximum fare indication, 4 digits with one decimal point in km. for maximum distance indication, 4 digits (2 digits for minute and 2 digits for second) for maximum time indication.

Figure 1.(Photograph of Model)




Figure 2 : Schematic Diagram of sealing provision of the model.

Sealing is done at four points on the rear bottom side of the meter and two points on left hand side, two screws with holes are provided through which the leaded wire will be passed to receive the verification seal and stamp. The meter cannot be opened without tampering the seal. A schematic diagram of sealing provision of the model is given above.

[F.No. WM-21 (150)/2011]

B. N. DIXIT, Director of Legal Metrology



नई दिल्ली, 12 जून, 2012

**का.आ. 2245.**—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल (नीचे दी गई आकृति देखें) विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) तथा विधिक माप विज्ञान (मॉडलों का अनुमोदन) नियम 2011 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) की धारा 22 और विधिक माप विज्ञान (मॉडलों के अनुमोदन) नियम, 2011 के उप-नियम (6) के नियम 8 और उप-नियम (4) के नियम 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स आरबीट्रान एन्टरप्राइस, ई-120, इलैक्ट्रॉनिक ज़ोन, सेक्टर-26, गांधीनगर, गुजरात द्वारा विनिर्मित एस पी पी श्रृंखला के माप प्रणाली के रूप में उपयोग करते हुए स्थिर स्टोर टैंकों में तरल के स्तर को मापने के लिए स्वचालित स्तर गेज के मॉडल का जिसके ब्रांड का नाम "प्रोम्प्ट" है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/11/514 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाणपत्र जारी करती है।

उक्त मॉडल स्थिर स्टोर टैंकों में तरल के स्तर को मापने के लिए स्वचालित स्तर गेज है जो कि स्थिर स्टोर टैंकों में तरल के स्तर को मापने के लिए मापन प्रणाली का भाग है। न्यूनतम उत्पाद स्तर 15 सें.मी. और अधिकतम उत्पाद स्तर 80 सें.मी. है। सत्यापन अंतराल 'डी' 1 मिमि है। परीक्षण ओ आई एम एल आर 85 के अनुसार किया जाता है।

आकृति-1



आकृति-2 : मॉडल को सीलिंग करने का योजनाबद्ध डायग्राम।

डिस्पले पर राडार की बाडी से छेदों के जरिए सीलिंग तार को निकालकर सीलिंग की जाती है। मॉडल को सीलबंद करने के उपबंध का एक प्रारूपी योजनाबद्ध डायग्राम उपरोक्त दिया गया है।

उपकरण में बाहरी केलिब्रेशन तक पहुंच की सुविधा है। बाहरी केलिब्रेशन तक पहुंच को रोकने के लिए ए/डी कार्ड/मदर बोर्ड में डिप स्विच भी दिया गया है।

[फा. सं. डब्ल्यू एम-21(34)/2011]

बी. एन. दीक्षित, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 12th June, 2012

**S.O. 2245.**—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the model described in the said report(see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) and the Legal Metrology (Approval of Models) Rules, 2011 and the said model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 22 of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) read with sub-rule (6) of rule 8 and sub-rule (4) of rule 11 of the Legal Metrology (Approval of Models) Rules, 2011, the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the model of automatic level gauges for measuring the level of liquid in stationary storage tanks intended to be used as a part of a measuring system of series "SPP" and brand name "PROMPT" (hereinafter referred to as the said model), manufactured by M/s Orbitron Enterprise, E-120, Electronic Zone, Sector 26, Gandhinagar, Gujarat and which is assigned the approval mark IND/09/11/514.

The said model is a automatic level gauges for measuring the level of liquid in stationary storage tanks which is a part of measuring system for measurement of level of liquid in stationary storage tanks. The minimum product level is 15cm and maximum product level is 80 cm. The scale interval d is 1 mm. The test was conducted according to OIML R 85.

Figure 1.





Figure 2 : Schematic Diagram of sealing provision of the model.

Sealing is done on the display by passing sealing wire from the body of the radar through holes. A typical schematic diagram of sealing provision of the model is given above.

The instrument has external control to calibration. A dip switch has also been provided in mother board to disable access to external calibration.

[F. No. WM-21 (34)/2011]

B. N. DIXIT, Director of Legal Metrology

नई दिल्ली, 12 जून, 2012

**का.आ. 2246.**—केन्द्रीय सरकार का, एशियन टेक्नीकल रेगुलेशन एंड माप विज्ञान, रशियन फेडरेशन के लिए फेडरल एजेंसी द्वारा जारी अनुरूपता के ओ आई एम एल प्रमाण-पत्र पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित प्रमाणपत्र (नीचे दी गई आकृति देखें) विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) और विधिक माप विज्ञान (मॉडलों का अनुमोदन) नियम 2011 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) की धारा 22 के दूसरे परन्तुक और विधिक माप विज्ञान (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 2011 के नियम 8 के उप-नियम (6) और नियम 11 के उप-नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स बिजिंग चंग गो सर्विस स्टेशन इक्विपमेंट कम्पनी लि., जियांशी वेस्ट स्ट्रीट, बिन्ही, इंडस्ट्रीयल जोन, पिंगु जिला, बिजिंग-101200 पी.आर चीन (मैसर्स गिलबारको चीन कम्पनी लि. जियांशी आर डी (प.), पिंगु जिला, बिजिंग-101200, पी.आर. चीन कम्पनी का पुराना नाम) द्वारा विनिर्मित यथार्थता वर्ग '0.5' वाले यूनिवर्सल एडवांटेज शृंखला के मोटर वेहिकल्स के लिए फ्यूल डिस्पेंसर-पानी के अलावा अन्य द्रव्य की मापन प्रणाली के मॉडल का, जिसे भारत में बिक्री से पहले या बाद में बिना किसी परिवर्तन के मैसर्स गिलबारको विडर रूट इंडिया (प्रा.) लि., 504-5वीं तल, सैटेलाइट सिल्वर, अंधेरी कुर्ला रोड मारोल नाका, अंधेरी (पू.) मुम्बई-59, महाराष्ट्र को आयात किया गया और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी 13/11/526 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाणपत्र जारी करती है।

उक्त मॉडल में निम्नलिखित विशेषताएं हैं और उप सिस्टम है

प्रमाणित नमूने की पहचान

सिंगल होज बी एफ एफ होज 20202-ए, बी 30202ए

दो होज बी21202-ए, बी 23202-ए, बी 31202-ए, बी 33202-ए

तीन होज बी 04202-ए, बी, 14202-ए

चार होज बी 13202-ए, बी.के. 3202-ए

चार होज बी.बी 3202-ए.बी.बी 7202-ए.बी.सी 3202-ए

छः होज बी05202-ए, बी. 15202-ए

आठ होज बी 07202/बी 17202-ए

यूनिवर्सल एडवांटेज शृंखला

फ्यूल डिस्पेंसर

सीमित प्रेम

सीमित प्रेम

विस्तृत प्रेम

सीमित प्रेम

विस्तृत प्रेम

विस्तृत प्रेम

विस्तृत प्रेम

विशेषताएं : प्रत्येक अनुलग्नक में एक या उससे अधिक सिस्टम सहित एडवांटेज शृंखला और प्रत्येक उप सिस्टम में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :

1. पिस्टन प्लो मोटर प्रकार के सी एफ टी मोटर (सी.टी. 20150-जी एक्स एक्स) अथवा सी + (सी टी 1976-जी एक्स एक्स) मोटर जी पी यू पम्प सहित या उसके बिना (एम 04920 की एक्स एक्स एक्स/एम/07932 बी एक्स एक्स एक्स)

2. कैल्कुलेटर-इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर एसम्बली ई आर ए (8051)


3. एनकोडर मापन ट्रांसड्यूसर (पल्सर एसम्बली)

— सी टी 18350-जी 1/बी आर 405799-03/बी टी वाई 3

— बी टी वाई 3/बी टी वाई 9 एक्स/सी ए 1202/1203

यथार्थता वर्ग	अधिकतम प्रवाह दर 1/मिनट	न्यूनतम प्रवाह दर 1/मिनट	न्यूनतम मापन मात्रा	तापमान रेंज 0 सी	अधिकतम एकक मूल्य (अंकों की संख्या)	अधिकतम दिया गया मूल्य (अंकों की संख्या)	द्रव्य
1	2	3	4	5	6	7	8
0.5	50/80	5.0/8.0	5.0	-25से + 55	99999.99	99999.99	गैसोलिन, कैरोसिन, डीजल को 15 प्रतिशत इथेलीन, एमटी बी ई 15 प्रतिशत और मेथेनाल 5 प्रति के साथ मिलाया गया

## आकृति-1



उक्त आकृति में प्रारूपी सीलिंग ऊपर दिखाई गई है। साफ्टवेयर सुरक्षा भी उपलब्ध करवाई गई है। इसके अतिरिक्त, मापन प्रणाली के जिन्हें भौतिक रूप से मापन यथार्थता को प्रभावित करने वाले संचालनों के खिलाफ विशेष रूप से उन पैरामीटर को जो माप के परिणामों के पता लगाने में भागीदारी करते हैं; किसी अन्य तरीके से सुरक्षा नहीं दी जा सकती है, पर सीलिंग उपलब्ध करवाई जानी चाहिए।

[फा. सं. डब्ल्यू एम-21(288)/2011]

बी. एन. दीक्षित, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 12th June, 2012

**S.O. 2246.**—Whereas the Central Government, after considering the OI ML certificate of Conformity issued by the Federal Agency for Technical Regulation and Metrology of Russia, Russian Federation, is satisfied that the model described in the said certificate (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) and the Legal Metrology (Approval of Models) Rules, 2011 and the said model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the second proviso to Section 22 of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) read with sub-rule (6) of rule 8 and sub-rule (4) of rule 11 of the Legal Metrology (Approval of Models) Rules, 2011, the Central Government hereby approves, issues and publishes the certificate of approval of model of measuring system for liquid other than water -fuel dispenser for motor vehicles (other than LPG dispenser) of accuracy class "0.5" (hereinafter referred to as said model) of "Universal Advantage series", manufactured by M/s. Beijing Chang Gi Service Station Equipment Company Ltd., Jianshe W. street, Binhe Industrial zone, Pinggu District, Beijing, 101200, P.R.China (former company name of M/s. Gilbarco China Company Ltd., Jianshe Rd (W), Pinggu District, Beijing, 101200, P.R.China) and imported in India without any alteration before or after sale by M/s. Gilbarco Veeder Root India (P) Ltd., 504, 5th Floor, Satellite Silver, Andheri-Kurla Road, Marol Naka, Andheri (E), Mumbai-59, Maharashtra and which is assigned the approval mark IND/13/11/526.

The said model has the following characteristics and sub-systems:

Identification of the certified pattern	Fuel Dispensers Universal Advantage series
SINGLE HOSE ..... B20202-A, B30202-A	narrow frame
TWO HOSE ..... B21202-A, B23202-A, B31202-A, B33202-A	narrow frame
THREE HOSE ..... B04202-A, B14202-A	wide frame
FOUR HOSE ..... BJ3202-A, BK3202-A	narrow frame
FOUR HOSE ..... BB3202-A, BB7202-A, BC3202-A	wide frame
SIX HOSE ..... B05202-A, B 1 5202-A	wide frame
EIGHT HOSE ..... B7202-A, B 17202-A	wide frame

Characteristics: Fuel dispensers Advantage series comprising one or more systems in every enclosure and each sub system consist of the following:

1. Piston flow meter type CFT meter (CT20 150-Gxx) or C+(CT19976-Gxx) meter with or without GPU pump (M04920Bxxx/M07932 Bxxx).
2. Calculator-Electronic Register Assembly ERA (8051)
3. Encoder Measuring Transducer (Pulser Assembly):
  - CT18350-G I/BR405799-03/B-TY3;
  - B- TY3/B- TY9X/CA 1202/CA 1203.

Accuracy class	Maximum flow rate l/min	Minimum flow rate l/min	Minimum measured quantity l	Temperature range °C	Maximum Unit Price (number of digits)	Maximum price to pay (number of digits)	Liquids
I	2	3	4	5	6	7	8
0.5	50/80	5.0/8.0	5.0	-25 to +55	9999.99	99999.99	Gasoline, kerosene, diesel mixed with max 15% Ethanol, 15% MTBE & 5% Methanol

Figure 1.




Fig 2. Typical Sealing Diagram

A typical sealing is as shown in above figure. Software protection may also be provided. In addition, sealing should be provided on all parts of the measuring system which cannot be materially protected in any other way against operations liable to affect the measurement accuracy, particularly those parameters which participate in the determination of the results of measurement (parameters for correction and conversion in particular).

[F. No. WM-21 (288)/2011]

B. N. DIXIT, Director of Legal Metrology




नई दिल्ली, 12 जून, 2012

**का.आ. 2247.**—केन्द्रीय सरकार का, क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशाला, बंगलूर द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल (नीचे दी गई आकृति देखें) विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) तथा विधिक माप विज्ञान (माडलों का अनुमोदन) नियम 2011 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, विधिक माप विज्ञान (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 2011 के नियम 8 के उप-नियम (6) और नियम 11 के उप-नियम (4) के साथ पठित विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) की धारा 22 के दूसरे परन्तुक द्वारा शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स गिलबर्को वीदर रूट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, 504, पांचवा तल, सैटेलाइट सिल्वर, अंधेरी कुर्ला रोड, मारोल नाका, अंधेरी (ई), मुंबई-400059 द्वारा भारत में विनिर्मित पानी के अलावा अन्य द्रव्य मापन सिस्टम (मोटर व्हीकल के लिए फ्यूल डिस्पेंसर) अंकक सूचन सहित यथार्थता वर्ग 0.5 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है) “जैड लाइन” सीरिज जिसके ब्रांड का नाम “गिलबर्को वीदर रूट” है और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/11/314 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण-पत्र जारी करती है।

उक्त मॉडल पानी के अलावा (मोटर व्हीकल के लिए फ्यूल डिस्पेंसर) अन्य द्रव्य के मापन मीटर है। इसकी अधिकतम प्रवाह दर 80 लीटर है। न्यूनतम प्रवाह दर 4 लीटर/मिनट है और न्यूनतम मापी गई मात्रा 1 लीटर है। न्यूनतम प्रभाग 10 मि. लीटर/मि. लीटर है। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले के साथ इसमें वाल्यूम के लिए (7 अंकों में), दर (6 अंकों में), मूल्य (6 अंकों में), और घनत्व (4 अंकों में), हैं। इस में बहुप्रकार के ईंधन जैसे कि पेट्रोल, डीजल, गैस ऑयल इत्यादि के वितरण करने की क्षमता है। उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज ए सी प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है।



आकृति-1

आकृति-2 : सीलिंग डायग्राम।

चित्र में दर्शाए गए अनुसार डिस्पेंसर सील किया जाता है। इलेक्ट्रोमेकेनिकल टोटलाइजर, इलेक्ट्रॉनिक केलिब्रेशन कार्ड और मीटरिंग यूनिट में से वायर निकाल कर तीन प्वाइंट्स पर सीलिंग की जाती है। स्टाम्पिंग प्लेट की सीलिंग के अतिरिक्त, मशीन को कपटपूर्ण व्यवहार के लिए खोले जाने से रोकने के लिए सीलिंग की जाती है।

[फा. सं. डब्ल्यू एम-21(134)/2011]

बी. एन. दीक्षित, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 12th June, 2012

**S.O. 2247.**—Whereas the Central Government, after considering the test report submitted to it by Regional Reference Standards Laboratory, Bangalore is satisfied that the model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) and the Legal Metrology (Approval of Models) Rules, 2011 and the said model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the second proviso to Section 22 of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) read with sub-rule (6) of rule-8 and sub-rule (4) of rule 11 of the Legal Metrology (Approval of Models) Rules, 2011, the Central Government hereby approves, issues and publishes the certificate of approval of model of measuring system for liquid other than water (Fuel Dispenser for motor vehicles) with digital indication of accuracy class: 0.5 (hereinafter referred to as said model) of brand "GILBARCO VEEDER ROOT", series: "Z LINE" manufactured in India by M/s. Gilbarco Veeder Root India (P) Ltd., 504, 5th Floor, satellite Silver Andheri-Kurla Road, Marol Naka, Andheri (East), Mumbai-400059 in India and which is assigned the approval mark IND/9/11/314.

The said model is a measuring system for liquid other than water (Fuel Dispenser for motor vehicle). Its maximum flow rate range is 80 L/min, minimum rate is 4 L/min and minimum measured quantity is 1 litre. Its smallest interval is 1 mL and 10 mL. It has Liquid Crystal Display (LCD) with indication of volume (7 digits), Rate (6 digits) price (6 digits) and density (4 digits). It is capable of dispensing multiple variety of fuel that is petrol, diesel, gas, oil etc. The instrument operates on Single phase 230 Volts, 50 Hz A.C. power supply.



Figure 1.

Fig 2: Sealing Diagram

The dispenser is sealed as shown in figure, Sealing of electromechanical totalizer, electronic calibration card and metering unit at three points is done by passing wire through them. In addition to sealing the stamping plate, sealing shall be done to prevent the opening of machine for fraudulent practices.

[F. No. WM-21 (134)/2011]


B. N. DIXIT, Director of Legal Metrology

नई दिल्ली, 12 जून, 2012



**का.आ. 2248.**—केन्द्रीय सरकार का, क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशाला, बंगलूर द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल (नीचे दी गई आकृति देखें) विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) तथा विधिक माप विज्ञान (मॉडलों का अनुमोदन) नियम 2011 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, विधिक माप विज्ञान (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 2011 के नियम 8 के उप-नियम (6) और नियम 11 के उप-नियम (4) के साथ पठित विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) की धारा 22 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स गिलबर्को वीदर रूट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, 504, पांचवा तल, सैटेलाइट सिल्वर, अंधेरी कुर्ला रोड, मारोल नाका, अंधेरी (ई), मुंबई-400059 द्वारा भारत में विनिर्मित पानी के अलावा अन्य द्रव्य मापन सिस्टम (मोटर व्हीकल के लिए फ्यूल डिस्पेंसर) अंकक सूचन सहित यथार्थता वर्ग 0.5 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है) "पेसमेकर IV" सीरिज जिसके ब्रांड का नाम "गिलबर्को वीदर रूट" है और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/11/315 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण-पत्र जारी करती है।

उक्त मॉडल पानी के अलावा (मोटर व्हीकल के लिए फ्यूल डिस्पेंसर) अन्य द्रव्य के मापन मीटर है। इसकी अधिकतम प्रवाह दर 80 लीटर प्रति मिनट न्यूनतम प्रवाह दर 4 लीटर/मिनट है। और न्यूनतम मापी गई मात्रा 1 लीटर है। न्यूनतम प्रभाग 10 मि.लीटर/1 मि.लीटर है। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले के साथ इसमें वाल्यूम के लिए (7 अंकों में), दर (6 अंकों में), मूल्य (6 अंकों में), और घनत्व (4 अंकों में), हैं। इस में बहुप्रकार के ईंधन जैसे कि पेट्रोल, डीजल, गैस ऑयल इत्यादि के वितरण करने की क्षमता है। उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है।



आकृति-1



आकृति-2 : सीलिंग डायग्राम

चित्र में दर्शाए गए अनुसार डिस्पेंसर सील किया जाता है। इलेक्ट्रोमेकेनिकल टोटलाइजर, इलेक्ट्रॉनिक केलिब्रेशन काड और मीटरिंग यूनिट में से वायर निकाल कर तीन प्वाइंट्स पर सीलिंग की जाती है। स्टाम्पिंग प्लेट की सीलिंग के अतिरिक्त, मशीन को कपटपूर्ण व्यवहार के लिए खोले जाने से रोकने के लिए सीलिंग की जाती है।

[फा. सं. डब्ल्यू एम-21(134)/2011]

बी. एन. दीक्षित, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 12 June, 2012

**S.O. 2248.**—Whereas the Central Government, after considering the test report submitted to it by Regional Reference Standards Laboratory, Bangalore is satisfied that the model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) and the Legal Metrology (Approval of Models) Rules, 2011 and the said model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the second proviso to Section 22 of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) read with sub-rule (6) of rule 8 and sub-rule (4) of rule 11 of the Legal Metrology (Approval of Models) Rules, 2011 the Central Government hereby approves, issues & publishes the certificate of approval of model of measuring system for liquid other than water (Fuel Dispenser for motor vehicles) with digital indication of Accuracy Class: 0.5 (hereinafter referred to as said model) of brand "GILBARCO VEEDER ROOT", series: "PACEMAKER IV" manufactured in India by M/s Gilbarco Veeder Root India (P) Ltd, 504, 5th Floor, Satellite Silver Andheri-Kurla Road, Marol Naka, Andheri (East), Mumbai 400059 in India and which is assigned the approval mark IND/9/11/315

The said model is a measuring system for liquid other than water (Fuel Dispenser for motor vehicle). Its maximum flow rate range is 80 L/min, minimum flow rate is 4 L/min and minimum measured quantity is 1 litre. Its smallest interval is 1 mL & 10 mL. It has Liquid Crystal Display (LCD) with indication of volume (7 digits), Rate (6 digits), price (6 digits) and density (4 digits). It is capable of dispensing multiple variety of fuel that is petrol, diesel, gas oil etc. The instrument operates on Single phase 230Volts, 50 Hz A.C. power supply

Figure 1. Model





Fig 2 Sealing Diagram

The dispenser is sealed as shown in figure. Sealing of electromechanical totalizer, electronic calibration card and metering unit at three points is done by passing wire through them. In addition to sealing the stamping plate, sealing shall be done to prevent the opening of machine for fraudulent practices.

[F. No. WM-21 (134)/2011]

B. N. DIXIT, Director of Legal Metrology

नई दिल्ली, 13 जून, 2012

**का.आ. 2249.**—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल (नीचे दी गई आकृति देखें) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उप-धारा (7) और उप-धारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स मिनट्स कोरपोरेशन, एन-54, धारीधर एस्टेट, गोपीनाथ एस्टेट के सामने, राखिल, अहमदाबाद, गुजरात द्वारा विनिर्मित मध्यम यथार्थता (यथार्थता वर्ग-III) वाले “एमसीटी” शृंखला के अंकक सूचन सहित अस्वचालित तोलन उपकरण (टेबल टाप टाइप) के मॉडल का, जिसके ब्राण्ड का नाम “मिनट्स” है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/10/428 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण-पत्र जारी करती है।

उक्त मॉडल एक विकृत गेज प्रकार का भार सेल आधारित अस्वचालित तोलन उपकरण (टेबल टाप टाइप) है। इसकी अधिकतम क्षमता 30 कि.ग्रा. और न्यूनतम क्षमता 100 ग्रा. है। सत्यापन मापमान अंतराल (ई) 5 ग्रा. है। इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत-प्रतिशत व्यकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है। प्रकाश उत्सर्जनक डायोड (एलईडी) प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है। उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है।

आकृति-1



आकृति-2 : मॉडल को सीलिंग करने का योजनाबद्ध डायग्राम।

डिस्पले की बाड़ी में से सीलिंग वायर निकाल कर डिस्पले पर सीलिंग की जाती है। सील के साथ जुड़े हुए डिस्पले के बेस प्लेट और टॉप कवर में बने दो छेदों में से सीलिंग वायर निकाल कर सील से जोड़ा गया है। मॉडल को सीलबंद करने के उपबंध का एक प्ररूपी योजनाबद्ध डायग्राम उपरोक्त दिया गया है।

उपकरण में बाहरी केलिब्रेशन तक पहुंच की सुविधा है। बाहरी केलिब्रेशन तक पहुंच को रोकने के लिए ए/डी कार्ड/मदर बोर्ड में डिप स्विच भी दिया गया है।

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उप-धारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाण-पत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धांत, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे उक्त अनुमोदित मॉडल विनिर्माण किया गया है विनिर्मित उसी शृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 100 मि.ग्रा. से 2 ग्रा. तक के “ई” मान के लिए 100 से 100,00 तक की रेंज में सत्यापन मापमान अंतराल (एन) और 5 ग्रा. या उससे अधिक के “ई” मान के लिए 500 से 10,000 तक की रेंज में सत्यापन मापमान अंतराल (एन) सहित 50 कि.ग्रा. तक की अधिकतम क्षमता वाले हैं और “ई” मान  $1 \times 10^*$ ,  $2 \times 10^*$ ,  $5 \times 10^*$ , के हैं, जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं।

[फा. सं. डब्ल्यू एम-21(266)/2010]

बी. एन. दीक्षित, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 13th June, 2012

**S.O. 2249.**—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by prescribed authority, is satisfied that the model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (7) and (8) of section 36 of the said Act, the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the model of non-automatic weighing instrument (Table top type) with digital indication of Medium Accuracy (Accuracy class-III) of series "MCT" and with brand name "MINTUS" (hereinafter referred to as the said model), manufactured by M/s. Mintus Corporation, N.54, Dharidhar Estate, Opp. Gopinath Estate, Rakhil, Ahmedabad, Gujarat and which is assigned the approval mark IND/09/10/428.

The said model is a strain gauge type load cell based non-automatic weighing instrument (Table Top Type) with a maximum capacity of 30kg. and minimum capacity of 100g. The verification scale interval (e) is 5g. It has a tare device with a 100 percent subtractive retained tare effect. The Light Emitting Diode (LED) Display indicates the weighing result. The instrument operates on 230Volts, 50Hertz alternative current power supply.

Figure 1.




Figure 2 Schematic Diagram of sealing provision of the model

Sealing is done on the display by passing sealing wire from the body of the display. The seal is connected by whole in base plate & top cover of display, than seal wire is passed through these two holes attached with seal. A typical schematic diagram of sealing provision of the model is given above.

The instrument has external control to calibration. A dip switch has also been provided in A/D card/mother board to disable access to external calibration.

Further, in exercise of the power conferred by sub-section(12) of section 36 of the said Act, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the weighing instruments of similar make, accuracy and performance of same series with maximum capacity up to 50kg. with verification scale interval (n) in the range of 100 to 10,000 for 'e' value of 100 mg. to 2g. and with verification scale interval (n) in the range of 500 to 10,000 for 'e' value of 5g. or more and with 'e' value of  $1 \times 10^k$ ,  $2 \times 10^k$  or  $5 \times 10^k$ , where k is a positive or negative whole number or equal to zero manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which, the said approved model has been manufactured.

[F. No. WM-21(266)/2010]

B. N. DIXIT, Director of Legal Metrology


नई दिल्ली, 13 जून, 2012

**का.आ. 2250.**—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल (नीचे दी गई आकृति देखें) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) तथा बाट और माप मानक (माडलों का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) और उपधारा (8) द्वारा शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स मिनट्स कोरपोरेशन, एन. 54, धारीधर एस्टेट, गोपीनाथ एस्टेट के सामने, राखिल, अहमदाबाद, गुजरात द्वारा विनिर्मित मध्यम यथार्थता वर्ग III वाले “एमसीपी” श्रृंखला के अंकक सूचन सहित अस्वचालित तोलन उपकरण (प्लेटफार्म टाइप) के मॉडल का, जिसके ब्रांड का नाम “मिनट्स” है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/10/429 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण-पत्र जारी करती है।

उक्त मॉडल एक विकृत गेज प्रकार का भार सेल आधारित अस्वचालित तोलन उपकरण (प्लेटफार्म टाइप) है। इसकी अधिकतम क्षमता 1000 कि.ग्रा. और न्यूनतम क्षमता 2 कि.ग्रा. है। सत्यापन मापमान अंतराल (ई) 100 ग्रा. है। इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत-प्रतिशत व्यवकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एलईडी) प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है। उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है।

आकृति-1



आकृति-2 मॉडल को सीलिंग करने का योजनाबद्ध डायग्राम।

डिस्पले की बाडी में से सीलिंग वायर निकालकर डिस्पले पर सीलिंग की जाती है। सील के साथ जुड़े हुए डिस्पले के बेस प्लेट और टॉप कवर में बने दो छेदों में से सीलिंग वायर निकालकर सील से जोड़ा गया है। मॉडल को सीलबंद करने के उपबंध का एक प्ररूपी योजनाबद्ध डायग्राम उपरोक्त दिया गया है।

उपकरण में बाहरी केलिब्रेशन तक पहुंच की सुविधा है। बाहरी केलिब्रेशन तक पहुंच को रोकने के लिए ए/डी कार्ड/मदर बोर्ड में डिप स्विच भी दिया गया है।

और केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धांत, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे उक्त अनुमोदित मॉडल विनिर्माण किया गया है, विनिर्मित उसी श्रृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 5 ग्राम या उससे अधिक के “ई” मान के लिए 500 से 10,000 तक की रेंज में सत्यापन मापमान अंतराल (एन) सहित 50 कि.ग्रा. से 5000 कि.ग्रा. तक की अधिकतम क्षमता वाले हैं और “ई” मान  $1 \times 10^*$ ,  $2 \times 10^*$  या  $5 \times 10^*$ , के हैं, जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं।

[फा. सं. डब्ल्यू एम-21(266)/2010]

बी. एन. दीक्षित, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 13th June, 2012

**S.O. 2250.**—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-Section (7) and (8) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the model of non-automatic weighing instrument (Platform type) with digital indication of medium accuracy (Accuracy class-III) of series "MCP" and brand name "MINTUS" (hereinafter referred to as the said model), manufactured by M/s. Mintus Corporation, N. 54, Dharidhar Estate, Opp. Gopinath Estate, Rakhil, Ahmedabad, Gujarat and which is assigned the approval mark IND/09/10/429;

The said model is a strain gauge type load cell based non-automatic weighing instrument (Platform type) with a maximum capacity of 1000 kg. and minimum capacity of 2 kg. The verification scale interval (e) is 100 g. It has a tare device with a 100 per cent subtractive retained tare effect. The Light Emitting Diode (LED) display indicates the weighing result. The instrument operates on 230Volts, 50Hertz alternative current power supply.

Figure 1.




Figure 2 Schematic Diagram of sealing provision of the model.

Sealing is done on the display by passing sealing wire from the body of the display. The seal is connected by whole in base plate and top cover of display, then seal wire is passed through these two holes attached with seal. A typical schematic diagram of sealing provision of the model is given above.

The instrument has external control to calibration. A dip switch has also been provided in A/D card/mother board to disable access to external calibration.

Further, in exercise of the powers conferred by sub-section (12) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the weighing instruments of similar make, accuracy and performance of same series with maximum capacity above 50 kg. and up to 5000 kg. with verification scale interval (n) in the range of 500 to 10,000 for 'e' value of 5g. or more and with 'e' value of  $1 \times 10^k$ ,  $2 \times 10^k$  or  $5 \times 10^k$  where k is a positive or negative whole number or equal to zero manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which, the said approved model has been manufactured.

[F.No. WM-21 (266)/2010]

B. N. DIXIT, Director of Legal Metrology




नई दिल्ली, 13 जून, 2012

**का.आ. 2251.**—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल (नीचे दी गई आकृति देखें) विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) तथा विधिक माप विज्ञान (माडलों का अनुमोदन) नियम, 2011 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त माडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, विधिक माप विज्ञान (माडलों का अनुमोदन) नियम, 2011 के नियम 8 के उप-नियम (6) और नियम 11 के उप-नियम (4) के साथ पठित विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) की धारा 22 द्वारा शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स एशलिन इंटरप्राइसेस, रॉ हाउस नं. 1-2/24, गुडविल एनक्लेव, कल्याणीनगर, पुणे-411006, महाराष्ट्र द्वारा विनिर्मित यथार्थता वर्ग 1 : 2000 अथवा 0.5% की नॉमिनल क्षमता के पानी के अलावा अन्य द्रव्य मापन सिस्टम (प्रोविंग टैक्स या मैजर) 'पीटी' शृंखला और जिसके ब्रांड का नाम "एशलिन" है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त माडल कहा गया है) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/11/298 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण-पत्र जारी करती है।

उक्त मॉडल पानी के अलावा अन्य द्रव्य के लिए परीक्षण माप प्रणाली के लिए मानक क्षमता माप है (प्रूविंग टैंक अथवा माप)। इसकी अधिकतम क्षमता 500 लीटर है और 0.1% गेज ग्लास रिजलेशन के साथ ग्लास ट्यूब के डिस्पले के साथ 1:2000 अथवा 0.5% यथार्थता की नॉमिनल क्षमता है।

आकृति-1



आकृति-2 मॉडल को सीलिंग करने का योजनाबद्ध डायग्राम

डिस्प्लेसमेंट ट्यूब एसेम्बली की सीलिंग : लीड तार के एक सिरे को डिस्प्लेसमेंट ट्यूब के सिरे से आई होल के माध्यम से बांधा गया है और तार के दूसरे सिरे को डिस्प्लेसमेंट ट्यूब के बांधने वाले नट पर दिए गए छेद के माध्यम से निकाला गया है। ग्लास ट्यूब एसेम्बली की सीलिंग : लीड तार के एक सिरे को लॉकिंग स्कू के सिरे पर दिए गए छेद द्वारा बांधा गया है और तार के दूसरे सिरे को ट्यूब एसेम्बली के बांधने वाले नट पर दिए गए छेद में से निकाला गया है। दोनों तारों के सिरे को मजबूती से बांध दिया गया है और सत्यापन मुंह और सील से सील किया गया है। ग्लास ट्यूब की सील को तोड़े बिना छेदा नहीं जा सकता है। अतः सील को तोड़े बिना इसे कपटपूर्ण व्यवहार के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता।

और केन्द्रीय सरकार, विधिक माप विज्ञान (माडलों का अनुमोदन) नियम, 2011 के नियम 8 के उप-नियम (9) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त माडल के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धांत, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे उक्त अनुमोदित माडल विनिर्माण किया गया है, विनिर्मित उसी शृंखला और 1:2000 अथवा 0.5% यथार्थता के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण (प्रोविंग टैक्स) भी होंगे जिनकी अधिकतम क्षमता 20 लीटर से 10000 लीटर तक है।

[फा. सं. डब्ल्यू एम 21(169)/2011]

बी. एन. दीक्षित, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 13th June, 2012

**S.O. 2251.**—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by prescribed authority, is satisfied that the model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) and the Legal Metrology (Approval of Models) Rules, 2011 and the said model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 22 of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) read with sub-rule (6) of rule 8 and sub-rule (4) of rule 11 of the Legal Metrology (Approval of Models) Rules, 2011, the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the model of standard capacity measure for testing measuring systems for liquid other than water (Proving Tanks or Measure) belonging to Accuracy Class 1 : 2000 or 0.05% of nominal capacity, Series "PT" and with brand name "ASHLIN" (hereinafter referred to as the said model) manufactured by M/s. Ashlin Enterprises, Row House No. 1-2/24, Goodwill Enclave, Kalyaninagar, Pune-411006, Maharashtra and which is assigned the approval mark IND/09/11/298.

The said model is a standard capacity measure for testing measuring systems for liquid other than water (Proving Tanks or Measure). It has maximum capacity of 500 litres and accuracy of 1:2000 or 0.5% of nominal capacity with display consisting of Glass tube with gauge glass resolution of 0.1%

Figure 1 Model



Figure 2 Schematic diagram of the sealing provision of the model.

The sealing of the Displacement Tube Assembly : One end of a leaded wire is fastened through the Eye Hole on the top of the displacement tube and the other end of the wire is passed through the hole provided on Fastening Bolt of the displacement tube. The sealing of the Sealing of Glass tube Assembly : One end of a leaded wire is fastened through the hole provided in the head of Locking Screw and the other end of the wire is passed through the hole provided on Fastening Bolt of the tube assembly. Both ends of respective wires are wound securely and sealed with verification stamp and seal. The glass tube cannot be adjusted without breaking this seal. Hence it cannot be used fraudulent practices until and unless the seal is tampered.

Further, in exercise of the powers conferred by sub-rule (9) of rule 8 of the Legal Metrology (Approval of Models) Rules, 2011, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the Weighing instruments (Proving tanks) of similar make, accuracy and performance of same series with accuracy class 1 : 2000 or 0.5% of nominal capacity and capacity above 20 litres to 10,000 litres manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which, the said approved model has been manufactured.

[F.No. WM-21 (169)/2011]

R. N. DIXIT, Director of Legal Metrology

नई दिल्ली, 13 जून, 2012

का.आ. 2252.—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी फिसीकालिस्च, टेक्नीशच बुन्देसनस्टाल्ट द्वारा जारी मॉडल अनुमोदन प्रमाण पत्र के साथ द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल (नीचे दी गई आकृति देखें) विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) तथा विधिक माप विज्ञान (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 2011 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, विधिक माप विज्ञान (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 2011 के नियम 8 के उप-नियम (6) और नियम 11 के उप-नियम (4) के साथ पठित विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) की धारा 22 के दूसरे परंतुक द्वारा शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स फ्लो इंस्ट्रुमेंट एंड इंजीनियरिंग जीएमबीएच हेलिंगनस्टॉक 34 सी-एफ, 42697ए, सोलिंगन, जर्मनी द्वारा विनिर्मित यथार्थता वर्ग 2.5 वाले क्रिओजिनिक लिक्विड के लिए मापन प्रणाली के साथ, जिसके ब्रांड का नाम 'फ्लोकोम 2000' है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है) और जिसे मैसर्स शैल एन ट्यूब प्रा. लि., 3 गुलमोहर आर्चिड, 29/37, साहनी सुजान पार्क, लुला नगर, पुणे-411040 द्वारा बिक्री से पहले या बाद में बिना किसी परिवर्तन के भारत में बिक्रीत किया गया और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/13/11/549 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण-पत्र जारी और प्रकाशित करती है।

उक्त मॉडल एक मापन प्रणाली है जिसका प्रयोग फ्लोडिंग एयर और ज्वनशील गैसों को मापने के लिए किया जाता है जो कम तापमान पर द्रवणीय है। मापन रेंज मापन घटक के आकार पर निर्भर करती है। अधिकतम अनुमेय प्रवाह दर जो मापन नॉजल के नामिनल डायमीटर निर्भर करता है :

Nominal Diameter (DN) (mm)	Nominal Diameter of the nozzle (mm)	Maximum Flow Rate Q <sub>max</sub> (m <sup>3</sup> /h)
44.1	32.77	35

The greatest permissible flow rate dependent on the nominal diameter of the turbine wheel measuring element is:






Nominal Diameter (DN) (mm)	20	25	40	50
Maximum Flow Rate Q <sub>max</sub> (m <sup>3</sup> /h)	6	13	30	50

The ambient temperature limit is from -25°C to +55°C and operating temperature of the medium being measured is:

Medium	Minimum Temperature [°C]	Maximum Temperature [°C]
Nitrogen	-195	-157
Oxygen	-191	-137
Argon/argon mix (4%, 8%, 12%)	-189	-139
L-Air (Liquid Air)	-195	-163
Nitrous Oxide	-51	-7
Methane	-163	-130
Ethene	-103	-70
Lar Mix 4	-189	-139
Lar Mix 8	-189	-139
Lar Mix 12	-189	-139

एक विभेदक दबाव सेंसर का प्रयोग करते समय सबसे कम अनुमेय प्रवाह Q<sub>max</sub> का 0.2 बार है और दो विभेदक दबाव सेंसरों का प्रयोग करते समय Q<sub>max</sub> का 0.05 बार है। पैमाना वृद्धि 1 या 0.1 है। सबसे छोटी आउटपुट मात्रा स्वतंत्र रूप से चुनी जा सकती है। फिर भी यह सबसे छोटी संख्या माप (पैमाना मान) के 100 बार से छोटी नहीं है। वेंचर नॉजल के ऊपर की ओर अन्तर्प्रवाह खण्ड की न्यूनतम लम्बाई डीएन के 10 गुणा है और वेंचर नॉजल के नीचे की ओर बाह्य प्रवाह खण्ड की न्यूनतम लम्बाई डीएन के 5 गुणा है।

आकृति-1



आकृति-2 : मॉडल को सीलिंग करने का योजनाबद्ध डायग्राम ।

मीटियोलॉजिकल सील की सीलिंग स्थितियां चित्र में दर्शायी हैं । फ्लोकोम 2000 अंशांकन मूल्य को पासवर्ड और स्विच द्वारा सुरक्षित रखा गया है । अंशांकन के बाद स्विच को सत्यापन स्टॉप से लेवल किया जाता है । सेन्सरों के अंशांकन के बाद सत्यापन स्टॉप द्वारा लेबल किया जाता है । इसके अतिरिक्त, एनलॉग इनपुट के वायरिंग टर्मिनल ब्लॉक को भी अनिवार्यतः सील किया जाता है ताकि उन्हें डिसकनेक्ट न किया जा सके ।

[फा. सं. डब्ल्यू एम-21(272)/2011]

बी. एन. दीक्षित, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 13th June, 2012

**S.O. 2252.**—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority along with the model approval certificate issued by Physikalisch-Technische Bundesanstalt, is satisfied that the model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) and the Legal Metrology (Approval of Models) Rules, 2011 and the said model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the second proviso to section 22 of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) and sub-rule (6) of rule 8 and sub-rule (4) of rule 11 of the Legal Metrology (Approval of Models) Rules, 2011, the Central Government hereby approves, issues and publishes the certificate of approval of the measuring system for Cryogenic liquids with Brand Name "FLOWCOM 2000" and accuracy class 2.5 (hereinafter referred to as the said model), manufactured by M/s. Flow Instruments & Engineering GmbH Heiligenstock 34 c-f, 42697 Solingen, Germany and sold in India without any alteration before or after sale by M/s. Shell N Tube Pvt. Ltd., 3, Gulmohar Orchids, 29/37, Sahney Sujan Park, Lulla Nagar, Pune-411040 India and which is assigned the approval mark IND/13/11/549;

The said model is a metering system which is used to measure flowing air and combustible gases that are liquefiable by low temperatures. The measuring range depends on the size of metering element. The greatest permissible flow rate dependent on the nominal diameter of the measuring nozzle is:

Nominal Diameter (DN) (mm)	Nominal Diameter of the nozzle (mm)	Maximum Flow Rate $Q_{max}$ (m <sup>3</sup> /h)
44.1	32.77	35

The greatest permissible flow rate dependent on the nominal diameter of the turbine wheel measuring element is:

Nominal Diameter (DN) (mm)	20	25	40	50
Maximum Flow Rate $Q_{max}$ (m <sup>3</sup> /h)	6	13	30	50

The ambient temperature limit is from -25°C to +55°C and operating temperature of the medium being measured is:

Medium	Minimum Temperature [°C]	Maximum Temperature [°C]
Nitrogen	-195	-157
Oxygen	-191	-137
Argon/argon mix (4%, 8%, 12%)	-189	-139
L-Air (Liquid Air)	-195	-163
Nitrous Oxide	-51	-7
Methane	-163	-130
Ethene	-103	-70
Lar Mix 4	-189	-139
Lar Mix 8	-189	-139
Lar Mix 12	-189	-139

The smallest permissible flow when using one differential pressure sensor is 0.2 times of  $Q_{max}$  and when using two differential pressure sensors is 0.05 times of  $Q_{max}$ . Scale increment is 1 or 0.1. Smallest output quantity is freely selectable, however it is not smaller than 100 times the smallest number step (scale value). The minimum length of the inflow section upstream of the venture nozzle is 10 times DN and minimum length of the outflow section downstream of the venture nozzle is 5 times DN.

Figure 1.







Figure 2 : Schematic Diagram of sealing provision of the model.

The Sealing positions of metrological seals are shown in the figure. The Flowcom 2000 calibration values are secured by a password and a switch. The switch is labeled by a verification stamp after calibration. The sensors are labeled by a verification stamp after calibration. Furthermore, the wiring terminal blocks of analog inputs must be sealed so that they cannot be disconnected.

[E No. WM-21 (272) 2011]


B. N. DIXIT, Director of Legal Metrology

नई दिल्ली, 14 जून, 2012

**का.आ. 2253.**—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल (नीचे दी गई आकृति देखें) विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) तथा विधिक माप विज्ञान (माडलों का अनुमोदन) नियम, 2011 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त माडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, विधिक माप विज्ञान (माडलों का अनुमोदन) नियम, 2011 के नियम 8 के उप-नियम (6) और नियम 11 के उप-नियम (4) के साथ पठित विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) की धारा 22 के दूसरे परन्तुक द्वारा पदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स हांगझाऊ हुआ' आन मेडीकल एंड हैल्थ इंस्ट्रूमेंट कंपनी लि., बिल्डिंग 2, बैमिओ इंडस्ट्रीयल पार्क, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जोन, बुचांग हांगझाऊ, झिजिआंग 310033, चीन द्वारा विनिर्मित यथार्थता वर्ग-II के अधिकतम डिवाइस अंकक सूचन सहित, क्लिनीकल इलेक्ट्रीकल थर्मामीटर के साथ, जिसके ब्रांड का नाम 'सारा+केयर' है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त माडल कहा गया है) और जिसे मैसर्स मिनाक्षी इंटरनेशनल, 12/25, अपर ग्राउंड फ्लोर, ईस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली-110008 द्वारा बिक्री से पहले या बाद में बिना किसी परिवर्तन के भारत में विपणीत किया गया और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/11/532 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण-पत्र जारी करती है।

आकृति-1



उक्त मॉडल हार्ड टिप टाइप क्लिनीकल इलेक्ट्रीकल थर्मामीटर है जो अधिकतम डिवाइस, एल सी डी (लिव्क्विड क्रिस्टल डायोड) टाइप अंकक सूचन सहित मापमान रेंज 35.5°C से 42°C में है और जिसका न्यूनतम स्केल अंतराल 0.1°C है। यह 1.583वी डीसी बैटरी से परिचालित होता है।

[फा. सं. डब्ल्यू एम-21(240)/2011]


बी. एन. दीक्षित, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 14th June, 2012

**S.O. 2253.**— Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) and the Legal Metrology (Approval of Models) Rules, 2011 and the said model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the second proviso to section 22 of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) read with sub-rule (6) of rule 8 and sub-rule (4) of rule 11 of the Legal Metrology (Approval of Models) Rules, 2011, the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the model of Clinical Electrical Thermometer with Maximum Device with digital indication of Accuracy Class-II with brand name "SARA+CARE" (hereinafter referred to as the said model), manufactured by M/s Hangzhou Hua'an Medical and Health Instruments Company Limited, Building 2, Baimiao Industrial Park, Wuchang Economic Develop Zone, Hangzhou, Zhejiang 310023, China and marketed in India without any alteration before or after sale by M/s Meenakshi International, 12/25, Upper Ground Floor, East Patel Nagar, New Delhi-110008 and which is assigned the approval mark IND/09/11/532;

Figure-1 Model



The said model is a hard tip type Clinical Electrical Thermometer with maximum device, having measurement range of 35.5°C to 42°C with digital indication of LCD (Liquid Crystal Display) type and the smallest scale interval is 0.1 °C. It operates on 1.583V DC battery.

[F.No.WM-21(240)/2011]

B. N DIXIT, Director of Legal Metrology





नई दिल्ली, 14 जून, 2012

**का.आ. 2254.**—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल (नीचे दी गई आकृति देखें) विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) तथा विधिक माप विज्ञान (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 2011 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, विधिक माप विज्ञान (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 2011 के नियम 8 के उप-नियम (6) और नियम 11 के उप-नियम (4) के साथ पठित विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) की धारा 22 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स लाइभेर सीएमसी टैक इंडिया प्रा. लि., गेट नं. 196-199, गांव धायगुडे (बोरीपार्धी) पुणे-सोलापुर नेशनल हाइवे नं. 9, तालुका-दाउंड, पुणे-412203, महाराष्ट्र द्वारा विनिर्मित यथार्थता वर्ग 0.2 वाले “बाटोमिक्स” शृंखला के अंकक सूचन सहित अस्वचालित टोटलाइजिंग हुपर व्हीयर और बैचिंग सिस्टम के मॉडल का, जिसके ब्रांड का नाम “लाइभेर” है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/12/84 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण-पत्र जारी करती है।

उक्त मॉडल एक विकृत गेज प्रकार का भार सेल आधारित अस्वचालित टोटलाइजिंग हुपर व्हीयर और बैचिंग सिस्टम है। इसकी अधिकतम क्षमता 500 कि.ग्रा. और न्यूनतम क्षमता 10 कि.ग्रा. है। मापमान अन्तराल (डीटी) 100 ग्रा. और स्पीड रेंज 1 से 2 डिस्चार्ज प्रति मिनट है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एलईडी) प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है। उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है।

आकृति-1



आकृति-2 : मॉडल को सीलिंग करने का योजनाबद्ध डायग्राम।

स्केल की बाडी होल्स में से सीलिंग वायर निकालकर सीलिंग की जाती है। मॉडल को सीलबंद करने के उपबंध का एक प्ररूपी योजनाबद्ध डायग्राम उपरोक्त दिया गया है।

उपकरण में केलिब्रेशन के लिए बाहरी पहुंच है। बाहरी केलिब्रेशन तक पहुंच को रोकने के लिए ए/डी कार्ड/मदर बोर्ड में डिप स्विच भी दिया गया है।

और केन्द्रीय सरकार, विधिक माप विज्ञान (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 2011 के नियम 8 के उप-नियम (9) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धांत, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे उक्त अनुमोदित मॉडल विनिर्माण किया गया है, विनिर्मित उसी शृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जिनकी अधिकतम क्षमता 1500 कि.ग्रा. तक है।

[फा. सं. डब्ल्यू एम-21(295)/2011]

बी. एन. दीक्षित, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 14th June, 2012

**S.O. 2254.**—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) and the Legal Metrology (Approval of Models) Rules, 2011 and the said model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 22 of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) read with sub-rule (6) of rule 8 and sub-rule (4) of rule 11 of the Legal Metrology (Approval of Models) Rules, 2011, the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the model of discontinuous totalizing hopper weigher and batching system with digital indication of Accuracy class-0.2 of series "BATOMIX" and with brand name "LIEBHERR" (hereinafter referred to as the said Model), manufactured by M/s. Liebherr CMC Tech India Private Ltd., Gate No. 196—199, Village Dhaygudewadi (Boripardi) Pune-Solapur National Highway No 9, Taluka-Daund, Pune-412203, Maharashtra and which is assigned the approval mark IND/09/12/84;

The said model is a strain gauge type load cell based discontinuous totalizing hopper weigher and batching system with a maximum capacity of 500kg, minimum capacity of 10kg. The scale interval (dt.) is 100g and speed range is 1 to 2 discharge per minute. The light emitting diode (LED) display indicates the weighing results. The instrument operates on 230Volts, 50Hertz alternative current power supply.

Figure- 1 Model (Hopper)





Figure- 2 : Sealing diagram of the sealing provision of the model

Sealing is done by passing the sealing wire from the body of the scale through holes. A typical schematic diagram of sealing provision of the model is given above.

The instrument has external control to calibration. A dip switch has also been provided in mother board to disable access to external calibration.

Further, in exercise of the power conferred by sub-rule (9) of rule 8 of the Legal Metrology (Approval of Models) Rules, 2011, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the weighing instruments of similar make, accuracy and performance of same series with maximum capacity range up to 1500kg manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which, the said approved model has been manufactured.

[F.No.WM-21(295)/2011]

B. N DIXIT, Director of Legal Metrology



नई दिल्ली, 14 जून, 2012

का.आ. 2255.—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल (नीचे दी गई आकृति देखें) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उप-धारा (7) और उप-धारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स रोम्बिल्ड वेटॉन, ए-212, फेयरडील हाउस, स्वास्तिक क्रॉस रोड, लेडीज होस्टल के सामने, नवरंगपुरा, अहमदाबाद-9, गुजरात द्वारा विनिर्मित मध्यम यथार्थता (यथार्थता वर्ग III) वाले "आरडब्ल्यूटी-024टीएस" शृंखला के अंकक सूचन सहित अस्वचालित तोलन उपकरण (इलेक्ट्रॉनिक वेब्रिज) के मॉडल का, जिसके ब्रांड का नाम "रोम्बिल्ड" है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/10/557 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण-पत्र जारी करती है।

उक्त मॉडल एक विकृत गेज प्रकार का भार सेल आधारित अस्वचालित तोलन उपकरण (इलेक्ट्रॉनिक वेब्रिज) है। इसकी अधिकतम क्षमता 40 टन न्यूनतम क्षमता 100 कि.ग्रा. है। सत्यापन मापमान अंतराल (ई) 5 कि.ग्रा. है। इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत-प्रतिशत व्यवकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एलईडी) प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है। उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है।

आकृति-1



आकृति-2 : मॉडल को सीलिंग करने का योजनाबद्ध डायग्राम।

डिस्पले की बाड़ी में से सीलिंग वायर निकालकर डिस्पले के राइट साइड/बैक साइड में सीलिंग की जाती है। सील के साथ जुड़े हुए डिस्पले के बेस प्लेट और टॉप कवर में बने दो छेदों में से सीलिंग वायर निकालकर सील से जोड़ा गया है। मॉडल को सीलबंद करने के उपबंध का एक प्ररूपी योजनाबद्ध डायग्राम उपरोक्त दिया गया है।

उपकरण में बाहरी केलिब्रेशन तक पहुंच की सुविधा है। बाहरी केलिब्रेशन तक पहुंच को रोकने के लिए ए/डी कार्ड/मदर बोर्ड में डिप स्विच भी दिया गया है।

और केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाण-पत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धांत, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे उक्त अनुमोदित मॉडल विनिर्माण किया गया है, विनिर्मित उसी शृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 5 ग्राम या उससे अधिक के "ई" मान के लिए 500 से 10,000 तक की रेंज में सत्यापन मापमान अंतराल (एन) सहित 5 टन से 200 टन तक की अधिकतम क्षमता वाले हैं और "ई" मान  $1 \times 10^*$ ,  $2 \times 10^*$  या  $5 \times 10^*$ , के हैं, जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं।

[फा. सं. डब्ल्यू एम 21(324)/2010]

बी. एन. दीक्षित, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 14th June, 2012

**S.O. 2255.**—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by prescribed authority, is satisfied that the model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (7) and (8) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the model of non-automatic weighing instrument (Electronic Weighbridge Type) with digital indication of Medium Accuracy (Accuracy class-III) of series "RWT-024TS" and with brand name "ROMBILD" (hereinafter referred to as the said model), manufactured by M/s. Rombild Weighton, A-212, Fairdeal House Swastik Cross Road, Opp. Ladies Hostel, Navarangpura, Ahmedabad-9, Gujarat and which is assigned the approval mark IND/09/10/557;

The said model is a strain gauge type load cell based non-automatic weighing instrument (Electronic Weighbridge Type) with a maximum capacity of 40 tonne and minimum capacity of 100 kg. The verification scale interval (e) is 5 kg. It has a tare device with a 100 percent subtractive retained tare effect. The Light Emitting Diode (LED) Display indicates the weighing result. The instrument operates on 230 Volts, 50 Hertz alternative current power supply.

Figure- 1 Model (Hopper)





Figure- 2 : Sealing diagram of the sealing provision of the model.

Sealing is done on the right side /back side of the display by passing sealing wire from the body of the display. The seal is connected by whole in base plate & top cover of display, than seal wire is passed through these two holes attached with seal. A typical schematic diagram of sealing provision of the model is given above.

The instrument has external control to calibration. A dip switch has also been provided in A/D card/mother board to disable access to external calibration.

Further, in exercise of the power conferred by sub-section (12) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the weighing instruments of similar make, accuracy and performance of same series with maximum capacity above 5 tonne and up to 200 tonne with verification scale interval (n) in the range of 500 to 10,000 for 'e' value of 5g or above and with 'e' value of  $1 \times 10^k$ ,  $2 \times 10^k$  or  $5 \times 10^k$ , where k is a positive or negative whole number or equal to zero manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which, the said approved model has been manufactured.

[F.No.WM-21(324)/2010]

B. N. DIXIT, Director of Legal Metrology



नई दिल्ली, 14 जून, 2012

का.आ. 2256.—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल (नीचे दी गई आकृति देखें) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) तथा बाट और माप मानक (माडलों का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उप-धारा (7) और उप-धारा (8) द्वारा शक्तियों को प्रयोग करते हुए मैसर्स रोमबिल्ड वेटॉन, ए-212, फेयरडील हाउस स्वास्तिक क्रॉस रोड, लेडीज होस्टल के सामने, नवरंगपुरा, अहमदाबाद-9, गुजरात द्वारा विनिर्मित मध्यम यथार्थता (यथार्थता वर्ग III) वाले "आरडब्ल्यूटी-024टीएस" शृंखला के अंकक सूचन सहित अस्वचालित तोलन उपकरण (क्रैन टाइप) के मॉडल का, जिसके ब्रांड का नाम "रोमबिल्ड" है (जिसे इसमें इससे पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/10/558 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण-पत्र जारी करती है।

उक्त मॉडल एक विकृत गेज प्रकार का भार सेल आधारित अस्वचालित तोलन उपकरण (क्रैन टाइप) है। इसकी अधिकतम क्षमता 5000 कि.ग्रा. और न्यूनतम क्षमता 20 कि.ग्रा. है। सत्यापन मापमान अंतराल (ई) 1 कि.ग्रा. है। इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत-प्रतिशत व्यवकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एलईडी) प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है। उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है।

आकृति-1



आकृति-2 : मॉडल को सीलिंग करने का योजनाबद्ध डायग्राम।

डिस्पले की बाड़ी में से सीलिंग वायर निकालकर डिस्पले के राइट साइड/बैक साइड में सीलिंग की जाती है। सील के साथ जुड़े हुए डिस्पले के बेस प्लेट और टॉप कवर में बने दो छेदों में से सीलिंग वायर निकालकर सील से जोड़ा गया है। मॉडल को सीलबंद करने के उपबंध का एक प्ररूपी योजनाबद्ध डायग्राम उपरोक्त दिया गया है।

उपकरण में बाहरी केलिब्रेशन तक पहुंच की सुविधा है। बाहरी केलिब्रेशन तक पहुंच को रोकने के लिए ए/डी कार्ड/मदर बोर्ड में डिप स्विच भी दिया गया है।

और केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाण-पत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धांत, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे उक्त अनुमोदित मॉडल का विनिर्माण किया गया है, विनिर्मित उसी शृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे 5 ग्राम या उससे अधिक के "ई" मान के लिए 500 से 10,000 तक की रेंज में सत्यापन मापमान अंतराल (एन) सहित 50 कि.ग्रा. से 50 टन तक की अधिकतम क्षमता वाले हैं और "ई" मान  $1 \times 10^3$ ,  $2 \times 10^3$  या  $5 \times 10^3$ , के हैं, जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं।

[फा. सं. डब्ल्यू एम-21(324)/2010]

बी. एन. दीक्षित, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 14th June, 2012

**S.O. 2256.**—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by prescribed authority, is satisfied that the model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (7) and (8) of section 36 of the said Act, the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the model of non-automatic weighing instrument (Crane type) with digital indication of medium accuracy (Accuracy class-III) of series "RWT-024CS" and with brand name "ROMBILD" (hereinafter referred to as the said model), manufactured by M/s. Rombild Weighton, A-212, Fairdeal House Swastik Cross Road, Opp. Ladies Hostel, Navarangpura, Ahmedabad-9, Gujarat and which is assigned the approval mark IND/09/10/558.

The said model is a strain gauge type load cell based non-automatic weighing instrument (Crane type) with a maximum capacity of 5000 kg and minimum capacity of 20 kg. The verification scale interval (e) is 1 kg. It has a tare device with a 100 per cent subtractive retained tare effect. The Light Emitting Diode (LED) indicates the weighing results. The instrument operates on 230 Volts, 50 Hertz alternative current power supply.

Figure- 1 Model





Figure- 2 Sealing arrangement

Sealing is done on the right side/left side of the display by passing sealing wire from the body of the display. The seal is connected by seal wire passing through these two holes attached with seal. A typical schematic diagram of sealing provision of the model is given above

The instrument has external control to calibration. A dip switch has also been provided in A/D card/mother board to disable access to external calibration.

The Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the weighing instruments of similar make, accuracy and performance of same series with maximum capacity range from 50 kg and up to 50 tonne with verification scale interval (n) in the range of 500 to 10,000 for 'e' value of 5g or more and with 'e' value of  $1 \times 10^k$ ,  $2 \times 10^k$  or  $5 \times 10^k$ , where k is a positive or negative whole number or equal to zero manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which, the said approved model has been manufactured.

[F.No.WM-21(324)/2010]

B. N. DIXIT, Director of Legal Metrology



नई दिल्ली, 14 जून, 2012

**का.आ. 2257.**—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल (नीचे दी गई आकृति देखें) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उप-धारा (7) और उप-धारा (8) द्वारा शक्तियों को प्रयोग करते हुए मैसर्स रोमबिल्ड वेटॉन, ए-212, फेयरडील हाउस स्वास्तिक क्रॉस रोड, लेडीज होस्टल के सामने, नवरंगपुरा, अहमदाबाद-9 गुजरात द्वारा विनिर्मित अंकक सूचन सहित यथार्थता वर्ग 0.5 वाले "आरडब्ल्यूटी-024 एचएस" शृंखला के डिस्कंटिन्युअस टोटलाइजिंग स्वचालित तोलन उपकरण (टोटलाइजिंग हुपर व्हीयर), के मॉडल का, जिसके ब्रांड का नाम "रोमबिल्ड" है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/10/591 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाणपत्र जारी करती है;

उक्त मॉडल एक विकृत गेज प्रकार का भार सेल आधारित डिस्कंटिन्युअस टोटलाइजिंग स्वचालित तोलन उपकरण (टोटलाइजिंग हुपर व्हीयर) है। इसकी अधिकतम क्षमता 5000 कि.ग्रा. और न्यूनतम क्षमता 20 कि.ग्रा. है। मापमान अन्तराल (डी) 1 कि.ग्रा. है। इसमें एक अधियतुलन युक्ति है जिसका शत प्रतिशत व्यकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एलईडी) प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है। उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है।

आकृति-1



आकृति-2 : मॉडल को सीलिंग करने का योजनाबद्ध डायग्राम।

वे इंडिकेटर को कपटपूर्ण व्यवहार के लिए खोले जाने से रोकने के लिए सीलिंग की गई है। स्टाम्पिंग के लिए इंडीकेटर की फ्रंट साइड और रियर साइड से लीड सील के साथ सीलिंग वायर निकाल कर स्टाम्पिंग के साथ जोड़ा गया है। मॉडल को सीलबंद करने के उपबंध का एक प्ररूपी योजनाबद्ध डायग्राम उपरोक्त दिया गया है।

उपकरण में बाहरी केलिब्रेशन तक पहुंच की सुविधा है। बाहरी केलिब्रेशन तक पहुंच को रोकने के लिए ए/डी कार्ड/मदर बोर्ड में डिप स्विच भी दिया गया है।

और केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उप-धारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धांत, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे उक्त अनुमोदित मॉडल का विनिर्माण किया गया है, विनिर्मित उसी शृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 5 ग्राम या उससे अधिक के "ई" मान के सहित 50 कि. ग्रा. से 20,000 कि.ग्रा. तक की अधिकतम क्षमता वाले हैं और "ई" मान  $1 \times 10^{-4}$ ,  $2 \times 10^{-4}$  या  $5 \times 10^{-4}$ , के हैं, जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं।

[फा. सं. डब्ल्यू एम 21(324)/2010]

बी. एन. दीक्षित, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 14th June, 2012

**S.O. 2257.**—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by prescribed authority, is satisfied that the model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (7) and (8) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the model of Automatic weighing instrument Discontinuous Totalizing Automatic weighing instrument (Totalizing Hopper Weigher) with digital indication of Accuracy class-0.5 of series "RWT-024HS" and with brand name "ROMBILD" (hereinafter referred to as the said Model), manufactured by M/s. Rombild Weighton, A-212, Fairdeal House Swastik Cross Road, Opp. Ladies Hostel, Navarangpura, Ahmedabad-9, Gujarat and which is assigned the approval mark IND/09/10/591;

The said model is a strain gauge type load cell based Automatic weighing instrument Discontinuous Totalizing Automatic weighing instrument (Totalizing Hopper Weigher) with a maximum capacity of 5000 kg and minimum capacity of 20 kg. The scale interval (d) is 1 kg. It has a tare device with a 100 per cent subtractive retained tare effect. The Light Emitting Diode (LED) display indicates the weighing results. The instrument operates on 230Volts, 50 Hertz alternative current power supply.

Figure- 1 Model





Figure- 2 Sealing diagram of the sealing provision of the model.

Sealing shall be done to prevent opening of the weight indicator for fraudulent practice. Stamping plate is connected through sealing wire passing from the front left side of indicator and right rear side with the lead seal, to get the stamping. A typical schematic diagram of sealing provision of the model is given above.

The instrument has external control to calibration. A dip switch has also been provided in A/D card/mother board to disable access to external calibration.

Further, in exercise of the power conferred by sub-section (12) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the weighing instruments of similar make, accuracy and performance of same series with maximum capacities in the range of 50 kg to 20000 kg for 'e' value of 5g or more and with 'e' value of  $1 \times 10^k$ ,  $2 \times 10^k$  or  $5 \times 10^k$ , where k is a positive or negative whole number or equal to zero manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which, the said approved model has been manufactured.

[F. No. WM-21(324)/2010]

B. N. DIXIT, Director of Legal Metrology




नई दिल्ली, 9 अगस्त, 2012

**क्र.अ. 2258.**—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल (नीचे दी गई आकृति देखें) विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) तथा विधिक माप विज्ञान (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 2011 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, विधिक माप विज्ञान (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 2011 के नियम 8 के उप-नियम (6) और नियम 11 के उप-नियम (4) के साथ पठित विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 (2010 का 1) की धारा 22 द्वारा शक्तियों को प्रयोग करते हुए मैसर्स एसीआई सिस्टम्स एंड सर्विसिज, 51, वेंकटचला निकेतन स्ट्रीट, रोयापुरम, चेन्नई -600013 द्वारा विनिर्मित मध्यम यथार्थता (यथार्थता वर्ग III) वाले "यूडब्ल्यू-310" शृंखला के अंकक सूचन सहित अस्वचालित तोलन उपकरण (प्लेट फार्म टाइप) के मॉडल का, जिसके ब्रांड का नाम "यूनिव्हे" है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/11/262 सम्पुद्देशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाणपत्र जारी करती है।

उक्त मॉडल एक विकृत गेज प्रकार का भार सेल आधारित अस्वचालित तोलन उपकरण (प्लेटफार्म टाइप) है। इसकी अधिकतम क्षमता 1000 कि.ग्रा. और न्यूनतम क्षमता 4 कि.ग्रा. है। सत्यापन मसमान अन्तराल (ई) 200 ग्र. है। इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत प्रतिशत व्यकलनात्मक धरित आधेयतुलन प्रभाव है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एलईडी) प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है। उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है।

आकृति-1



आकृति-2 : मॉडल को सीलिंग करने का योजनाबद्ध डायग्राम

डिस्पले की बाड़ी में से सीलिंग वायर निकालकर डिस्पले पर सीलिंग की जाती है। सील के साथ जुड़े हुए डिस्पले के बेस प्लेट और टॉप कवर में बने दो छेदों में से सीलिंग वायर निकाल कर सील से जोड़ा गया है। मॉडल को सीलबंद करने के उपबंध का एक प्ररूपी योजनाबद्ध डायग्राम उपरोक्त दिया गया है।

उपकरण में बाहरी केलिब्रेशन तक पहुंच की सुविधा है। बाहरी केलिब्रेशन तक पहुंच को रोकने के लिए ए/डी कार्ड/मदर बोर्ड में डिप स्विच भी दिया गया है।

और केन्द्रीय सरकार, विधिक माप विज्ञान (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 2011 के नियम 8 के उप-नियम (9) द्वारा प्ररक्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धांत, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे उक्त अनुमोदित मॉडल का विनिर्माण किया गया है, विनिर्मित उसी शृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे 5 ग्राम या उससे अधिक के "ई" मान के लिए 500 से 10,000 तक की रेंज में सत्यापन मसमान अंतराल (एन) सहित 50 कि.ग्रा. से 5000 कि.ग्रा. तक की अधिकतम क्षमता वाले हैं और "ई" मान  $1 \times 10^3$ ,  $2 \times 10^3$  या  $5 \times 10^3$  के हैं, जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं।

[फा. सं. डब्ल्यू एम-21(141)/2011]

बी. एन. दीक्षित, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 9th August, 2012

**S.O. 2258.**—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) and the Legal Metrology (Approval of Models) Rules, 2011 and the said model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 22 of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) read with sub-rule (6) of rule 8 and sub-rule (4) of rule 11 of the Legal Metrology (Approval of Models) Rules, 2011, the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the model of non-automatic weighing instrument (Platform type) with digital indication of medium accuracy (Accuracy class-III) of series "UW -310" and with brand name "UNIWEIGH" (hereinafter referred to as the said model), manufactured by M/s ACI Systems and Services, 51, Venkatachala Naicken Street, Royapuram, Chennai-600 013 and which is assigned the approval mark IND/09/11/262 ;

The said model is a strain gauge type load cell based non-automatic weighing instrument (Platform type) with a maximum capacity of 1000 kg and minimum capacity of 4 kg. The verification scale interval (e) is 200g. It has a tare device with a 100 percent subtractive retained tare effect. The Light Emitting Diode (LED) display indicates the weighing result. The instrument operates on 230Volts, 50 Hertz alternative current power supply.

Figure- 1 Model




Figure- 2 Schematic diagram of sealing provision of the model

Sealing is done on the display by passing sealing wire from the body of the display. The seal is connected by whole in base plate and top cover of display, than seal wire is passed through these two holes attached with seal. A typical schematic diagram of sealing provision of the model is given above.

The instrument has external control to calibration. A dip switch has also been provided in A/D card/mother board to disable access to external calibration,

Further, in exercise of the power conferred by sub-rule (9) of rule 8 of the Legal Metrology (Approval of Models) Rules, 2011, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the weighing instruments of similar make, accuracy and performance of same series with maximum capacity above 50kg and up to 5000 kg with verification scale interval (n) in the range of 500 to 10,000 for 'e' value of 5g or more and with 'e' value of  $1 \times 10^k$ ,  $2 \times 10^k$  or  $5 \times 10^k$ , where k is a positive or negative whole number or equal to zero manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which, the said approved model has been manufactured.

[F.No. WM-21(141)/2011]

B. N. DIXIT, Director of Legal Metrology


नई दिल्ली, 9 अगस्त, 2012

**क्र.अ. 2259.**—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल (नीचे दी गई आकृति देखें) विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) तथा विधिक माप विज्ञान (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 2011 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, विधिक माप विज्ञान (माडलों का अनुमोदन) नियम, 2011 के नियम 8 के उप-नियम (6) और नियम 11 के उप-नियम (4) के साथ पठित विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 (2010 का 1) की धारा 22 द्वारा शक्तियों को प्रयोग करते हुए मैसर्स एसीआई सिस्टम्स एंड सर्विसिज, 51, वेंकटचला निकेतन स्ट्रीट, रोयापुरम, चेन्नई - 600013 द्वारा विनिर्मित मध्यम यथार्थता (यथार्थता वर्ग III) वाले "यूडब्ल्यू-210" शृंखला के अंकक सूचन सहित अस्वचालित तोलन उपकरण (इलेक्ट्रॉनिक वेब्रिज-मल्टी लोड सैल टाइप) के मॉडल का, जिसके ब्रांड का नाम "यूनिक्" है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/11/263 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण-पत्र जारी करती है।

उक्त मॉडल एक विकृत गेज प्रकार का भार सैल आधारित अस्वचालित तोलन उपकरण (इलेक्ट्रॉनिक वेब्रिज-मल्टी लोड सैल टाइप) है। इसकी अधिकतम क्षमता 80 टन और न्यूनतम क्षमता 400 कि.ग्रा. है। सत्यापन मापमान अन्तराल (ई) 20 कि.ग्रा. है। इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत प्रतिशत व्यकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है। प्रकाश उत्सर्जक 'डायोड (एलईडी) प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है। उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है।

आकृति-1



आकृति-2 मॉडल को सीलिंग करने का योजनाबद्ध डायग्राम

डिस्पले की बाडी में से सीलिंग वायर निकालकर डिस्पले पर सीलिंग की जाती है। सील के साथ जुड़े हुए डिस्पले के बेस प्लेट और टॉप कवर में बने दो छेदों में से सीलिंग वायर निकालकर सील से जोड़ा गया है। मॉडल को सीलबंद करने के उपबंध का एक प्ररूपी योजनाबद्ध डायग्राम उपरोक्त दिया गया है।

उपकरण में बाहरी केलिब्रेशन तक पहुंच की सुविधा है। बाहरी केलिब्रेशन तक पहुंच को रोकने के लिए ए/डी कार्ड/मदर बोर्ड में डिप स्विच भी दिया गया है।

और केन्द्रीय सरकार, विधिक माप विज्ञान (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 2011 के नियम 8 के उप-नियम (9) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे उक्त अनुमोदित मॉडल विनिर्माण किया गया है, विनिर्मित उसी शृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे 5 ग्राम या उससे अधिक के "ई" मान के लिए 500 से 10,000 तक की रेंज में सत्यापन मापमान अंतराल (एन) सहित 5 टन से 200 टन तक की अधिकतम क्षमता वाले हैं और "ई" मान  $1 \times 10^3$ ,  $2 \times 10^3$  या  $5 \times 10^3$ , के हैं, जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं।

[फा. सं. डब्ल्यू एम-21(141)/2011]

बी. एन. दीक्षित, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 9th August, 2012

**S.O. 2259.**—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by prescribed authority, is satisfied that the model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) and the Legal Metrology (Approval of Models) Rules, 2011 and the said model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 22 of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) read with sub-rule (6) of rule 8 and sub-rule (4) of rule 11 of the Legal Metrology (Approval of Models) Rules, 2011, the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the model of non-automatic weighing instrument (Electronic Weighbridge-Multi Load Cell type) with digital indication of medium accuracy (Accuracy class-III) of series "UW -310" and with brand name "UNIWEIGH" (hereinafter referred to as the said model), manufactured by M/s ACI Systems and Services, 51, Venkatachala Naiekan Street, Royapuram, Chennai-600 013 and which is assigned the approval mark IND/09/11/262;

The said model is a strain gauge type load cell based non-automatic weighing instrument (Electronic Weighbridge-Multi Load Cell type) with a maximum capacity of 80 tonne and minimum capacity of 400 kg. The verification scale interval (e) is 200 kg. It has a tare device with a 100 percent subtractive retained tare effect. The Light Emitting Diode (LED) display indicates the weighing result. The instrument operates on 230Volts, 50 Hertz alternative current power supply.

Figure- 1 Model





Figure- 2 Schematic Diagram of sealing provision of the model

Sealing is done on the display by passing sealing wire from the body of the display. The seal is connected by whole in base plate and top cover of display, than seal wire is passed through these two holes attached with seal. A typical schematic diagram of sealing provision of the model is given above.

The instrument has external control to calibration. A dip switch has also been provided in A/D card/mother board to disable access to external calibration.

Further, in exercise of the power conferred by sub-rule (9) of rule 8 of the Legal Metrology (Approval of Models) Rules, 2011, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the weighing instruments of similar make, accuracy and performance of same series with above 5 tonne and up to 200 tonne with verification scale interval (n) in the range of 500 to 10,000 for 'e' value of 5g or more and with 'e' value of  $1 \times 10^k$ ,  $2 \times 10^k$  or  $5 \times 10^k$ , where k is a positive or negative whole number or equal to zero manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which, the said approved model has been manufactured.

[F.No.WM-21(141)/2011]

B. N. DIXIT, Director of Legal Metrology

नई दिल्ली, 9 अगस्त, 2012

**का.आ. 2260.**—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो जाता है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल (नीचे दी गई आकृति देखें) विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) तथा विधिक माप विज्ञान (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 2011 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, विधिक माप विज्ञान (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 2011 के नियम 8 के उप-नियम (6) और नियम 11 के उप-नियम (4) के साथ पठित विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 (2010 का 1) की भास 22 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए मैसर्स एसीआई सिस्टम्स एंड सर्विसिज, 51, वेंकटचला निकेतन स्ट्रीट, होयपुरम, चेन्नई-600013 द्वारा विनिर्मित यथार्थता वर्ग, X(x) जहाँ x=1 वाले “यूडब्ल्यू-410” शृंखला के स्वचालित ग्रेविमेट्रिक फिलिंग उपकरण के मॉडल का, जिसके ब्रांड का नाम “यूनिव्हे” है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/11/264 सम्प्रेषित किया गया है, अनुमोदन प्रमाणपत्र जारी करती है।

उक्त मॉडल एक विकृत गेज प्रकार का भार सेल आधारित स्वचालित ग्रेविमेट्रिक फिलिंग उपकरण है। इसकी अधिकतम क्षमता 1000 कि.ग्रा. और “डीवेल्यू 100 ग्रा. के साथ उत्पाद की मात्रा और प्रकृति पर निर्भर करते हुए इसकी कार्यक्षमता 10 फिल्टर प्रति मिनट है। मसतन को सभी प्रकार के फ्री फ्लोइंग मेटिरियल जैसे कैमिकल्स, चीनी, सूजी, रवा आदि भरने के लिए डिजाइन किया गया है। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले (एल सी डी) प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है। उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा बिद्युत प्रदाय पर कार्य करता है।

आकृति-1



आकृति-2 : मॉडल को सीलिंग करने का योजनाबद्ध डायग्राम।

स्टाम्प और सील के सत्यापन के लिए इंडिकेटर के रीयर साइड पर दो बोरेड स्कू में से लीडिड सीलिंग वायर निकाल कर, कवर और बरेकेट में से निकाल कर कसा जाता है। सील से छेड़छाड़ किए बिना इंडिकेटर को खोला नहीं जा सकता। मॉडल को सीलबद्ध करने के उपबंध का एक प्ररूपी योजनाबद्ध डायग्राम उपरोक्त दिया गया है।

उपकरण में बाहरी केलिब्रेशन तक पहुंच की सुविधा है। बाहरी केलिब्रेशन तक पहुंच को रोकने के लिए ए/डी कार्ड/पदर बोर्ड में डिप स्विच भी दिया गया है।

और केन्द्रीय सरकार, विधिक माप विज्ञान (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 2011 के नियम 8 के उप-नियम (9) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धांत, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे उक्त अनुमोदित मॉडल का विनिर्माण किया गया है, विनिर्मित उसी शृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जिनकी क्षमता 50 कि.ग्रा. से 2000 कि.ग्रा. तक है।

[फा. सं. डब्ल्यू एम-21 (141)/2011]

बी. एन. दीक्षित, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 9th August, 2012

**S.O. 2260.**—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by prescribed authority, is satisfied that the model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) and the Legal Metrology (Approval of Models) Rules, 2011 and the said model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 22 of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) read with sub-rule (6) of rule 8 and sub-rule (4) of rule 11 of the Legal Metrology (Approval of Models) Rules, 2011, the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the Model of Automatic Gravimetric Filling Instrument belonging to Accuracy Class, X(x) where x=1 of series "UW -410" and with brand name "UNIWEIGH" (hereinafter referred to as the said model), manufactured by M/s ACI Systems and Services, 51, Venkatachala Niketan Street, Royapuram, Chennai-600013 and which is assigned the approval mark IND/09/11/264;

The said model is a strain gauge type load cell based Automatic Gravimetric Filling Instrument. It has maximum capacity of 1000 kg. and d value of 100g. with a frequency of 10 fills per minute depending upon the quantity and nature of the product. The machine is designed for filling all types of free flowing materials like chemicals, sugar, suji, rawa etc. Graphic Liquid Crystal Display (LCD) indicates the weighing result. The instrument operates on 230 Volts, 50 Hertz alternative current power supply.

Figure- 1 Model




Figure- 2 Sealing diagram of the sealing provision of the model

On the rear side of the indicator, a leaded sealing wire is fastened through two bored screws, passing over the cover and bracket, for receiving the verification stamp and seal. The indicator can not be opened without tampering the seal. A typical schematic diagram of sealing provision of the model is given above.

The instrument has external control to calibration. A dip switch has also been provided in A/D card/mother board to disable access to external calibration.

Further, in exercise of the power conferred by sub-rule (9) of rule 8 of the Legal Metrology (Approval of Models) Rules, 2011, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the weighing instruments of similar make, accuracy and performance of same series with capacity from 50kg. and up to 2000kg. manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which the said approved model has been manufactured.

[F. No. WM-21(141)2011]

B. N. DIXIT, Director of Legal Metrology

## ( भारतीय मानक ब्यूरो )

नई दिल्ली, 14 जून, 2012

का.आ. 2261.—भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 1987 के नियम 7 के उप-नियम (1) के खंड (ख) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है कि जिस भारतीय मानक का विवरण नीचे अनुसूची में दिया गया है वह/वे स्थापित हो गया है :

## अनुसूची

क्रम सं.	स्थापित भारतीय मानक (कों) की संख्या वर्ष और शीर्षक	नये भारतीय मानक द्वारा अतिक्रमित भारतीय मानक अथवा मानकों, यदि कोई हो, की संख्या और वर्ष	स्थापित तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	आई एस/आईईसी/टी आर 62051-1: 2004 विद्युत मापा - मीटर पठन रीडिंग, शुल्क एवं भार नियंत्रण का डाटा एक्सचेंज- भाग 1 डी एल एम एस/कोसेम द्वारा उपस्कर सहित डाटा एक्सचेंज संबंधी शब्दावली	-	14-06-2012

इस भारतीय मानक की एक प्रति भारतीय मानक ब्यूरो, मानक भवन, 9, बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली-110002, क्षेत्रीय कार्यालयों : नई दिल्ली, कोलकाता, चण्डीगढ़, चेन्नई, मुम्बई तथा शाखा कार्यालयों : अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, कोयम्बतूर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, नागपुर, पटना, पूणे तथा तिरुवनन्तापुरम में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं ।

[संदर्भ : ईटी 13/टी-56]

मंजु गुप्ता, वैज्ञानिक 'ई' (विद्युत तकनीकी विभाग)

## (BUREAU OF INDIAN STANDARDS)

New Delhi, the 14th June, 2012

S.O. 2261.—In pursuance of clause (b) of sub-rule (1) of Rule 7 of the Bureau of Indian Standards Rules, 1987, the Bureau of Indian Standards hereby notifies to the Indian Standards, particulars of which is given in the Schedule hereto annexed has been issued :

## SCHEDULE

Sl.No.	No. and Year of the Indian Standard	No. and Year of the Indian Standards, if any, Superseded by the New Indian Standard	Date of Establishment
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	IS/IEC/TR 62051-1: 2004 Electricity Metering - Data Exchange for Meter Reading, Tariff and Load Control - Part 1 terms related to data Exchange with metering equipment using DLMS/COSEM	-	14-6-2012

Copy of this Standard is available for sale with the Bureau of Indian Standards, Manak Bhavan, 9, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi- 110002 and Regional Offices : New Delhi, Kolkata, Chandigarh, Chennai, Mumbai and also Branch Offices : Ahmedabad, Bangalore, Bhopal, Bhubaneswar, Coimbatore, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Nagpur, Patna, Pune, Thiruvananthapuram.

[Ref: ET 13/T-56]

MANJU GUPTA, Scientist 'E' (Electrotechnical Department)

नई दिल्ली, 18 जून, 2012

क्र.अ. 2262.—भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 1987 के नियम 7 के उप-नियम (1) के खंड (ख) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है कि अनुसूची में दिये गये मानक (कों) में संशोधन किया गया/किये गये हैं :

**अनुसूची**

क्रम सं.	संशोधित भारतीय मानक(कों) की संख्या वर्ष और शीर्षक	संशोधन की संख्या और तिथि	संशोधन लागू होने की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	आईएस 1879:2010 धातुवर्ष्य ढलवाँ लोहा पाइप फिटिंग- विशिष्ट (तीसरा पुनरीक्षण)	संशोधन संख्या 1 नवम्बर 2011	19-12-2011

इस संशोधन की प्रति भारतीय मानक ब्यूरो, मानक भवन, 9, बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली-110002, क्षेत्रीय कार्यालयों : नई दिल्ली, कोलकाता, चण्डीगढ़, चेन्नई, मुम्बई तथा शाखा कार्यालयों : अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, कोयम्बतूर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, नागपुर, पटना, पूणे तथा तिरुवनन्तपुरम में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

[संदर्भ : एमटीडी 6/टी-1]

पी. घोष, वैज्ञानिक 'एफ' एवं प्रमुख (एमटीडी)

New Delhi, the 18th June, 2012

S.O. 2262.—In pursuance of clause (b) of sub-rule (1) of Rule 7 of the Bureau of Indian Standards Rules, 1987, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that the Amendment, Indian Standards, particulars of which are given in the Schedule hereto annexed have been established on the date indicated against each:

**SCHEDULE**

Sl.No.	IS No. & Title of the amendment (s)	No. and year of the amendment	Date from which the amendment shall have effect
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	IS 1879:2010 - Malleable Cast Iron Pipe Fittings - Specification (Third Revision)	Amendment no. 1 Nov. 2011	19-12-2011

Copy of this amendment is available for sale with the Bureau of Indian Standards, Manak Bhavan, 9, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi- 110002 and Regional Offices : New Delhi, Kolkata, Chandigarh, Chennai, Mumbai and also Branch Offices : Ahmedabad, Bangalore, Bhopal, Bhubaneswar, Coimbatore, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Nagpur, Patna, Pune, Thiruvananthapuram.

[Ref: MTD 6/T-1]

P. GHOSH, Scientist 'F' &amp; Head (Met Engg.)



नई दिल्ली, 26 जून, 2012

**का.आ. 2263.**—भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 1987 के नियम 7 के उप-नियम (1) के खंड (ख) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है कि जिन भारतीय मानकों के विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए हैं वे स्थापित हो गए हैं :-

**अनुसूची**

क्रम सं.	स्थापित भारतीय मानक (कों) की संख्या वर्ष और शीर्षक	नये भारतीय मानक द्वारा अतिक्रमित भारतीय मानक अथवा मानकों, यदि कोई हो, की संख्या और वर्ष	स्थापित तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	आई एस/आई ई सी 61196-1: 122: 2006 समाक्ष संचार केबल भाग 1-122 इलेक्ट्रिकल परीक्षण विधियाँ -समाक्ष केबल के बीच अनुप्रस्थ-वार्ता के लिए परीक्षण	-	अगस्त 2011
2.	आई एस/आई ई सी 61196-1: 200 : 2005 समाक्ष संचार केबल भाग 1-200 पर्यावरण परीक्षण विधियाँ -सामान्य अपेक्षाएं	-	अप्रैल 2012
3.	आई एस/आई ई सी 61196-1-206 : 2005 समाक्ष संचार केबल भाग 1-206 पर्यावरण परीक्षण विधियाँ - जलवायु अनुक्रम	-	अगस्त 2011
4.	आई एस/आई ई सी 15934-5: 2011/ आई ई सी 61747-5:1998 द्रव क्रिस्टल एवं ठोस-अवस्था प्रदर्शन युक्तियाँ भाग 5 पर्यावरण, सह्यता एवं यांत्रिक परीक्षण विधियाँ	-	अगस्त 2011

इन भारतीय मानक की प्रतियां भारतीय मानक ब्यूरो, मानक भवन, 9, बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली-110002, क्षेत्रीय कार्यालयों : नई दिल्ली, कोलकाता, चण्डीगढ़, चेन्नई, मुम्बई तथा शाखा कार्यालयों : अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, कोयम्बतूर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, नागपुर, पटना, पूणे तथा तिरुवनन्तापुरम में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं ।

[संदर्भ : एल आई टी डी/जी-75]

नरेन्द्र सिंह, प्रमुख (इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आई टी)

New Delhi, the 26th June, 2012

**S.O. 2263.**—In pursuance of clause (b) of sub-rule (1) of Rule 7 of the Bureau of Indian Standards Rules, 1987, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that the Indian Standards, particulars of which are given in the Schedule hereto annexed have been established on the date indicated against each:

## SCHEDULE

Sl.No.	No. and Year of the Indian Standards Established	No. and Year of the Indian Standards, if any, superseded by the New Indian Standard	Date of Established
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	IS/IEC 61196-1-122: 2006 Coaxial Communication Cables Part 1-122 Electrical Test Methods - Test For Cross-Talk Between Coaxial Cables	-	August 2011
2.	IS/IEC 61196-1-200: 2005 Coaxial Communication Cables Part 1-200 Environmental Test Methods - General Requirements	-	April 2012
3.	IS/IEC 61196-1-206: 2005 Coaxial Communication Cables Part 1-206 Environmental Test Methods - Climatic Sequence	-	August 2011
4.	IS 15934: Part 5:2011/IEC 61747-5: 1998 Liquid crystal and solid-state display devices Part 5 Environmental endurance and mechanical test methods	-	August 2011

Copies of these Standards are available for sale with the Bureau of Indian Standards, Manak Bhavan, 9, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi- 110002 and Regional Offices : New Delhi, Kolkata, Chandigarh, Chennai, Mumbai and also Branch Offices : Ahmedabad, Bangalore, Bhopal, Bhubaneswar, Coimbatore, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Nagpur, Patna, Pune, Thiruvananthapuram.

[Ref. : LITD/G-75]

NARENDRA SINGH, Head (Electronics & IT)

( खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग )

नई दिल्ली, 29 जून, 2012

का.आ. 2264.—केन्द्रीय सरकार राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उप नियम (4) के अनुसरण में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन निम्नलिखित कार्यालय, जिसके 80 प्रतिशत से अधिक कर्मचारीवृन्द ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, को अधिसूचित करती है:-

1. केन्द्रीय भण्डारण निगम,  
केन्द्रीय भंडागार,  
निकट बराछा पुलिस स्टेशन,  
नाना बराछा रोड,  
सूरत-1,  
गुजरात - 395006

[सं. ई-11011/1/2008-हिंदी]

गिरीश शंकर, संयुक्त सचिव

## (Department of Food and Public Distribution)

New Delhi, the 29th June, 2012

**S.O. 2264.**—In pursuance of sub-rule (4) of Rule 10 of the Official Language (use for official purpose of the Union) Rules, 1976 the Central Government hereby notifies the following office under the administrative control of the Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution (Deptt. of Food & Public Distribution), where of more than 80% of staff has acquired the working knowledge of Hindi :

1. Central Warehousing Corporation,  
Central Warehouse,  
Near Barachha Police Station,  
Nana Barachha Road,  
Surat-1,  
Gujarat - 395006

[No. E-11011/1/2008-Hindi]

GIRISH SHANKAR, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 2012

**क्र.अ. 2265.**—भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 1987 के नियम 7 के उप-नियम (1) के खंड (ख) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एक्सप्रेस अधिसूचित करता है कि नीचे अनुसूची में दिये गये मानक (कों) में संशोधन किया गया/किये गये हैं :

## अनुसूची

क्रम सं.	संशोधित भारतीय मानक की संख्या और वर्ष	संशोधन की संख्या और तिथि	संशोधन लागू होने की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	आई एस 11639 (भाग 3): 1996 पातनल की संरचनात्मक डिजाइन की कसौटी भाग 3 पातनल के लिए विशेष	संशोधन संख्या 4 जून 2012	30 जून 2012

इस संशोधन की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो, मानक भवन, 9, बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली-110002, क्षेत्रीय कार्यालयों : नई दिल्ली, कोलकाता, चण्डीगढ़, चेन्नई, मुम्बई तथा शाखा कार्यालयों : अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, कोयंबूर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, नागपुर, पटना, पूणे तथा तिरुवनन्तपुरम में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं। भारतीय मानकों को <http://www.standardsbis.in> पर इंटरनेट द्वारा खरीदा जा सकता है।

[संदर्भ : डब्ल्यू आर डी 14/टी-33]

जे. सी. अरोड़ा, वैज्ञानिक 'एफ' एवं प्रमुख (जल संसाधन विभाग)

New Delhi, the 2nd July, 2012

**S.O. 2265.**—In pursuance of clause (b) of sub-rule (1) of Rule 7 of the Bureau of Indian Standards Rules, 1987, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that the Amendment, Indian Standards, particulars of which are given in the Schedule hereto annexed have been issued:

## SCHEDULE

Sl.No.	No. Title and Year of the Indian Standards	No. and year of the amendment	Date from which the amendment shall have effect
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	IS 11639 (Part 3): 1996 Structural design of penstocks - Criteria Part 3 Specials for penstocks	Amendment no.4 June 2012	30-06-2012
Copy of this Standard is available for sale with the Bureau of Indian Standards, Manak Bhavan, 9, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi- 110002 and Regional Offices : New Delhi, Kolkata, Chandigarh, Chennai, Mumbai and also Branch Offices : Ahmedabad, Bangalore, Bhopal, Bhubaneswar, Coimbatore, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Nagpur, Patna, Pune, Thiruvananthapuram. Indian Standards can be purchased from BIS sales portal <a href="http://www.standardsbis.in">http://www.standardsbis.in</a> .			
[Ref. : WRD 14/T-33]			
J. C. ARORA, Scientist 'F' & Head (Water Resources Deptt.)			

## कोयला मंत्रालय

## आदेश

नई दिल्ली, 29 जून, 2012

**का.आ. 2266.**—कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 3065 तारीख 20 अक्टूबर, 2011 जो भारत के राजपत्र के भाग-II, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) तारीख 29 अक्टूबर, 2011 में प्रकाशित की गई थी, उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित भूमि और भूमि में, या उस पर के सभी अधिकार (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त भूमि कहा गया है) उक्त अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, आत्यंतिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो गए हैं;

और केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि नार्दन कोलफील्ड्स लिमिटेड, सिंगरौली (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त 'सरकारी कंपनी' कहा गया है) ऐसे निबंधनों और शर्तों को जिन्हें केन्द्रीय सरकार इस निमित्त अधिरोपित करना उचित समझे, अनुपालन करने के लिए राजमंद है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि इस प्रकार उक्त भूमि और उक्त भूमि में या उस पर के अधिकार, तारीख 29 अक्टूबर, 2011 से केन्द्रीय सरकार में इस प्रकार निहित बने रहने की बजाए, निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, सरकारी कंपनी में निहित हो जाएंगे, अर्थात् :-

1. उक्त सरकारी कंपनी, उक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन यथा अवधारित प्रतिकर, व्याज, नुकसानी और वैसी ही मदों की बाबत किए गए संदायों की केन्द्रीय सरकार को प्रतिपूर्ति करेगी ;

2. उक्त सरकारी कंपनी द्वारा शर्त (1) के अधीन, केन्द्रीय सरकार को संदेय रकमों का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिए एक अधिकरण का गठन किया जाएगा तथा ऐसे किसी अधिकरण और ऐसे अधिकरण की सहायता के लिए नियुक्त व्यक्तियों के संबंध में उपगत सभी व्यय, उक्त सरकारी कंपनी वहन करेगी और इसी प्रकार निहित उक्त भूमि में या उस पर के अधिकारों के लिए या उनके संबंध में सभी विधिक कार्यवाहियों जैसे अपील आदि की बाबत उपगत, सभी व्यय भी, उक्त सरकारी कंपनी द्वारा वहन करेगी;

3. उक्त सरकारी कंपनी, केन्द्रीय सरकार या उसके पदधारियों के, ऐसे किसी अन्य व्यय के संबंध में, जो इस प्रकार निहित उक्त भूमि में या उस पर के अधिकारों के बारे में, केन्द्रीय सरकार या उसके पदधारियों द्वारा या उनके विरुद्ध किन्हीं कार्यवाहियों के संबंध में आवश्यक हो प्रतिपूर्ति करेगी;

4. उक्त सरकारी कंपनी को, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना, उक्त भूमि और अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित करने की शक्ति नहीं होगी ; और

5. उक्त सरकारी कंपनी, ऐसे निदेशों या शर्तों का, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, जब कभी आवश्यक हो, उक्त भूमि के विशिष्ट क्षेत्रों के लिए दिए जाएं या अधिरोपित की जाएं पालन करेगी ।

[फा. सं. 43015/37/2009-पीआरआईडब्ल्यू-1]

ए. के. दास, अवर सचिव

## MINISTRY OF COAL

## ORDER

New Delhi, the 29th June, 2012

**S.O. 2266.**— Whereas, on the publication of the notification of the Government of India in the Ministry of Coal number S.O. 3065, dated the 20th October, 2011 published in the Gazette of India, Part-II, Section-3, Sub-section (ii) dated the 29th October, 2011, issued under sub-section (1) of Section 9 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), (hereinafter referred to as the said Act), the land and all rights in or over the land described in the Schedule appended to the said notification (hereinafter referred to as the said land) vested absolutely in the Central Government free from all encumbrances under sub-section (1) of Section 10 of the said Act;

And whereas, the Central Government is satisfied that the Northern Coalfields Limited, Singrauli (hereinafter referred to as the Government Company) is willing to comply with such terms and conditions as the Central Government thinks fit to impose in this behalf;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 11 of the said Act, the Central Government hereby directs that the said land and rights in or over the said land so vested shall with effect from the 29th October, 2011, instead of continuing to so vest in the Central Government, shall vest in the said Government Company, subject to the following terms and conditions, namely:—

1. The said Government Company shall reimburse to the Central Government all payments made in respect of compensation, interest, damages and the like, as determined under the provisions of the said Act;
2. A Tribunal shall be constituted for the purpose of determining the amounts payable to the Central Government by the said Government Company under condition (1) and all expenditure incurred in connection with any such tribunal and persons appointed to assist the tribunal shall be borne by the said Government Company and similarly, all expenditure incurred in respect of all legal proceedings like appeals, etc. for or in connection with the rights, in or over the said lands, so vested, shall also be borne by the said Government Company;
3. The said Government Company shall indemnify the Central Government or its officials against any other expenditure that may be necessary in connection with any proceedings by or against the Central Government or its officials regarding the rights in or over the said lands so vested;
4. The said Government Company shall have no power to transfer the said land to any other persons without the prior approval of the Central Government; and
5. The said Government Company shall abide by such directions and conditions as may be given or imposed by the Central Government for particular areas of the said land, as and when necessary.

[F.No. 43015/37/2009-PRIW-I]

A. K. DAS, Under Secy.

नई दिल्ली, 29 जून, 2012

**का.आ. 2267.**—केन्द्रीय सरकार, ने कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 7 की उप-धारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 757 तारीख 15 मार्च, 2010, जो भारत के राजपत्र भाग-II, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) तारीख 20 मार्च, 2010 में प्रकाशित की गई थी, उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट ऐसी भूमि में, या उस पर के सभी अधिकारों के अर्जित करने के अपने आशय की सूचना दी थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 8 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और केन्द्रीय सरकार का, पूर्वोक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और पश्चिम बंगाल सरकार से परामर्श करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची में यथा वर्णित 23.36 हेक्टर (लगभग) या 57.71 एकड़ (लगभग) माप वाली और ऐसी भूमि में या उस पर भूमि के सभी अधिकार अर्जित की जाएगी;

अतः अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करती है कि अनुसूची में यथा वर्णित 23.36 हेक्टर (लगभग) या 57.71 एकड़ (लगभग) माप वाली भूमि में और ऐसी भूमि में या उस पर खनिजों के खनन, खदान, बोर करने के सभी अधिकार अर्जित किए जाते हैं।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाले क्षेत्र के रेखांक संख्या एमसी/एमपी/10/04 तारीख 25 अक्टूबर, 2010 का निरीक्षण कलेक्टर, जिला बर्दवान (पश्चिमी बंगाल) के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक, 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कोलकाता -700001 के कार्यालय में या मुख्य महाप्रबंधक (गवेषणा प्रभाग), सेंट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीट्यूट, गोंडवाना प्लेस, कांके रोड, रांची के कार्यालय में या ईस्टर्न

कोसफील्ड्स लिमिटेड मुख्यालय, सौकतोडिया, डाकघर-दिशेरागढ़, जिला बर्दवान (पश्चिमी बंगाल) पिन कोड-713333 के कार्यालय में किया जा सकता है।

### अनुसूची

मोहनपुर (विस्तार) ओ.सी.पी. कोल माइनिंग ब्लॉक

जिला बर्दवान पश्चिम बंगाल

(रेखांक संख्या एमसी/एमपी/10/04 तारीख 25 अक्टूबर, 2010)

सभी अधिकार :

क्रम सं.	मौजा/ग्राम* का नाम	पटवारी सर्किल जेएल संख्या*	तहसील थाना*	जिला	(क्षेत्र हेक्टर में)	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7
1.	पहाड़गोड़ा	जे.एल संख्या 64	सालानपुर	बर्दवान	23.36	-

\*राजस्व अभिलेख के अनुसार

कुल : 23.36 हेक्टर (लगभग)

या 57.71 एकड़ (लगभग)

1. ग्राम पहाड़गोड़ा में अर्जित किए गए प्लॉट संख्यांक :

248(भाग), 249(भाग), 250, 251(भाग), 252, 253(भाग), 254(भाग), 350(भाग), 351(भाग), 352, 353(भाग), 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362(भाग), 389(भाग), 390(भाग), 391, 392, 393, 394, 395, 396(भाग), 397(भाग), 398(भाग), 399(भाग), 438(भाग), 439, 440(भाग), 443(भाग), 444(भाग), 446(भाग), 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494(भाग), 496(भाग), 497(भाग), 498(भाग), 537(भाग), 538(भाग), 539, 541(भाग), 542(भाग), 543(भाग), 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604(भाग), 605(भाग), 606(भाग), 743, 751, 755.

सीमा वर्णन:-

क से ख : रेखा मोहनपुर मौजा जे. एल. सं. -65 की प्लॉट संख्या 123 और पहाड़गोड़ा मौजा जे. एल. सं. -64 की प्लॉट संख्या 604 की सम्मिलित सीमा से प्रारंभ होकर तथा पहाड़गोड़ा मौजा जे. एल. सं. -64 की प्लॉट संख्या 604, 605, 606, 446, 444, 443, 353, 440, 438, 433, 396, 397, 398, 390 से होते हुए पहाड़गोड़ा जे. एल. सं. -64 की प्लॉट संख्या 362 में बिन्दु ख से मिलती है।

ख से ग : रेखा पहाड़गोड़ा मौजा जे. एल. सं. -64 की प्लॉट संख्या 362 से प्रारंभ होते हुए पहाड़गोड़ा मौजा जे. एल. सं. -64 की प्लॉट संख्या 350 को पार करती है और पहाड़गोड़ा मौजा जे. एल. सं. -64 की प्लॉट संख्या 351 में बिन्दु ग से मिलती है।

ग से घ : रेखा पहाड़गोड़ा मौजा जे. एल. सं. -64 की प्लॉट संख्या 351 से प्रारंभ होकर पहाड़गोड़ा मौजा जे. एल. सं. -64 की प्लॉट संख्या 253 (कच्चा रास्ता) को पार करते हुए पहाड़गोड़ा मौजा जे. एल. सं. -64 की प्लॉट संख्या 254, 251, 249(परित्यक्त रेलवे लाईन), 248, 497 से होते हुए पहाड़गोड़ा मौजा जे. एल. सं. -64 की प्लॉट संख्या 497 में बिन्दु घ से मिलती है।

घ से ड. : रेखा पहाड़गोड़ा मौजा जे. एल. सं. -64 की प्लॉट संख्या 497 से प्रारंभ होकर जाती है, पहाड़गोड़ा मौजा जे. एल. सं. -64 की प्लॉट संख्या 498 में बिन्दु ड. से मिलती है।

ड. से च : रेखा पहाड़गोड़ा मौजा जे. एल. सं. -64 की प्लॉट संख्या 498 से प्रारंभ होते हुए पहाड़गोड़ा मौजा जे. एल. सं. -64 की प्लॉट संख्या 496 (तालाब) की उत्तर से गुजरती है और इसी प्लॉट के पूर्व में बिन्दु च से मिलती है।

- च से छ : रेखा पहाड़गोड़ा मौजा जे. एल. सं. -64 की प्लॉट संख्या 496 से प्रारंभ होते हुए पहाड़गोड़ा मौजा जे. एल. सं. -64 की प्लॉट संख्या 494 के उत्तर-पश्चिम से गुजरते हुए पहाड़गोड़ा मौजा जे. एल. सं. -64 की प्लॉट संख्या 538, 537 को पार करता हुआ पहाड़गोड़ा मौजा जे. एल. सं. -64 की प्लॉट संख्या 540 की दक्षिण सीमा से होते हुए जाती है और पहाड़गोड़ा मौजा जे. एल. सं. -64 की प्लॉट संख्या 541 को पार करती है और पहाड़गोड़ा मौजा जे. एल. सं. -64 की प्लॉट संख्या 542 में बिन्दु छ से मिलती है ।
- छ से ज : रेखा पहाड़गोड़ा मौजा जे. एल. सं. -64 की प्लॉट संख्या 542 से प्रारंभ होते हुए पहाड़गोड़ा मौजा जे. एल. सं. -64 की प्लॉट संख्या 543 को पार करती है और पहाड़गोड़ा मौजा जे. एल. सं. -64 की प्लॉट संख्या 494 के उत्तर-पूर्व में बिन्दु ज से मिलती है ।
- ज से झ : रेखा पहाड़गोड़ा मौजा जे. एल. सं. -64 की प्लॉट संख्या 494 के उत्तर-पूर्व से प्रारंभ होकर पहाड़गोड़ा मौजा जे. एल. सं. -64 की प्लॉट संख्या 494 और मोहनपुर मौजा जे. एल. सं. -65 की प्लॉट संख्या 8 की सम्मिलित सीमा पर बिन्दु झ से मिलती है ।
- झ से ञ : रेखा पहाड़गोड़ा मौजा जे. एल. सं. -64 की प्लॉट संख्या 494 और मोहनपुर मौजा जे. एल. सं. -65 की प्लॉट संख्या 8,9,10 की सम्मिलित सीमा से प्रारंभ होकर इसी सम्मिलित सीमा पर बिन्दु ञ से मिलती है ।
- ञ से ट : रेखा पहाड़गोड़ा मौजा जे. एल. सं. -64 की प्लॉट संख्या 494 और मोहनपुर मौजा जे. एल. सं. -65 की प्लॉट संख्या 113 की सम्मिलित सीमा से प्रारंभ होकर इसी सम्मिलित सीमा पर बिन्दु ट से मिलती है ।
- ट से ठ : रेखा पहाड़गोड़ा मौजा जे. एल. सं. -64 की प्लॉट संख्या 494 और मोहनपुर मौजा जे. एल. सं. -65 की प्लॉट संख्या 113 और 114 की सम्मिलित सीमा से प्रारंभ होकर इसी सम्मिलित सीमा पर बिन्दु ठ से मिलती है ।
- ठ से ड : रेखा पहाड़गोड़ा मौजा जे. एल. सं. -64 की प्लॉट संख्या 493 (परित्यक्त रेलवे लाईन) के उत्तर-पूर्व और मोहनपुर मौजा जे. एल. सं. -65 की प्लॉट संख्या 112 की सम्मिलित सीमा से प्रारंभ होकर इसी सम्मिलित सीमा पर बिन्दु ड से मिलती है ।
- ड से ढ : रेखा पहाड़गोड़ा मौजा जे. एल. सं. -64 की प्लॉट संख्या 493 के दक्षिण-पूर्व और मोहनपुर मौजा जे. एल. सं. -65 की प्लॉट संख्या 112 के दक्षिण-पश्चिम से प्रारंभ होकर पहाड़गोड़ा मौजा जे. एल. सं. -64 की प्लॉट संख्या 580, 582 और मोहनपुर मौजा जे. एल. सं. -65 की प्लॉट सं. 119 की सम्मिलित सीमा से प्रारंभ होकर इसी सम्मिलित सीमा पर बिन्दु ढ से मिलती है ।
- ढ से ण : रेखा पहाड़गोड़ा मौजा जे. एल. सं. -64 की प्लॉट संख्या 581 और मोहनपुर मौजा जे. एल. सं. -65 की प्लॉट संख्या 119 की सम्मिलित सीमा से प्रारंभ होकर इसी सम्मिलित सीमा पर बिन्दु ण से मिलती है ।
- ण से त : रेखा पहाड़गोड़ा मौजा जे. एल. सं. -64 की प्लॉट संख्या 581 और मोहनपुर मौजा जे. एल. सं. -65 की प्लॉट संख्या 119 की सम्मिलित सीमा से प्रारंभ होकर इसी सम्मिलित सीमा पर बिन्दु त से मिलती है ।
- त से थ : रेखा पहाड़गोड़ा मौजा जे. एल. सं. -64 की प्लॉट संख्या 603 और मोहनपुर मौजा जे. एल. सं. -65 की प्लॉट संख्या 119 की सम्मिलित सीमा से प्रारंभ होकर इसी सम्मिलित सीमा पर बिन्दु थ से मिलती है ।
- थ से क : रेखा पहाड़गोड़ा मौजा जे. एल. सं. -64 की प्लॉट संख्या 603 और मोहनपुर मौजा जे. एल. सं. -65 की प्लॉट संख्या 121 की सम्मिलित सीमा से प्रारंभ होते हुए पहाड़गोड़ा मौजा जे. एल. सं. -64 की प्लॉट संख्या 604 और मोहनपुर मौजा जे. एल. सं. 65 की प्लॉट संख्या 123 की सम्मिलित सीमा प्रारंभिक बिन्दु क से मिलती है ।

[फा. सं. 43015/28/2008-पीआरआईडब्ल्यू-1]

ए. के. दास, अवर सचिव

New Delhi, the 29th June, 2012

S.O. 2267.— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Coal number S.O. 757 dated 15th March, 2010, issued under sub-section (1) of Section 7 of the Coal Bearing Areas (Acquisition & Development) Act, 1957 (20 of 1957) (hereinafter referred to as the said Act) and published in the Gazette of India, Part-II, Section-3, Sub-section(ii) dated 20th March, 2010, the Central Government gave notice of its intention acquire the lands and all rights in or over such lands specified in the Schedule appended to that notification;

And whereas the Competent Authority in pursuance of Section 8 of the said Act has made his report to the Central Government;

And whereas the Central Government after considering the report aforesaid and after consulting the Government of West Bengal, is satisfied that the lands measuring 23.36 hectares (approximately) or 57.71 acres (approximately) and all rights in or over such lands as described in Schedule appended hereto should be acquired;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 9 of said Act, the Central Government hereby declares that the land measuring 23.36 hectares (approximately) or 57.71 acres (approximately) and all rights in or over such lands as described in the Schedule are hereby acquired.

The Plan bearing number MC/MP/10/04 dated the 25th October, 2010, of the area covered by this notification may be inspected at the office of the Collector, Burdwan (West Bengal) or at the office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Kolkata-700001 or at the office of the Chief General Manager (Exploration Division) Central Mine Planning and Design Institute, Gondwana Palace, Kanke Road, Ranchi or at the Headquarter of Eastern Coalfields Limited, Sanctoria, P.O. Disheragarh, District- Burdwan (W.B.) PIN 713333.

### SCHEDULE

#### Mohanpur (Expansion) OGP Coal Mining Block

#### District-Burdwan, West Bengal

(Plan bearing number MC/MP/10/04 dated the 25th October, 2010)

#### All Rights :

Sl. No.	Name of Mauja/Village*	Patwari Circle/JL Number*	Tahsil/PS*	District	Area (in hectares)	Remarks
1.	Pahargora	J.L. No. 64	Salanpur	Burdwan	23.36	—

\*as per Revenue records.

**Total: 23.36 hectares (approximately) or 57.71 acres (approximately)**

1. Plot numbers to be acquired in village Pahargora : 248(P), 249(P), 250, 251(P), 252, 253(P), 254(P), 350(P), 351(P), 352, 353(P), 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362(P), 389(P), 390(P), 391, 392, 393, 394, 395, 396(P), 397(P), 398(P), 399(P), 438(P), 439, 440(P), 443(P), 444(P), 446(P), 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494(P), 496(P), 497(P), 498(P), 537(P), 538(P), 539, 541(P), 542(P), 543(P), 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604(P), 605(P), 606(P), 743, 751, 755.

#### Boundary Description:—

- A-B Line starts from common boundary of plot number 123 of Mohanpur Mouza, J.L. No. 65 and plot number 604 of Pahargora Mouza, J.L. No. 64 and crosses through plot number 604, 605, 606, 446, 444, 443, 353, 440, 438, 433, 396, 397, 398, 390 and meets at point B in plot number 362.
- B-C: Line starts from plot number 362 of Pahargora Mouza, J.L. No. 64 and crosses through plot number 350 of Pahargora Mouza, J.L. No. 64 and meets at point C in plot number 351 of Pahargora Mouza, J.L. No. 64.
- C-D: Line starts from plot number 351 of Pahargora Mouza, J.L. No. 64 and passes through plot number 253 (Kacha Road), 254, 251, 249 (Abandoned Railway Line), 248, 497 of Pahargora Mouza, J.L. No. 64 and meets at Point D in north of plot number 497 of Pahargora Mouza, J.L. No. 64.
- D-E: Line starts from plot number 497 of Pahargora Mouza, J.L. No. 64 and meets at Point E in plot number 498 of Pahargora Mouza, J.L. No. 64.
- E-F: Line starts from plot number 498 of Pahargora Mouza, J.L. No. 64 and meets at point F in North of plot number 496 (Pond) of Pahargora Mouza, J.L. No. 64.
- F-G: Line starts from plot number 496 of Pahargora Mouza, J.L. No. 64 and passes through North-West of plot number 494, 538, 537 of Pahargora Mouza, J.L. No. 64 then touching South boundary of plot number 540 of Pahargora



- Mouza, J.L. No. 64 and passes through plot number 541 of Pahargora Mouza, J.L. No. 64 and meets at Point G in plot number 542 of Pahargora Mouza, J.L. No. 64.
- G-H: Line starts from plot number 542 of Pahargora Mouza, J.L. No. 64 and passes through plot number 543 and meets at point H in North-East of plot number 494 of Pahargora Mouza, J.L. No. 64.
- H-I: Line starts and passes through North-East of plot number 494 of Pahargora Mouza, J.L. No. 64 and meets at Point I on common boundary between plot number 494 of Pahargora Mouza, J.L. No. 64 and plot number 8 of Mohanpur Mouza, J.L. No. 65.
- I-J: Line starts and passes through common boundary between plot number 494 of Pahargora Mouza, J.L. No. 64 and plot number 8, 9, 10 of Mohanpur Mouza, J.L. No. 65 and meets at Point J.
- J-K: Line starts and passes through common boundary between plot number 494 of Pahargora Mouza, J.L. No. 64 and plot number 113 of Mohanpur Mouza, J.L. No. 65 and meets at point K.
- K-L: Line starts and passes through common boundary of plot number 494 of Pahargora Mouza, J.L. No. 64 and plot number 113 and 114 of Mohanpur Mouza, J.L. No. 65 and meets at point L.
- L-M: Line starts from common boundary between East-North of plot number 493 (Abandoned Railway Line) and plot number 112 of Mohanpur Mouza, J.L. No. 65 and passes through common boundary of plot number 493 of Pahargora Mouza, J.L. No. 64 and plot number 112 of Mohanpur Mouza, J.L. No. 65 and meets at point M.
- M-N: Line starts from common boundary between South-East of plot number 493 of Pahargora Mouza, J.L. No. 64 and South-West of plot number 112 of Mohanpur Mouza, J.L. No. 65 and passes through common boundary between plot number 580, 582 of Pahargora Mouza, J.L. No. 64 and plot number 119 of Mohanpur Mouza, J.L. No. 65 and meets at point N.
- N-O: Line starts and passes through common boundary between plot number 581 of Pahargora Mouza, J.L. No. 64 and plot number 119 of Mohanpur Mouza, J.L. No. 65 and meets at point O.
- O-P: Line starts and passes through common boundary between plot number 581 of Pahargora Mouza, J.L. No. 64 and plot number 119 of Mohanpur Mouza, J.L. No. 65 and meets at point P.
- P-Q: Line starts and passes through common boundary between plot number 603 of Pahargora Mouza, J.L. No. 64 and 119 of Mohanpur Mouza, J.L. No. 65 and meets at point Q.
- Q-A: Line starts and passes through common boundary between plot number 603 of Pahargora Mouza, J.L. No. 64 and plot number 121 of Mohanpur Mouza, J.L. No. 65 and meets at starting point A on common boundary between plot number 604 of Pahargora Mouza, J.L. No. 64 and plot number 123 of Mohanpur Mouza, J.L. No. 65.

[F.No. 43015/28/2008/ PRIW-I]

A.K. DAS, Under Secy.

नई दिल्ली, 29 जून, 2012

**का.आ. 2268.**—केन्द्रीय सरकार ने कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 की उप-धारा (1) के अधीन जारी और भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii), तारीख 5 मार्च, 2011 में प्रकाशित भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 675, तारीख 23 फरवरी, 2011, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र की भूमि और उस पर के सभी अधिकारों का अर्जन करने के अपने आशय की सूचना दी थी ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 8 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

और केन्द्रीय सरकार का, पूर्वोक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और झारखण्ड सरकार से परामर्श करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची में यथावर्णित 423.07 हेक्टेयर (लगभग) या 1045.00 एकड़ (लगभग) माप और उसमें सभी अधिकारों का अर्जन किया जाना चाहिए ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करती है कि अनुसूची में यथावर्णित 423.07 हेक्टेयर (लगभग) या 1045.00 एकड़ (लगभग) माप वाली भूमि और उस पर के सभी अधिकार अर्जित किए जाते हैं ।

इस अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र के रेखांक संख्या राजस्व/05/2011, तारीख 15 नवम्बर, 2011 का निरीक्षण उपायुक्त, चतरा, झारखण्ड के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक, 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कोलकाता-700001 के कार्यालय में या मुख्य महाप्रबंधक, पिपरवार क्षेत्र, झारखण्ड या महाप्रबंधक (एल एण्ड आर), सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, दरभंगा हाउस, रांची या मुख्य महाप्रबंधक (गणवेणा) प्रभाग, सी.एम.पी.डी.आई., गोदवाना प्लेस, कांके रोड, रांची के कार्यालय में किया जा सकता है ।

**अनुसूची**  
**अशोक वेस्ट कोल माईनिंग ब्लॉक**  
**जिला-चतरा, झारखण्ड**

(रेखांक संख्यांक राजस्व/ 05/2011, तारीख 15 नवम्बर, 2011)

**सभी अधिकार :**

क्रम सं.	ग्राम का नाम	थाना संख्या	ग्राम/थाना संख्या	जिला	क्षेत्र (हेक्टर में)	क्षेत्र (एकड़ में)	टिप्पण
1.	सरैया	टंडवा	87/244	चतरा	40.69	100.50	भाग
2.	झुलुंदा	टंडवा	91/248	चतरा	95.14	235.00	भाग
3.	लुकुया	टंडवा	92/249	चतरा	203.44	502.50	भाग
4.	तोरहद	टंडवा	93/250	चतरा	70.34	173.75	भाग
5.	हेन्जदा	टंडवा	94/251	चतरा	13.46	33.25	भाग
<b>कुल क्षेत्र :</b>					<b>423.07</b>	<b>1045.00</b>	

ग्राम-सरैया में अर्जित किए जाने वाले प्लॉट संख्या-113 (भाग), 124 (भाग), 125, 126, 127, 128 (भाग), 129, 131 (भाग), 132 एवं 133.

ग्राम-लुकुआ में अर्जित किए जाने वाले प्लॉट संख्या-1 (भाग), 2, 3, 4, 5 (भाग), 6 से 12, 13 (भाग), 14 से 113 एवं 114 (भाग).

ग्राम-झुलुंदा में अर्जित किए जाने वाले प्लॉट संख्या-1 (भाग), 2 से 6, 7 (भाग), 8 (भाग), 43 (भाग), 44, 45, 46 (भाग), 49 (भाग), 50 (भाग), 51 (भाग), 52 (भाग), 53 (भाग), 54 से 60, 61 (भाग), 62 से 67, 68 (भाग), 69 से 73, 74 (भाग), 75 (भाग), 82 (भाग), 83 से 99, 100 (भाग), 101 (भाग) और 104.

ग्राम-हेन्जदा में अर्जित किए जाने वाले प्लॉट संख्या-1 (भाग), 2 से 12, 13 (भाग), 14 (भाग), 15 (भाग) एवं 28 (भाग), एवं 88 (भाग)

ग्राम-तोरहद में अर्जित किए जाने वाले प्लॉट संख्या-1 (भाग), 2 से 103, 104 (भाग), 105 (भाग), 106 (भाग), 107 (भाग), 108, 109, 110, 111 (भाग), 114 (भाग), 117 (भाग), 147 (भाग), 149 (भाग), 150 (भाग), 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158 (भाग) और 159.

**सीमा वर्णन:-**

- क-ख रेखा 'क' से आरम्भ होती है और ग्राम-सरैया के प्लॉट संख्या-124 और ग्राम लुकुआ के प्लॉट संख्या-1, 5, 13, 114 से गुजरती हुई बिन्दु 'ख' पर मिलती है।
- ख-ग रेखा ग्राम लुकुआ एवं चिरलुंगा, झुलुंदा एवं कोयलारा की सम्मिलित सीमा के साथ गुजरती हुई बिन्दु 'ग' पर मिलती है।
- ग-घ-ङ रेखा ग्राम झुलुंदा के प्लॉट संख्या-1, 8, 7, 53 से गुजरती हुई बिन्दु ङ पर मिलती है।
- ङ-च रेखा ग्राम झुलुंदा के प्लॉट संख्या-53, 52, 51, 50, 49, 46, 43, 61, 75, 74, 68, 82, 100, 101 एवं ग्राम हेन्जदा के प्लॉट संख्या-28, 1, 15, 14, 13, 88 से गुजरती है (जो पूर्वोक्त का.आ. 1501, तारीख 26 मई, 1990 द्वारा अशोक ब्लॉक की सम्मिलित सीमा का गठन करती है) और बिन्दु 'च' पर मिलती है।
- च-छ रेखा ग्राम ठेठांगी और सरैया (जो पूर्वोक्त का.आ. 1501, तारीख 26 मई, 1990) और ग्राम हेन्जदा के प्लॉट संख्या-88 और ग्राम तोरहद के प्लॉट संख्या-158, 147, 149, 150, 117, 114, 105, 104, 106, 107, 111, 117 एवं 01 ठेठांगी एवं सरैया सीमा से गुजरती हुई बिन्दु 'छ' पर मिलती है।

छ-क रेखा ग्राम सरैया के प्लॉट संख्या-128, 131, 113 और 124 से (जो पूर्वोक्त का.आ.- 1501, तारीख 26 मई, 1990 द्वारा अशोक ब्लॉक की सम्मिलित सीमा का निर्माण करती है) गुजरती हुई प्रारंभ बिन्दु 'क' पर मिलती है।

[फा. सं. 43015/21/2009-पीआरआईडब्ल्यू-1]

ए. के. दास, अवर सचिव

New Delhi, the 29th June, 2012

**S.O. 2268.**— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Coal number S.O. 675 dated the 23rd February, 2011 issued under sub-section (1) of Section 7 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) (hereinafter referred to as the said Act), and published in the Gazette of India Part-II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 5th March, 2011 the Central Government gave notice of its intention to acquire the lands and all rights in or over such lands specified in the Schedule appended to that notification ;

And whereas, the competent authority in pursuance of section 8 of the said Act. has made his report to the Central Government ;

And whereas, the Central Government after considering the report of aforesaid and after consulting the Government of Jharkhand is satisfied that the lands measuring 423.07 hectares (approximately) or 1045.00 acres (approximately) and all rights in or over such lands as described in Schedule appended hereto should be acquired ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 9, of the said Act, the Central Government hereby declares that the land measuring 423.07 hectares (approximately) or 1045.00 acres (approximately) and all rights in or over such lands as described in Schedule are hereby acquired.

The plan bearing number Rev /05/2011 dated the 15th November, 2011 of the areas covered by this notification can be inspected at the office of the Deputy Commissioner, Chatra, Jharkhand or at the office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Kolkata- 700 001, or at the office of the Chief General Manager, Pipparwar Area, Jharkhand or General Manager (L&R), Central Coalfields Limited, Darbhanga House, Ranchi or Chief General Manager (Exploration) Division, CMPDI, Gondwana Place, Kanke Road, Ranchi.

#### SCHEDULE

##### Ashok West Coal Mining Block District- Chatra, Jharkhand

(Plan bearing number Rev /05/2011 dated the 15th November, 2011)

#### All Rights :

Sl. No.	Name of Village	Thana number	Village/ Thana No.	District	Area in hectares	Area in acres	Remarks
1.	Saraiya	Tandwa	87/244	Chatra	40.69	100.50	Part
2.	Jhulunda	Tandwa	91/248	Chatra	95.14	235.00	Part
3.	Lukuia	Tandwa	92/249	Chatra	203.44	502.50	Part
4.	Torhad	Tandwa	93/250	Chatra	70.34	173.75	Part
5.	Henjada	Tandwa	94/251	Chatra	13.46	33.25	Part
<b>Total Area:</b>					<b>423.07</b>	<b>1045.00</b>	

Plot numbers to be acquired in village: Saraiya

113 (P), 124 (P), 125, 126, 127, 128 (P), 129, 131 (P), 132 and 133.

Plot numbers to be acquired in village: Lukuia

1 (P), 2, 3, 4, 5 (P), 6 to 12, 13 (P), 14 to 113 and 114 (P).

Plot numbers to be acquired in village: Jhulunda

1 (P), 2 to 6, 7 (P), 8 (P), 43 (P), 44, 45, 46 (P), 49 (P), 50 (P), 51 (P), 52 (P), 53 (P),

54 to 60, 61 (P), 62 to 67, 68 (P), 69 to 73, 74 (P), 75 (P), 82 (P), 83 to 99, 100 (p), 101 (P), and 104.

Plot numbers to be acquired in village: Henjada

1(P), 2 to 12, 13(P), 14(P), 15(P), 28(P) and 88(P)

Plot numbers to be acquired in village : Torhad

1 (P), 2 to 103, 104 (P), 105 (P), 106 (P), 107 (P), 108, 109, 110, 111 (P), 114(P), 117(P), 147 (P), 149 (P), 150 (P), 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158 (p), and 159.

**Boundary description:**

- A-B Line start from 'A' and passes through plot number 124 in village Saraiya and plot numbers 1, 5, 13, 114 in village Lukuia and meets at Point 'B'.
- B-C Line passes through common boundary of villages Lukuia and Chirlonga, Jhulunda and Koilara and meets at point 'C'.
- C-D-E Line passes through plot numbers 1, 8, 7, 53 in village Jhulunda at meets at point 'E'.
- E-F Line passes through plot numbers 53, 52, 51, 50, 49, 46, 43, 61, 75, 74, 68, 82, 100, 101, in village Jhulunda and plot numbers 28, 1, 15, 14, 13, 88 in village Henjada (which form part common boundary of Ashok Block u/s 9 (1) CBA (A&D) Act, 1957, vide number S.O. 1501 dated the 26th May, 1990) and meets at point 'F'.
- F-G Line passes through plot number 88 in village Henjada and plot numbers 158, 147, 149, 150, 117, 114, 105, 104, 106, 107, 111, 117, 01 in village Torhad common boundary of village Thathangi and Saraiya (which form part common boundary of Ashok Block u/s 9 (1) CBA (A&D) Act, 1957 vide number S.O. 1501 dated the 26th May, 1990) and meets at point 'G'.
- G-A Line passes through plot numbers 128, 131, 113 and 124 in village Saraiya (which form part common boundary of Ashok Block u/s 9 (1) CBA (A&D) Act, 1957 vide number S.O. 1501 dated 26h May, 1990 ) and meets at starting point 'A'.

[F.No. 43015/21/2009-PRIW-I]

A.K. DAS, Under Secy.

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 2012

**का.आ. 2269.**—केन्द्रीय सरकार ने कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 की उप-धारा (1) के अधीन भारत सरकार में कोयला मंत्रालय के द्वारा जारी की गई अधिसूचना संख्यांक का.आ. 946 तारीख 27 फरवरी, 2012 जो भारत के राजपत्र के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) तारीख 10 मार्च, 2012 में प्रकाशित की गई थी, उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र की भूमि में जिसका माप 42.55 एकड़ (लगभग) या 17.22 हेक्टेयर (लगभग) है, कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना दी थी ;

और केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि उक्त भूमि के भाग में कोयला अभिप्राप्त करना है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इससे संलग्न अनुसूची में वर्णित 42.55 एकड़ (लगभग) या 17.22 हेक्टेयर (लगभग) माप की उक्त भूमि का अर्जन करने की अपने आशय की सूचना देती है।

**टिप्पण 1** :—इस अधिसूचना के अधीन आने वाले क्षेत्र के रेखांक संख्यांक जीएम/एचए/बलराम एक्सपेंशन/2012/25 तारीख 31 मार्च, 2012 का निरीक्षण उपायुक्त, जिला कलक्टर और जिला मजिस्ट्रेट, अंगुल (ओडिसा) के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक, 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कोलकाता के कार्यालय में या का निरीक्षण महाप्रबंधक (एल/आर एण्ड आर), महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, डाकघर-जागृति बिहार, बुर्ला, जिला-संबलपुर (ओडिसा) के कार्यालय में किया जा सकता है।

**टिप्पण 2** :—उक्त अधिनियम की धारा 8 के उपबंधों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिसमें निम्नलिखित उपबंध हैं :—

**अर्जन के बाबत आपत्तियां :**

“8(1) कोई भी व्यक्ति जो किसी भूमि में जिसकी बाबत धारा 7 के अधीन अधिसूचना निकाली गई है, हितबद्ध है, अधिसूचना के निकाले जाने से तीस दिन के भीतर सम्पूर्ण भूमि या उसके किसी भाग या ऐसी भूमि में या उस पर के किन्हीं अधिकारों का अर्जन किए जाने के बारे में आपत्ति कर सकेगा।

**स्पष्टीकरण :-**

1. इस धारा के अन्तर्गत यह आपत्ति नहीं मानी जाएगी, कि कोई व्यक्ति किसी भूमि में कोयला उत्पादन के लिए स्वयं खनन सक्रियाएं करना चाहता है और ऐसी सक्रियाएं केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए।

2. उप-धारा (1) के अधीन प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी को लिखित रूप में की जाएगी और सक्षम प्राधिकारी आपत्तिकर्ता को स्वयं सुने जाने, विधि व्यवसायी द्वारा सुनवाई का अबसर देगा और ऐसी सभी आपत्तियों को सुनने के पश्चात् और ऐसी अतिरिक्त जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात् जो वह आवश्यक समझता है, वह या तो धारा 7 की उप-धारा (1) के अधीन अधिसूचित भूमि का या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों के संबंध में एक रिपोर्ट या ऐसी भूमि के विभिन्न टुकड़े या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों के संबंध में आपत्तियों पर अपनी सिफारिशों और उसके द्वारा की गई कार्यवाही के अभिलेख सहित विभिन्न रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को उसके विनिश्चय के लिए देगा।

3. इस धारा के प्रयोजनों के लिए, वह व्यक्ति किसी भूमि में हितबद्ध समझा जाएगा जो प्रतिकर में हित का दावा करने का हकदार होगा, यदि भूमि या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकार इस अधिनियम के अधीन अर्जित कर लिए जाते हैं।”

**टिप्पण 3 :** केन्द्रीय सरकार ने, कोयला नियंत्रक, 1, काउंसिल हाऊस स्ट्रीट, कोलकाता-700 001 को उक्त अधिनियम के अधीन अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2015, तारीख 10 जुलाई, 1995 द्वारा सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया है।

**अनुसूची****महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड****कलिंगा वेस्ट जीओलोजिकल ब्लॉक आफ तालचर कोलफील्ड्स****कोल माइनिंग ब्लॉक****बलराम एक्सप्लोरेशन ओ.सी.पी****जिला-अनुगुल (ओडिशा)**

(रेखांक संख्यांक जीएम/एचए/बलराम एक्सप्लोरेशन/2012/25 तारीख 31 मार्च, 2012)

(सभी अधिकार)

**भूमि का वर्गीकरण  
(एकड़ में)**

क्रम सं	ब्लाक का नाम	ग्राम संख्या	ग्राम संख्या	थाना संख्या	थाना संख्या	तहसील	जिला	राज्य	सरकारी गैर-वन	वन	काश्त-कारी	भूमि का वर्गीकरण (एकड़ में)	टिप्पण
1	ब्लाक-क								0.36	0.00	27.65	28.01	भाग
2	ब्लाक-ख								0.78	0.00	0.00	0.78	भाग
		बिरबरपुर	290	कोलियरी	4	तालचर	अनुगुल	ओडिशा					
3	ब्लाक-ग								06.11	4.60	0.00	10.71	भाग
4	ब्लाक-घ								03.05	0.00	0.00	3.05	भाग
<b>जोड़</b>									<b>10.30</b>	<b>4.60</b>	<b>27.65</b>	<b>42.55</b>	

**जोड़ : 42.55 एकड़ (लगभग) या 17.22 हेक्टेयर (लगभग)**

**ग्राम बिरबरपुर के अधिसूचित किए जाने वाले प्लॉट :**

**ब्लाक-क :-** 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 20/136, 24/137, 126/138, 28/139, 30/140, 125/141, 77/143, 78/144, 127/145, 27/146, 5/148, 5/149, 78/150, 78/151, 78/152, 78/153, 92/161, 64/164, 10/165, 1/166, 67/167, 72/170, 108/181,

**ब्लाक-ख :-** 33 (भा), 32/134, 33/160 (भा).

**ब्लाक-ग :-** 111/154, 111/155, 111/156, 111/157 (भा), 111/158 (भा), 111/159 (भा).

**ब्लाक-घ :-** 114/133 (भा).

**सीमा वर्णन:-**

**ब्लाक-क :**

**क-ख-ग:** रेखा बिंदु 'क' से आरम्भ होती है जो ग्राम खुरिंगा सोलडा और बिरबापुर की त्रिजंक्शन बिन्दु है, फिर ग्राम सोलडा की सम्मिलित ग्राम सीमा से गुजरती है और बिन्दु "ख" पर मिलती है, फिर ग्राम सोलाडा और बिरबापुर की भागत: सम्मिलित ग्राम सीमा से गुजरती है और बिन्दु "ग" पर मिलती है।

**ग-घ:** रेखा प्लाट संख्याक 131, 130, 116, की दक्षिणी सीमा, प्लाट संख्या 107 की भागत: उत्तरी और पूर्वी सीमा प्लाट संख्या 181 की पूर्वी और उत्तरी और भागत: पश्चिमी सीमा प्लाट संख्या 187 की पश्चिमी सीमा, प्लाट संख्या 106 की भागत: उत्तरी सीमा, प्लाट संख्या 82 की उत्तरी सीमा, प्लाट संख्या 62 की पूर्वी और उत्तरी सीमा, फिर प्लाट संख्या 63, 18, 19, 29, 140, 30, और 31 की उत्तरी सीमा से गुजरती है और बिन्दु "घ" पर मिलती है।

**घ-क:** फिर ग्राम खुरिंगा और बिरबापुर की भागत: सम्मिलित ग्राम सीमा से गुजरती है और आरम्भिक बिन्दु "क" पर मिलती है।

**ब्लाक-ख :**

**ड-च-छ-ड:** रेखा बिंदु 'ड.' से आरम्भ होती है फिर प्लाट संख्या 136 की उत्तरी सीमा से गुजरती है और बिन्दु "च" पर मिलती है। फिर प्लाट संख्या 33, 160 से गुजरती हुई "छ" बिन्दु पर मिलती है फिर प्लाट संख्या 160 और 134 की पश्चिमी सीमा से गुजरती हुई आरम्भ बिन्दु "ड." पर मिलती है।

**ब्लाक-ग :**

**ज-झ-ज-ट-ज:** रेखा बिंदु 'ज' से आरम्भ होती है फिर प्लाट संख्या 154 की उत्तरी सीमा से गुजरती हुई प्लाट संख्यांक 157, 158, 159 से गुजरती है और बिन्दु 'झ' पर मिलती है। फिर प्लाट संख्यांक 159 की पूर्वी सीमा से गुजरती हुई बिन्दु 'ज' पर मिलती है। फिर ग्राम मझिका और कलम्बुईन की भागत: ग्राम सीमा से गुजरती है और बिन्दु "ट" पर मिलती है। फिर प्लाट संख्यांक 156, 155, 154 की पश्चिमी सीमा से होती हुई आरम्भिक बिन्दु "ज" पर मिलती है।

**ब्लाक-घ :**

**ठ-ड-ढ-ण-ठ:** रेखा बिंदु 'ठ' से आरम्भ होती है फिर प्लाट संख्यांक 114 की पूर्वी सीमा से गुजरती है, फिर प्लाट संख्या 133 की उत्तरी सीमा से गुजरती है और बिन्दु 'ड' पर मिलती है, फिर प्लाट संख्या 133 की पूर्वी सीमा से गुजरती है और बिन्दु 'ढ' पर मिलती है, फिर प्लाट संख्या 133 की दक्षिणी सीमा से गुजरती है और बिन्दु 'ण' पर मिलती है, फिर प्लाट संख्यांक 133 और 114 की पश्चिमी सीमा से गुजरती है फिर आरम्भिक बिन्दु "ठ" पर मिलती है।

[फा. सं. 43015/15/2011-पीआरआईडब्ल्यू-1]

ए. के. दास, अवर सचिव

New Delhi, the 4th July, 2012

**S.O. 2269.**—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Coal number S.O. 946 dated 27th February, 2012 under Sub-Section (1) of Section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) (hereinafter referred to as the said Act) and published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 10th March, 2012 the Central Government gave notice of its intention to prospect for coal in 42.55 acres (approximately) or 17.22 hectares (approximately) of the lands in the locality specified in the schedule annexed to that notification;

And whereas the Central Government is satisfied that coal is obtainable in a part of the said land.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 7 of the said Act, the Central Government hereby gives notice of its intention to acquire the land measuring 42.55 acres (approximately) or 17.22 hectares (approximately) in all rights as described in the schedule appended hereto.

**Note 1 :** The plan bearing number GM/HA/Balaram Expansion/2012/25 dated 31st March, 2012 of the area covered by this notification may be inspected at the office of the Collector, Angul (Odisha) or at the office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Kolkata, or at the office of the General Manager (I/R&R) Mahanadi Coalfields Limited, P. O. Jagriti Vihar Burla, District-Sambalpur (Odisha).

**Note 2 :** Attention is hereby invited to the provisions of Section 8 of the said Act which provides as follows:—

**Objection to Acquisition:**

“8 (1) Any person interested in land in respect of which a notification under Section 7 has been issued, may, within thirty days of the issue of the notification, object to the acquisition of the whole or any part of the land or any rights in or over such land.

**Explanation :—**

(1) It shall not be an objection within the meaning of this section for any person to say that he himself desires to undertake mining operation in the land for the production of coal and that such operation should not be undertaken by the Central Government or by any other person.

(2) Every objection under sub-section (1) shall be made to the competent authority in writing, and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard either in person or by a legal practitioner and shall, after hearing all such objections and after making such further inquiry, if any, as he thinks necessary, either makes a report in respect of the land which has been notified under sub-section (1) of Section 7 or of rights in or over such land, or make different reports in respect of different parcels of such land or of rights in or over such land, to the Central Government, containing his recommendations on the objections, together with the record of the proceedings held by him, for the decision of that Government.

(3) For the purpose of this section, a person shall be deemed to be interested in land who would be entitled to claim an interest in compensation if the land or any rights in or over such land were acquired under this Act.”

**Note 3:** The Coal Controller, 1, Council House Street, Kolkata - 700001 has been appointed by the Central Government as the Competent Authority under the Act, vide notification number S.O. 2015, dated the 10th July, 1995.

**SCHEDULE**

**Mahanadi Coalfields Limited**

**Kalinga West Geological Blocks of Talcher Coalfields**

**Coal Mining Block, Talcher,**

**Balaram Expansion OCP**

**District - Angul (Odisha)**

(Plan bearing number GM/HA/Balaram Expansion/2012/25 dated 31st March, 2012)

**(All Rights) :**

Sl. No.	Name of Block	Village No.	Police Station	Thana No.	Tahasil	District	State	Govt. Non - Forest	Classification of Lands in Acres			Remarks
									Forest	Tenancy	Total Area (Ac.)	
1	Block-A							0.36	0.00	27.65	28.01	Part
2	Block-B							0.78	0.00	0.00	0.78	Part
		Birabarpur	290 Colliery	4	Talcher	Angul	Odisha					
3	Block-C							06.11	4.60	0.00	10.71	Part
4	Block-D							03.05	0.00	0.00	3.05	Part
<b>Total</b>								<b>10.30</b>	<b>4.60</b>	<b>27.65</b>	<b>42.55</b>	

**Total: 42.55 acres (approximately) or 17.22 hectares (approximately).**

**Plots to be notified under Village Birabarpur :**

Block-"A":-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,20/136,24/137,126/138,28/139,30/140,125/141,77/143,78/144,127/145,27/146,5/148,5/149,78/150,78/151,78/152,78/153,92/161,64/164,10/165,1/166,67/167,72/170,108/181.

Block - "B":—33(P), 32/134, 33/160 (P).

Block - "C":—111/154, 111/155, 111/156, 111/157 (P), 111/158 (P), 111/159 (P).

Block - "D":—114, 133 (P).

**Boundary Description:****BLOCK "A":**

- A-B-C Line start at point "A" which is the trijunction point of village Khuringa, Solada and Birabarpur, then passes over the common village boundary of village Salada meets at point "B", then passes over part common village boundary village Solada and Birabarpur meet at point "C".
- C-D:- Line passes over the southern boundary of plot no.131, 130, 116, part northern & eastern boundary of 107, eastern and northern and part western 181, western boundary of plot No. 187, part northern boundary of plot No. 106, northern boundary of plot No. 82, eastern and southern of plot no.62, then northern boundary of plot no.63, 18, 19, 29, 140, 30 and 31 meets at Point "O".
- D-A: Then passes over the part common village boundary of village Khuringa and Birabarpur meets at the starting point "A".

**BLOCK-B:**

- E - F - G - E:- Line starts from point 'E' then passes over the northern boundary of plot 136 meets at point 'F'. Then passes through plot no.33, 160 and meet at point 'G'. Then passes over the western boundary of plot No. 160 and 134 meets at starting point "E"

**BLOCK-C:**

- H - I - J - K - H:- Line start at point 'H'. Then passes over the northern boundary of plot no.154, passes through plot no-157, 158,159 meet at point 'I' then passes over the part eastern boundary of plot no-159 meet at point 'J'. Then passes over the part common village boundary of village Majhika and Kalamachhuin meet at point 'K'. Then passes over the western boundary of plot no.156,155 and 154 meets at starting point 'H'.

**BLOCK-D:**

- L - M - N - O - L Line starts from point 'L', then passes over the eastern boundary of plot no.114, then passes over the northern boundary of plot no.133 meets at point 'M', then passes over the eastern boundary of plot no.133 meets at point 'N' then passes over the part southern boundary of plot no.133 and meet at point 'O', then the line over western boundary of plot no. 133 and plot No. 114 starting Point 'L'.

[F.No.43015/15/2011-PRIW-1]

A. K. DAS, Under Secy.

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय**

नई दिल्ली, 22 जून, 2012

का.आ. 2270.—केन्द्रीय सरकार राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उप नियम (4) के अनुसरण में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निम्नलिखित कार्यालयों को, जिनके 80 या अधिक प्रतिशत कर्मचारीवृन्द ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, को अधिसूचित करती है:—

**भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि.**

1. प्रादेशिक एवं परिचालन कार्यालय (रिटेल) जम्मू,  
भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि.  
नजदीक रेलवे लोको शेड,  
जम्मू तवी- 180004  
(जम्मू और कश्मीर)



**इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड**

2. इंडियन आयल कार्पोरेशन लि. (विपणन प्रभाग)  
 इंडेन बॉटलिंग संयंत्र  
 फयांग, 15 किमी माइलस्टोन,  
 लेह (जम्मू और कश्मीर) - 194101

[सं. 11011/1/2012(हिंदी)]

डी. एस. रावत, संयुक्त निदेशक (रा.भा.)

**MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**

New Delhi, the 22nd June, 2012

**S.O. 2270.**—In pursuance of Sub-Rule (4) of Rule 10 of the Official Language (use for official purposes of the Union) Rules, 1976 the Central Government hereby notifies the following offices of the Public Sector Undertakings under the administrative control of the Ministry of Petroleum and Natural Gas, in which 80 or more per cent of the staff have acquired working knowledge of Hindi :—

**Bharat Petroleum Corporation Limited**

1. Regional & Operational Office (Retail), Jammu  
 Bharat Petroleum Corporation Limited  
 Near Railway Loco Shed  
 Jammu Tawi & 180004  
 (Jammu & Kashmir)

**Indian Oil Corporation Limited**

2. Indian Oil Corporation Limited (Marketing Division)  
 Indane Bottling Plant  
 Phyang, 15 KM Milestone  
 Leh, (Jammu & Kashmir) - 194101

[No. 11011/1/2012(Hindi)]

D. S. RAWAT, Jt. Director (OL)

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 2012

**का.आ. 2271.**—केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 2 के खंड (क) के अनुसरण में उक्त अधिनियम के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के भीतर गेल (इण्डिया) लिमिटेड की विजयपुर-कोटा और स्पर, दहेज- विजयपुर और स्पर, विजयपुर - दादरी और स्पर, एच बी जे और स्पर, ग्रेप और स्पर पाइपलाईनों के लिये सक्षम अधिकारी के कार्यों का निर्वहन करने के लिये श्रीमती मीनाक्षी सिंह, संयुक्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश शासन को प्राधिकृत करती है।

[फा. सं. एल 14014/40/12-जी.पी.]

ए. गोस्वामी, अवर सचिव

New Delhi, the 2nd July, 2012

**S.O. 2271.**—In pursuance of clause (a) of Section 2 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), Central Government hereby authorizes Shrimati Meenakshi Singh, Joint Collector, Madhya Pradesh Shasan to perform the functions of Competent Authority for Vijaipur - Kota & spurs, Dahej-Vijaipur & spur, Vijaipur-Dadri & Spurs, HVJ & Spurs, GREP & Spurs pipelines of GAIL (India) Limited, under the said Act, within the Territory of Madhya Pradesh State.

[F.No. L-14014/40/2012-GP.]

A. GOSWAMI, Under Secy.

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 2012

का.आ.2272.—केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि पश्चिम बंगाल राज्य में पारादीप(उड़ीसा) से दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल) तक वाया हल्दिया एलपीजी गैस परिवहन के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा एक पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए;

और केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसी भूमि में जो इस से उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है और जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन्स (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको इस अधिसूचना से युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, इक्कीस दिन के भीतर भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के लिए उसमें उपयोग के अधिकार के अर्जन के सम्बन्ध में श्री एस.सी. सरकार, डब्ल्यू. बी. सी. एस. (प्रशासनिक) सेवानिवृत्त सक्षम प्राधिकारी, पारादीप – हल्दिया – दुर्गापुर एलपीजी पाइपलाइन एवम् पारादीप – हल्दिया – बरौनी पाइपलाइन ऑगमेंटेशन योजना, डाकघर दुईल्या, आन्दुल-मौरी, मौरीग्राम हावड़ा-711 302 (पश्चिम बंगाल) को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

## अनुसूची

पुलिस स्टेशन : बागनान - II		जिला : हावड़ा	राज्य : पश्चिम बंगाल		
क्रम सं.	मौजा का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मी.
1	2	3	4	5	6
1	मतिनाला - 24	184	00	04	90
		185(सरकारी भूमि)	00	01	20
		191	00	06	20
		188	00	00	20
		189	00	00	70
		187(सरकारी भूमि)	00	00	20
		190	00	00	50
		211(सरकारी बांध)	00	14	50
		282	00	00	80
		281	00	02	20
		305	00	03	20
		306	00	06	30
		350	00	00	50

1	2	3	4	5	6
	मतिनाला — 24	307	00	00	20
	जारी....	349	00	03	60
		348	00	05	60
		347	00	03	70
		364	00	03	00
		366	00	09	50
		380	00	00	90
		369	00	00	20
		379	00	02	60
		377	00	01	50
		376	00	00	20
		373	00	00	70
		375	00	02	10
		372	00	00	20
		374	00	01	60
		387	00	00	20
		437	00	00	20
		436	00	03	90
		435	00	02	60
		434	00	00	40
		428	00	01	20
		429	00	07	00
		414	00	07	90
		413	00	02	40
		412	00	00	90
		411	00	00	20
		401(सरकारी रास्ता)	00	00	90
2	ब्राह्मन दुकुरिया — 35	316	00	01	50
		318	00	00	20
		320	00	05	00
		321	00	02	90
		322	00	02	90
		323	00	06	30
		326	00	05	10
		328	00	04	90
		329	00	03	40
		330	00	05	30
		383	00	01	50
		384	00	06	00

1	2	3	4	5	6
	ब्राह्मन दुकुरिया - 35	385	00	05	50
	जारी.....	386	00	02	50
		379	00	00	20
	506(सरकारी भूमि)	00	00	00	50
	507	00	01	00	90
	508	00	04	00	30
	494	00	00	00	40
	509	00	06	00	00
	511	00	03	00	60
	512	00	03	00	90
	520	00	00	00	90
	519	00	01	00	50
	521	00	00	00	20
	518	00	02	00	70
	517	00	00	00	20
	161	00	01	00	20
	159	00	00	00	20
	283	00	05	00	20
	287	00	02	00	40
	288	00	02	00	00
	289	00	01	00	10
	290	00	01	00	00
	292	00	02	00	10
	280	00	00	00	40
	581	00	03	00	70
	582	00	03	00	80
	603	00	01	00	40
	599	00	03	00	90
	598	00	00	00	20
	600	00	00	00	20
	597	00	03	00	10
	596(सरकारी भूमि)	00	01	00	60
	594	00	01	00	90
	689(सरकारी रास्ता)	00	00	00	50
	716	00	02	00	20
	712	00	03	00	20
	713	00	02	00	10
	714	00	04	00	20
	715	00	01	00	10

[फा. सं. आर. 2501/11/2012 ओ. आर. 1]

लाल चन्दमा, अवध सचिव

New Delhi, the 4th July, 2012

**S.O. 2272.**—Whereas, it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of Liquefied Petroleum Gas from Paradip (Odisha) to Durgapur (West Bengal) Via Haldia a pipeline should be laid in State of West Bengal by Indian Oil Corporation Limited.

And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person interested in the land described in the said schedule may, within twenty one days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the right of user therein for laying of the pipeline under the land to Shri S.C.Sarkar, W.B.C.S (Exe.)Retd.Competent Authority Paradip – Haldia –Durgapur -LPG Pipeline & Augmentation of Paradip – Haldia –Barauni Pipeline Project, P.O,Duillya, Andul - Mouri, Mourigram,Howrah, 711-302 (West Bengal)

**SCHEDULE**

SCHEDULE					
P S: BAGNAN - II		DISTRICT : HOWRAH		STATE : WEST BENGAL	
Sl. No.	Name of the Mouza	Khasra No.	Area		
			Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5	6
1	MATINALA - 24	184	00	04	90
		185(Govt. Land)	00	01	20
		191	00	06	20
		188	00	00	20
		189	00	00	70
		187(Govt. Land)	00	00	20
		190	00	00	50
		211(Govt. Embakment)	00	14	50
		282	00	00	80
		281	00	02	20

1	2	3	4	5	6
	MATINALA - 24	305	00	03	20
	Contd.....	306	00	06	30
		350	00	00	50
		307	00	00	20
		349	00	03	60
		348	00	05	60
		347	00	03	70
		364	00	03	00
		366	00	09	50
		380	00	00	90
		369	00	00	20
		379	00	02	60
		377	00	01	50
		376	00	00	20
		373	00	00	70
		375	00	02	10
		372	00	00	20
		374	00	01	60
		387	00	00	20
		437	00	00	20
		436	00	03	90
		435	00	02	60
		434	00	00	40
		428	00	01	20
		429	00	07	00
		414	00	07	90
		413	00	02	40
		412	00	00	90
		411	00	00	20
		401(Govt. Road)	00	00	90
2	BRAHMAN DUKURIA - 35	316	00	01	50
		318	00	00	20
		320	00	05	00
		321	00	02	90
		322	00	02	90
		323	00	06	30
		326	00	05	10
		328	00	04	90
		329	00	03	40
		330	00	05	30

1	2	3	4	5	6
	BRAHMAN DUKURIA - 35	383	00	01	50
	Contd.....	384	00	06	00
		385	00	05	50
		386	00	02	50
		379	00	00	20
	506(Govt. Land)	00	00	00	50
	507	00	01	01	90
	508	00	04	04	30
	494	00	00	00	40
	509	00	06	06	00
	511	00	03	03	60
	512	00	03	03	90
	520	00	00	00	90
	519	00	01	01	50
	521	00	00	00	20
	518	00	02	02	70
	517	00	00	00	20
	161	00	01	01	20
	159	00	00	00	20
	283	00	05	05	20
	287	00	02	02	40
	288	00	02	02	00
	289	00	01	01	10
	290	00	01	01	00
	292	00	02	02	10
	280	00	00	00	40
	581	00	03	03	70
	582	00	03	03	80
	603	00	01	01	40
	599	00	03	03	90
	598	00	00	00	20
	600	00	00	00	20
	597	00	03	03	10
	596(Govt. Land)	00	01	01	60
	594	00	01	01	90
	689(Govt. Road)	00	00	00	50
	716	00	02	02	20

1	2	3	4	5	6
	<b>BRAHMANDUKURIA-35</b>	712	00	<del>03</del>	20
	Contal...	713	00	02	10
		714	00	04	20
		715	00	01	10

[F.No. R-25011/11/2012-OR-I]

LAL CHHANDAMA, Under Secy.

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 2012

का.आ.2273.—केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि पश्चिम बंगाल राज्य में पारादीप(उड़ीसा) से दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल) तक वाया हल्दिया एलपीजी गैस परिवहन के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा एक पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए;

और केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसी भूमि में जो इस से उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है और जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन्स (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको इस अधिसूचना से युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, इक्कीस दिन के भीतर भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के लिए उसमें उपयोग के अधिकार के अर्जन के सम्बन्ध में श्री एस.सी. सरकार, डब्ल्यू. बी. सी. एस. (प्रशासनिक) सेवानिवृत्त सक्षम प्राधिकारी, पारादीप — हल्दिया — दुर्गापुर एलपीजी पाइपलाइन एवम् पारादीप — हल्दिया — बरौनी पाइपलाइन ऑगमेंटेशन योजना, डाकघर दुईल्या, आन्दुल-मौरी, मौरीग्राम हावड़ा-711 302 (पश्चिम बंगाल) को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।



## अनुसूची

पुलिस स्टेशन : पॉचला		जिला : हावड़ा	राज्य : पश्चिम बंगाल		
क्रम सं.	मौजा का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मी.
1	2	3	4	5	6
1 पश्चिम पॉचला — 22		1634	00	00	90
		1635	00	00	50
		1638	00	03	50
		1640	00	00	60
		1641	00	00	60
		1643	00	01	00
		1644	00	01	20
		1654 / 2048	00	00	70
		1647	00	01	20
		1653	00	04	60
		1648	00	00	20
		1651	00	04	00
		1652	00	00	70
	2 बेलकुलाइ — 31	16	00	02	90
		17	00	11	20
		18	00	02	50
		22	00	03	20
		23	00	03	10
		24	00	03	30
		26	00	02	50
		27	00	01	50
		57	00	03	80
		56	00	04	80
		55	00	06	60
		44	00	00	30
		45	00	04	10
		46	00	05	50
		47	00	00	40
		48	00	05	20
		402	00	03	20

1	2	3	4	5	6
	बेलकुलाइ — 31	403	00	00	80
	जारी.....	412	00	03	30
		413	00	02	60
		552	00	05	10
		553	00	02	80
3	सातघरिया — 27	603	00	00	20
		604	00	04	10
		608	00	01	10
		542	00	03	80
		543	00	00	50
		609	00	03	80
		546	00	00	90
		560	00	01	20
		552	00	00	40
		553	00	04	00
		559	00	05	80
		558	00	01	20
		454	00	00	20
		555	00	01	40
		556	00	03	20
		557	00	00	60
		510	00	02	30
		509	00	00	70
		575	00	02	40
		508	00	04	20
		507	00	01	40
		394	00	04	60
		395	00	05	50
		396	00	01	00
		397	00	00	60
		401	00	00	20
		394	00	04	60
		606	00	00	70
		547	00	00	20
		377	00	00	20

1	2	3	4	5	6
	सातघरिया — 27	554	00	00	20
	जारी.....	381	00	00	80
		382	00	02	20
		383	00	04	00
4	पानियारा — 28	512	00	07	50
		499	00	07	40
		493	00	03	50
		491	00	03	60
		490	00	03	70

[ फा. सं. अर. 25011 12 2012 आ. अर. 1 ]

लाल बन्धु, अवर सचिव

New Delhi, the 4th July, 2012

**S.O. 2273.—Whereas, it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of Liquefied Petroleum Gas from Paradip (Odisha) to Durgapur (West Bengal) Via Haldia a pipeline should be laid in State of West Bengal by Indian Oil Corporation Limited.**

And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person interested in the land described in the said schedule may, within twenty one days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the right of user therein for laying of the pipeline under the land to Shri S.C.Sarkar, W.B.C.S (Exe.)Retd.Competent Authority Paradip — Haldia —Durgapur LPG Pipeline & Augmentation of Paradip — Haldia —Barauni Pipeline Project, P.O,Duillya, Andul - Mouri, Mourigram,Howrah, 711-302 (West Bengal)

## SCHEDULE

P. S : PANCHALA DISTRICT : HOWRAH STATE : WEST BENGAL					
Sl. No.	Name of the Mouza	Khasra No.	Area		
			Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5	6
1	PASCHIM PANCHLA - 22	1634	00	00	90
		1635	00	00	50
		1638	00	03	50
		1640	00	00	60
		1641	00	00	60
		1643	00	01	00
		1644	00	01	20
		1654/2048	00	00	70
		1647	00	01	20
		1653	00	04	30
		1648	00	00	20
		1651	00	04	00
		1652	00	00	70
2	BELKULAI - 31	16	00	02	90
		17	00	11	20
		18	00	02	50
		22	00	03	20
		23	00	03	10
		24	00	03	30
		26	00	02	50
		27	00	01	50
		57	00	03	80
		56	00	04	80
		55	00	06	60
		44	00	00	30
		45	00	04	10
		46	00	05	50
		47	00	00	40
		48	00	05	20
		402	00	03	20

1	2	3	4	5	6
	BELKULAI - 31	403	00	00	80
	Contd.....	412	00	03	30
		413	00	02	60
		552	00	05	10
		553	00	02	80
3	SATGHARIA - 27	603	00	00	20
		604	00	04	10
		608	00	01	10
		542	00	03	80
		543	00	00	50
		609	00	03	80
		546	00	00	90
		560	00	01	20
		552	00	00	40
		553	00	04	00
		559	00	05	80
		558	00	01	20
		454	00	00	20
		555	00	01	40
		556	00	03	20
		557	00	00	60
		510	00	02	30
		509	00	00	70
		575	00	02	40
		508	00	04	20
		507	00	01	40
		394	00	04	60
		395	00	05	50
		396	00	01	00
		397	00	00	60
		401	00	00	20
		394	00	04	60
		606	00	00	70
		547	00	00	20
		377	00	00	20

1	2	3	4	5	6
	SATGHARIA - 27	554	00	00	20
	Contd.....	381	00	00	80
		382	00	02	20
		383	00	04	00
4	PANIARA - 28	512	00	07	50
		499	00	07	40
		493	00	03	50
		491	00	03	60
		490	00	03	70

[E.No. R-35011/12/2012-OR-I]

LAL CHHANDAMA, Under Secy.

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 2012

का.आ.2274.—केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि पश्चिम बंगाल राज्य में पारादीप(उड़ीसा) से दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल) तक वाया हल्दिया एलपीजी गैस परिवहन के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा एक पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए;

और केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसी भूमि में जो इस से उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है और जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन्स (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको इस अधिसूचना से युक्त भारत. के राजपत्र की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, इक्कीस दिन के भीतर भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के लिए उसमें उपयोग के अधिकार के अर्जन के सम्बन्ध में श्री एस.सी. सरकार, डब्ल्यू. बी. सी. एस. (प्रशासनिक) सेवानिवृत्त सक्षम प्राधिकारी, पारादीप – हल्दिया – दुर्गापुर एलपीजी पाइपलाइन एवम् पारादीप – हल्दिया – बरौनी पाइपलाइन ऑगमेंटेशन योजना, डाकघर दुईल्या, आन्दुल-मौरी, मौरीग्राम हावड़ा-711 302 (पश्चिम बंगाल) को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

## अनुसूची

पुलिस स्टेशन : उलूबेड़िया - II जिला : हावड़ा राज्य : पश्चिम बंगाल					
क्रम सं.	मौजा का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मी.
1	2	3	4	5	6
1	महिषरेखा - 13	728	00	07	20
		730	00	01	90
		729	00	02	50
		731(ग्रा.पं. रास्ता)	00	00	40
		732	00	07	90
		733 / 888	00	02	10
		761	00	01	40
		760	00	00	90
		759	00	00	30
		764	00	07	70
		757	00	00	90
		765	00	02	30
		801	00	01	60
		798	00	03	90
		800	00	00	20
		799	00	03	50
		822	00	00	70
		821	00	02	90
		823	00	00	70
		824	00	02	70
		825	00	00	30
		794	00	02	20
		826	00	02	70
		827	00	00	30
		793	00	01	70
		830	00	02	20
		831	00	06	70
		893	00	00	80
		885	00	00	20
		833	00	01	90

1	2	3	4	5	6
	महिषरेखा — 13	834	00	02	20
	जारी.....	903(पी.डब्ल्यू.डी.)	00	00	50
		902(पी.डब्ल्यू.डी.)	00	02	00
		901(पी.डब्ल्यू.डी.)	00	02	40
		836	00	00	80
		837	00	04	20
		839	00	02	80
2	श्रीरामपुर — 12	114(सरकारी रास्ता)	00	00	70
		113(सरकारी नहर)	00	00	90
		112	00	10	80
		89	00	02	60
		83	00	06	10
		88	00	00	20
		87	00	05	90
		91	00	02	90
		50	00	03	80
		51	00	02	80
		48(सरकारी भूमि)	00	02	60
		47	00	00	90
		45	00	00	20
		46	00	03	50
		43(सरकारी भूमि)	00	03	20
		42(सरकारी भूमि)	00	01	40
		41	00	01	70
		209	00	06	30
		210	00	00	40
		215	00	02	30
		216	00	01	50
		217	00	01	00
		218	00	02	80
		221	00	01	00
		26(सरकारी भूमि)	00	01	90
		219	00	00	90
		111	00	00	20



1	2	3	4	5	6
	श्रीरामपुर — 12	220	00	00	70
	जारी.....	250	00	07	00
		252	00	07	50
		259	00	02	20
		260	00	01	90
		262	00	01	20
		261(सरकारी भूमि)	00	00	90
		343	00	00	70
		342	00	02	40
		344	00	07	90
		341	00	00	90
		349	00	03	20
		348	00	04	80
		421(सरकारी भूमि)	00	02	00
		428	00	03	30
		429	00	03	30
		459	00	05	20
		432	00	10	20
		434	00	01	00
3	बामुनहाटी — 11	106	00	02	60
		159	00	01	70
		107 / 449	00	00	20
		160	00	04	50
		152	00	11	00
4	पालड़ा — 10	343(सरकारी नहर)	00	01	10
		232(सरकारी भूमि)	00	00	90
		273	00	03	30
		340	00	04	20
		339	00	03	90
		326	00	04	30
		542(सरकारी भूमि)	00	00	20
		327	00	02	60
		320	00	09	80
		349	00	00	20

1	2	3	4	5	6
	पालड़ा — 10	366	00	00	20
	जारी.....	319	00	07	40
		318	00	01	60
		367	00	07	30
		368	00	03	80
		424	00	02	30
		425	00	00	20
		422	00	03	40
		423	00	04	20
		421	00	02	70
		429	00	00	50
5	मधुबाटी — 07	374(सरकारी भूमि)	00	00	70
		336	00	00	40
		334	00	02	80
		335	00	01	70
		333	00	01	90
		327	00	04	90
		326	00	04	90
		322	00	05	10
		323	00	05	20
		324	00	04	20
		320	00	02	30
		292	00	00	80
		293	00	04	20
		291	00	06	20
		290	00	06	40
		289	00	00	20
		261	00	04	30
		260	00	07	90
		259	00	04	40
		257	00	05	60
		256	00	06	00
		166	00	07	50
		164	00	00	20
		162	00	00	20

1	2	3	4	5	6
	मधुबाटी - 07	161	00	08	20
	जारी.....	163(सरकारी नहर)	00	02	20
		156	00	04	60
6	आमड़ाबेड़िया - 08	196	00	02	90
		11	00	00	40
		11 / 393	00	02	90
		11 / 392	00	06	10
		10	00	01	20
		9	00	04	20
		8	00	01	90
		7	00	08	50
		6	00	00	20
		36	00	14	70
		70 / 387	00	00	30
		43	00	02	90
		35	00	02	50
		41	00	02	70
		42(सरकारी भूमि)	00	00	90
		42 / 389(सरकारी भूमि)	00	00	30
7	नयाचक - 57	653	00	02	60
		373	00	15	50
		650(सरकारी भूमि)	00	07	50
		649	00	00	80
		642	00	03	30
		644	00	03	70
		651	00	00	20
		643	00	05	40
		645	00	00	60
		639	00	07	00
		638	00	00	60
		637	00	03	80
		633	00	02	70
		464	00	00	20
		476	00	02	00
		478	00	02	20

1	2	3	4	5	6
	नयाचक - 57	477	00	01	90
	जारी.....	479	00	00	40
		475	00	04	50
		476 / 941	00	03	30
		488	00	06	70
		487	00	03	80
		486	00	00	30
		489	00	02	30
		491	00	08	70
		492	00	07	60
		597	00	00	50
		598	00	00	20
		596	00	07	80
		595	00	00	80
		560	00	01	90
		572(ग्रां.पं. रास्ता)	00	00	50
		562	00	01	30
		563	00	00	20
8	जोयारगोड - 58	2400	00	03	50
		2401	00	01	50
		2403	00	01	10
		2372(सरकारी बांध)	00	00	30
		2362(सरकारी नहर)	00	00	60
		2406	00	00	40
		2411	00	02	70
		2413	00	00	40
		2412	00	01	10
		2415	00	04	60
		2414	00	00	20
		2982	00	04	30
		2428(सरकारी बांध)	00	01	10
		2429	00	03	30
		2881	00	00	90
		2880	00	10	20
		2879	00	02	60

1	2	3	4	5	6
	जोयारगोड़ — 58	2878	00	00	60
	जारी.....	2793	00	10	00
		2798	00	01	80
		2799	00	00	90
		2801	00	01	00
		2800	00	02	90
		2802	00	01	90
		2806	00	07	00
		2807	00	00	60
		2808	00	02	10
		2809	00	05	10
		2811	00	00	40
		2810	00	01	00
	2753(सरकारी बांध)		00	01	20
	189		00	01	20
	188		00	03	30
	187		00	01	30
	193		00	01	10
	172		00	05	60
	196		00	00	40
	197		00	06	60
	171		00	03	60
	198(सरकारी रास्ता)		00	03	60
	199		00	06	50
	431		00	02	30
	428		00	05	40
	418		00	10	00
	414		00	00	20
	419		00	06	60
	417		00	00	20
	522		00	14	20
	520		00	05	20
	523		00	05	50
	524(सरकारी रास्ता)		00	02	60
	537		00	01	70

1	2	3	4	5	6
	करातबेड़ - 64	538	00	03	20
	जारी.....	539	00	00	40
		540	00	01	30
		541	00	00	20
		542	00	02	60
		543	00	03	10
		546	00	00	20
		545	00	02	90
		544	00	00	40
		549	00	07	00
		829	00	02	50
		828	00	09	30
		838	00	00	70
		808	00	02	20
		807	00	05	80
		804	00	07	70
10	बानिबन - 63	298	00	01	70
		297	00	08	20
		291	00	00	70
		309	00	00	40
		308(ग्रां.पं. रास्ता)	00	00	30
		311	00	02	40
		585	00	03	00
		610	00	02	30
		602	00	07	80
		608	00	07	80
		414	00	04	00
		415	00	06	50
		416	00	03	20
		595	00	00	50
		417(ग्रां.पं.रास्ता)	00	00	90
		566	00	00	60
		567	00	02	70
		568	00	02	80
		569	00	02	50
		570	00	00	60

1	2	3	4	5	6
	बानिबन — 63	565	00	02	20
	जारी.....	451(सिंचाई विभाग नहर)	00	00	90
		467	00	00	70
		466	00	02	90
		469(ग्रां.पं.रास्ता)	00	00	30
		475	00	00	40
		474	00	03	40
11	बानिबन जगदीशपुर — 62	2507	00	02	90
		2509	00	00	70
		2512	00	04	20
		2515	00	02	30
		2514	00	02	40
		2513	00	00	20
		2516	00	00	30
		2517(सरकारी रास्ता)	00	08	80
		2484	00	03	70
		2483	00	01	50
		2481	00	06	90
		2480	00	04	30
		2479	00	05	70
		2476	00	02	60
		2477	00	06	70
		2473	00	05	70
		2472	00	00	20
		2550(ग्रां.पं.भूमि)	00	00	70
		2421(सरकारी नहर)	00	00	70
		2597	00	05	00
		2598	00	02	00
		2599	00	04	30
		2600	00	03	30
		2595	00	03	00
		2602	00	02	10
		2603	00	05	00
		2604	00	05	60
		2605	00	04	00

1	2	3	4	5	6
	बानिबन जगदीशपुर — 62	2407	00	02	60
	जारी.....	2611	00	05	60
		2612	00	11	80
		2381	00	00	50
		2379	00	00	30
		2380	00	03	30
		2378	00	19	20
		2377(सरकारी भूमि)	00	01	10
		2371	00	08	70
		2374	00	03	10
		2376	00	01	20
		2375	00	00	20
12	कांटाबेड़िया — 91	4001(ग्रां.पं.रास्ता)	00	01	80
		4020	00	00	50
		4019	00	01	30
		4018(सरकारी भूमि)	00	01	30
		4017	00	02	50
		4023	00	00	20
		4305	00	02	70
		4024	00	00	30
		4302	00	05	00
		4301	00	01	40
		4300	00	01	40
		4299	00	02	20
		4298	00	03	70
		4330	00	02	90
		4356	00	02	30
		4352	00	04	50
		4353	00	00	30
		4350	00	04	30
		4377	00	03	30
		4376	00	04	70
		4375	00	05	00
		4374	00	00	20
		4373	00	06	40



1	2	3	4	5	6
	कांटाबेड़िया — 91	4406	00	03	60
	जारी.....	4407	00	07	80
		4408	00	05	30
		4399	00	03	90
		4397	00	04	20
		4419	00	00	20
		4396	00	10	50
		4395	00	02	80
		4394	00	01	40
		4393	00	08	10
13	बृन्दावनपुर — 90	53	00	09	30
		55	00	00	20
		56	00	06	10
		57	00	03	00
		58	00	00	60
		40	00	01	10
		59	00	03	10
		80	00	00	50
		81	00	00	60
		71(सरकारी रास्ता)	00	01	30
		77	00	05	10
		82	00	02	80
		83	00	00	20
		84	00	02	20
		85	00	00	30
		86	00	05	40
		194	00	05	70
		193	00	01	00
		169	00	02	10
		192	00	04	80
		170	00	00	20
		164	00	01	60
		171	00	01	20
		172	00	04	90
		173	00		

1	2	3	4	5	6
	दृन्दावनपुर - 90	175	00	04	40
	जारी...	146(सरकारी नहर)	00	01	20
		357(सरकारी रास्ता)	00	00	50
		158	00	04	80
		157	00	03	30
		156	00	01	10
		379	00	00	20
		380	00	03	80
		381	00	02	40
		376	00	00	20
		873	00	00	40
		872	00	00	60
		397	00	05	50
		394 / 888	00	04	70
		398	00	04	80
		394 / 887	00	05	10
		399	00	07	00
		404	00	02	10
14	वासुदेवपुर - 93	2048 / 2400	00	00	80
		2051	00	04	70
		2052	00	00	30
		2053	00	01	40
		2038	00	00	20
		2037	00	01	35
		2041	00	00	50
		2036	00	00	20
		2035	00	02	40
		2061	00	02	40
		2062	00	05	80
		2060	00	00	20
		2063	00	02	20
		2071	00	01	50
		2070 / 2389	00	02	10
		2074	00	01	00
		2075(सिंचाई विभाग नहर)	00	04	20

1	2	3	4	5	6
	बासुदेवपुर — 93	2090(सरकारी रास्ता)	00	00	70
	जारी.....	2090 / 2359(सरकारी रास्ता)	00	00	60
		2088	00	00	90
		2089	00	08	50
		2091	00	00	20
		2092 / 2384	00	02	90
		2092	00	02	70
		726	00	02	00
		764	00	01	70
		767	00	00	40
		765	00	03	10
		763	00	05	40
		417	00	01	50
		766(ग्रं.पं.रास्ता)	00	01	00
		4258	00	03	40
		4260(सरकारी रास्ता)	00	01	30
		4257	00	01	10
		4256	00	01	50
		4253	00	00	20
		4255	00	07	20
		4237	00	00	20
		4238	00	05	60
		4239 / 5284	00	03	40
		4243 / 5221	00	00	50
		4215	00	00	30
		4206 / 5275	00	05	60
		4206 / 5235	00	01	80
		4212	00	01	90
		4211	00	05	10
		4210	00	06	20
		4209	00	02	50
		4201(सरकारी रास्ता)	00	00	40
		4184	00	02	30
		4185	00	04	90
		4186	00	01	30

1	2	3	4	5	6
	बासुदेवपुर — 93	4187	00	02	30
	जारी.....	4188	00	03	20
		4190	00	00	20
	4046(सरकारी नाला)		00	00	40
		4127	00	03	40
		4122	00	01	30
		4123	00	00	50
		4124	00	03	40
		4125	00	03	70
		4126	00	01	80
		4132	00	01	20
		4108	00	09	00
		4101	00	02	90
		4087	00	02	00
		4088	00	06	30
		4091	00	03	80
		4090	00	01	40
		4089	00	00	80
	4396 / 5255(सरकारी रास्ता)		00	00	50
		4536	00	04	40
		4538	00	04	50
		4546	00	00	20
		4540	00	04	40
		4661	00	00	30
		4662	00	01	70
	4667(सरकारी नाला)		00	00	50
		4664	00	00	40
		4666	00	04	50
		4670	00	00	70
		4671	00	02	60
		4671 / 5259	00	03	50
		4671 / 5260	00	00	90
		4722	00	03	60
		4721	00	02	30
		4775	00	00	20

1	2	3	4	5	6
	बासुदेवपुर - 93	4723	00	03	60
	जारी.....	4719	00	00	20
		4710	00	03	20
		4724	00	00	20
		4725	00	01	90
		4726	00	02	70
		4728	00	01	70
		4729	00	00	90
		4731	00	05	30
	4752(सरकारी भूमि)		00	00	40
	4732		00	00	20
15	बाड़ रामनगर - 97	638	00	05	00
	693(सरकारी नहर)		00	00	40
	625		00	00	20
	626		00	02	10
	627		00	01	90
	628		00	02	20
	622(सरकारी रास्ता)		00	00	40
	947(ग्रा.प.रास्ता)		00	01	70
	1064		00	01	50
	1065		00	01	50
	1066		00	00	70
	1067		00	03	00
	1074		00	03	70
	621(सरकारी नहर)		00	02	20
	600		00	02	50
	599		00	00	20
	598		00	00	70
	1116		00	03	10
	1084		00	00	20
	1115		00	05	50
	1120		00	04	00
	1124		00	05	50
	1121		00	00	20
	1152		00	06	20

1	2	3	4	5	6
	बाड़ रामनगर — 97	1443	00	03	30
	जारी.....	1445	00	01	00
		1437(सरकारी नहर)	00	00	80
		1442	00	01	50
		1441	00	00	70
		1440	00	01	60
		1439	00	00	30
		1160	00	01	70
		1161	00	00	40
		1269	00	01	20
		1414	00	01	60
		1270	00	00	20
		1413	00	01	80
		1415	00	00	20
		1412	00	01	40
		1411	00	01	60
		1274	00	00	90
		1410	00	00	20
		1409	00	00	60
		1394	00	02	50
		1395	00	00	40
		1276	00	00	20
		1393	00	02	70
		1392	00	00	20
		1325	00	03	70
		1388	00	00	30
		1387	00	00	40
		1327	00	01	50
		1326	00	00	50
		1508(ग्रां.पं.रास्ता)	00	00	50
		1328	00	00	30
		1339	00	04	80
		1340	00	01	40
		1338	00	02	20
		1343	00	00	20

1	2	3	4	5	6
	बाड़ रामनगर — 97	1344	00	04	80
	जारी.....	1346	00	00	40
		1345	00	03	00
		1348(सरकारी नहर)	00	01	10
16	शुडिखाली — 98	515(सरकारी नहर)	00	01	20
		514(सरकारी भूमि)	00	00	90
		437	00	00	80
		439	00	02	90
		440	00	02	40
		434	00	00	30
		430	00	05	20
		431	00	02	20
		427	00	00	40
		277	00	00	60
		257	00	00	70
		154	00	00	70
		156	00	02	80
		155	00	03	10
		157	00	02	80
		158	00	03	30
		160	00	00	90
		161	00	00	40
17	रघुदेबपुर — 99	1947	00	08	10
		1949	00	01	70
		1948	00	04	80
		1945	00	00	30
		1958	00	04	60
		1940	00	04	70
		1962	00	02	80
		1963	00	05	80
		1964	00	01	20
		1968	00	04	80
		1903	00	04	10
		1902	00	04	20
		1887	00	05	90

1	2	3	4	5	6
	रघुदेबपुर — 99	1886	00	00	70
	जारी.....	1879	00	09	50
		1878	00	00	50
		1877	00	04	20
		1829	00	02	70
		1828	00	01	70
		1826	00	00	20
	1822(सरकारी रास्ता)	00	02	10	
		1836	00	00	50
		1837	00	01	00
		1961	00	00	20
		1839	00	00	20
		1651	00	00	60
		1838	00	02	00
		1648	00	00	20
		1647	00	03	20
		1649	00	00	20
		1650	00	03	80
		1646	00	03	10
		1652	00	01	70
	1644(सरकारी रास्ता)	00	01	00	
		1641	00	00	80
		1636	00	05	90
		1634	00	05	20
	1633(सरकारी रास्ता)	00	00	40	
		682	00	01	40
		684	00	02	20
		695	00	05	70
	461(सरकारी रास्ता)	00	02	20	
	462(सरकारी नाली)	00	01	00	
	1717(आर.एस. खसरा)	00	00	60	
		694	00	00	60
		696	00	06	40
		693	00	02	60
	699(सरकारी नहर)	00	01	10	



1	2	3	4	5	6
	रघुदेबपुर — 99	697(सरकारी रास्ता)	00	00	70
	जारी.....	698	00	00	20
		700	00	04	00
		956	00	02	10
		948	00	06	20
		949	00	04	10
		950	00	02	20
		955	00	00	20
		945	00	08	20
		947	00	00	20
		946	00	06	10
		943	00	01	90
		858	00	05	60
		944	00	00	20
		868	00	01	20
		874	00	05	10
		908	00	01	30
		859	00	00	90
		860	00	02	80
		861	00	01	80
		905	00	00	20
		922	00	04	60
		872	00	13	70
		921	00	00	20
		873	00	03	10
		894	00	14	40
		915	00	00	60
		914	00	01	20
		896	00	00	50
		897	00	07	10
		909	00	02	20
		898	00	02	90
		907	00	01	70
		900(सरकारी भूमि)	00	01	00
		901(सरकारी रास्ता)	00	00	50

1	2	3	4	5	6
रघुदेवपुर - 99	00	902(सरकारी भूमि)	00	00	90
जारी.....	00	904	00	03	90
00	00	001	00	03	90
00	00	002	00	05	70
00	00	003	00	01	80
00	00	004	00	06	90
00	00	005	00	00	50
00	00	006	00	03	00
00	00	007	00	00	30
00	00	008	00	00	20
00	00	009	00	01	10
00	00	010	00	03	80
00	00	011	00	06	50
00	00	012	00	01	50
00	00	013	00	08	00
00	00	014	00	04	20
00	00	015	00	01	30
18 धरमंगा बासुदेवपुर - 100	00	016	00	01	70
00	00	017	00	02	00
00	00	018	00	02	10
00	00	019	00	00	70
00	00	020	00	02	90
00	00	021	00	02	90
00	00	022	00	02	50
00	00	023	00	01	00
00	00	024	00	00	20
00	00	025	00	00	00
00	00	026	00	00	00
00	00	027	00	00	00
00	00	028	00	00	00
00	00	029	00	00	00
00	00	030	00	00	00
00	00	031	00	00	00
00	00	032	00	00	00
00	00	033	00	00	00
00	00	034	00	00	00
00	00	035	00	00	00
00	00	036	00	00	00
00	00	037	00	00	00
00	00	038	00	00	00
00	00	039	00	00	00
00	00	040	00	00	00
00	00	041	00	00	00
00	00	042	00	00	00
00	00	043	00	00	00
00	00	044	00	00	00
00	00	045	00	00	00
00	00	046	00	00	00
00	00	047	00	00	00
00	00	048	00	00	00
00	00	049	00	00	00
00	00	050	00	00	00
00	00	051	00	00	00
00	00	052	00	00	00
00	00	053	00	00	00
00	00	054	00	00	00
00	00	055	00	00	00
00	00	056	00	00	00
00	00	057	00	00	00
00	00	058	00	00	00
00	00	059	00	00	00
00	00	060	00	00	00
00	00	061	00	00	00
00	00	062	00	00	00
00	00	063	00	00	00
00	00	064	00	00	00
00	00	065	00	00	00
00	00	066	00	00	00
00	00	067	00	00	00
00	00	068	00	00	00
00	00	069	00	00	00
00	00	070	00	00	00
00	00	071	00	00	00
00	00	072	00	00	00
00	00	073	00	00	00
00	00	074	00	00	00
00	00	075	00	00	00
00	00	076	00	00	00
00	00	077	00	00	00
00	00	078	00	00	00
00	00	079	00	00	00
00	00	080	00	00	00
00	00	081	00	00	00
00	00	082	00	00	00
00	00	083	00	00	00
00	00	084	00	00	00
00	00	085	00	00	00
00	00	086	00	00	00
00	00	087	00	00	00
00	00	088	00	00	00
00	00	089	00	00	00
00	00	090	00	00	00
00	00	091	00	00	00
00	00	092	00	00	00
00	00	093	00	00	00
00	00	094	00	00	00
00	00	095	00	00	00
00	00	096	00	00	00
00	00	097	00	00	00
00	00	098	00	00	00
00	00	099	00	00	00
00	00	100	00	00	00

[सं. 1/1/1934]

[सं. 1/1/1934]

New Delhi, the 4th July, 2012

**S.O. 2274.—Whereas, it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of Liquefied Petroleum Gas from Paradip (Odisha) to Durgapur (West Bengal) Via Haldia a pipeline should be laid in State of West Bengal by Indian Oil Corporation Limited.**

And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person interested in the land described in the said schedule may, within twenty one days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the right of user therein for laying of the pipeline under the land to Shri S.C.Sarkar, W.B.C.S (Exe.) Retd. Competent Authority Paradip - Haldia - Durgapur LPG Pipeline & Augmentation of Paradip - Haldia - Baranli Pipeline Project, P.O. Dulliya, Andul - Mouri, Mourigram, Howrah, 711-302 (West Bengal)

## SCHEDULE

P S: ULUBERIA - II			DISTRICT : HOWRAH		STATE : WEST BENGAL	
Sl. No.	Name of the Mouza	Khasra No.	Area			
			Hectare	Are	Sq.mtr.	
1	2	3	4	5	6	
1	MAHISHREKHA - 13	728	00	07	20	
		730	00	01	90	
		729	00	02	50	
		731(G.P.Road)	00	00	40	
		732	00	07	90	
		733/888	00	02	10	
		761	00	01	40	
		760	00	00	90	
		759	00	00	30	
		764	00	07	70	
		757	00	00	90	
		765	00	02	30	
		801	00	01	60	
		798	00	03	90	
		800	00	00	20	
		799	00	03	50	
		822	00	00	70	
		821	00	02	90	
		823	00	00	70	
		824	00	02	70	
		825	00	00	30	
		794	00	02	20	
		826	00	02	70	
		827	00	00	30	
		793	00	01	70	
		830	00	02	20	
		831	00	06	70	
		893	00	00	80	
		885	00	00	20	
		833	00	01	90	

1	2	3	4	5	6
	MAHISHREKHA - 13	834	00	02	20
	Contd.....	903 (P.W.D)	00	00	50
		902 (P.W.D)	00	02	00
		901 (P.W.D)	00	02	40
		836	00	00	80
		837	00	04	20
		839	00	02	80
2	SRIRAMPUR - 12	114 (Govt.Road)	00	00	70
		113 (Govt.Canal)	00	00	90
		112	00	10	80
		89	00	02	60
		83	00	06	10
		88	00	00	20
		87	00	05	90
		91	00	02	90
		50	00	03	80
		51	00	02	80
		48 (Govt Land)	00	02	60
		47	00	00	90
		45	00	00	20
		46	00	03	50
		43 (Govt Land)	00	03	20
		42 (Govt Land)	00	01	40
		41	00	01	70
		209	00	06	30
		210	00	00	40
		215	00	02	30
		216	00	01	50
		217	00	01	00
		218	00	02	80
		221	00	01	00
		26 (Govt Land)	00	01	90
		219	00	00	90
		111	00	00	20

1	2	3	4	5	6
00	<b>SRIRAMPUR - 12</b>	220	00	00	70
01	<b>Contd.....</b>	250	00	07	00
02	00	252	00	07	50
03	00	259	00	02	20
04	00	260	00	01	90
05	00	262	00	01	20
06	00	261 (Govt Land)	00	00	90
07	00	343	00	00	70
08	00	342	00	02	40
09	00	344	00	07	90
10	00	341	00	00	90
11	00	349	00	03	20
12	00	348	00	04	80
13	00	421 (Govt. Land)	00	02	00
14	00	428	00	03	30
15	00	429	00	03	30
16	00	459	00	05	20
17	00	432	00	10	10
18	00	434	00	01	00
19	<b>3 BAMUNHATI - 11</b>	106	00	02	60
20	00	159	00	01	70
21	00	107/449	00	00	20
22	00	160	00	04	50
23	00	152	00	11	00
24	<b>4 PALARA - 10</b>	343 (Govt. Canal)	00	01	10
25	00	232 (Govt Land)	00	00	90
26	00	273	00	03	30
27	00	340	00	04	20
28	00	339	00	03	90
29	00	326	00	04	30
30	00	542 (Govt Land)	00	00	20
31	00	327	00	02	60
32	00	320	00	09	80
33	00	349	00	00	20
34	00				

1	2	3	4	5	6
PALARA - 10	00	181 366	00	06	20
Contd....	00	(Govt) Govt 319	00	07	40
	00	227 318	00	01	60
	00	267 367	00	07	30
	00	27 368	00	03	80
	00	281 424	00	02	30
	00	301 425	00	00	20
	00	31 422	00	03	40
	00	32 423	00	04	20
	00	33 421	00	02	70
	00	34 429	00	00	50
5 MADHUBATI - 07	00	374 (Govt Land)	00	00	70
	00	35 336	00	00	40
	00	36 334	00	02	80
	00	37 335	00	01	70
	00	38 333	00	01	90
	00	39 327	00	04	90
	00	(Govt) Govt 326	00	04	90
	00	(Govt) Govt 322	00	05	10
	00	40 323	00	05	20
	00	41 324	00	04	20
	00	(Govt) Govt 320	00	02	30
	00	42 292	00	00	80
	00	43 293	00	04	20
	00	44 291	00	06	20
	00	45 290	00	06	40
	00	46 289	00	00	20
	00	47 261	00	04	30
	00	48 260	00	07	90
	00	49 259	00	04	40
	00	50 257	00	05	60
	00	51 256	00	06	00
	00	52 166	00	07	50
	00	53 164	00	00	20
	00	54 162	00	00	20

1	2	3	4	5	6
	MADHUBATI - 07	161	00	08	20
	Contd.....	163 (Govt. Canal)	00	02	20
		156	00	04	60
6	AMRABERIA - 08	196	00	02	90
		11	00	00	40
		11/393	00	02	90
		11/392	00	06	10
		10	00	01	20
		9	00	04	20
		8	00	01	90
		7	00	08	50
		6	00	00	20
		36	00	14	70
		70/387	00	00	30
		43	00	02	90
		35	00	02	50
		41	00	02	70
		42 (Govt. Land)	00	00	90
		42/389 (Govt. Land)	00	00	30
7	NAYACHAK - 57	653	00	02	60
		373	00	15	50
		650 (Govt. Land)	00	07	50
		649	00	00	80
		642	00	03	30
		644	00	03	70
		651	00	00	20
		643	00	05	40
		645	00	00	60
		639	00	07	00
		638	00	00	60
		637	00	03	80
		633	00	02	70
		464	00	00	20
		476	00	02	00
		478	00	02	20



1	2	3	4	5	6
	NAYACHAK - 57	477	00	01	90
	Contd.....	479	00	00	40
		475	00	04	50
		476/941	00	03	30
		488	00	06	70
		487	00	03	80
		486	00	00	30
		489	00	02	30
		491	00	08	70
		492	00	07	60
		597	00	00	50
		598	00	00	20
		596	00	07	80
		595	00	00	80
		560	00	01	90
		572 (G.P. Road)	00	00	50
		562	00	01	30
		563	00	00	20
8	JOARGOR - 58	2400	00	03	50
		2401	00	01	50
		2403	00	01	10
		2372 (Govt. Embakment)	00	00	30
		2362 (Govt Canal)	00	00	60
		2406	00	00	40
		2411	00	02	70
		2413	00	00	40
		2412	00	01	10
		2415	00	04	60
		2414	00	00	20
		2982	00	04	30
		2428 (Govt. Embakment)	00	01	10
		2429	00	03	30
		2881	00	00	90
		2880	00	10	20
		2879	00	02	60

1	2	3	4	5	6
	JOARGOR - 58	2878	00	00	60
	Contd.....	2793	00	10	00
		2798	00	01	80
		2799	00	00	90
		2801	00	01	00
		2800	00	02	90
		2802	00	01	90
		2806	00	07	00
		2807	00	00	60
		2808	00	02	10
		2809	00	05	10
		2811	00	00	40
		2810	00	01	00
		2753(Govt. Embakment)	00	01	20
9	KARATBER - 64	189	00	01	20
		188	00	03	30
		187	00	01	30
		193	00	01	10
		172	00	05	60
		196	00	00	40
		197	00	06	60
		171	00	03	60
		198 (Govt. Land)	00	03	60
		199	00	06	50
		431	00	02	30
		428	00	05	40
		418	00	10	00
		414	00	00	20
		419	00	06	60
		417	00	00	20
		522	00	14	20
		520	00	05	20
		523	00	05	50
		524 (Govt. Land)	00	02	60
		537	00	01	70

1	2	3	4	5	6
	KARATBER - 64	538	00	03	20
	Contd.....	539	00	00	40
		540	00	01	30
		541	00	00	20
		542	00	02	60
		543	00	03	10
		546	00	00	20
		545	00	02	90
		544	00	00	40
		549	00	07	00
		829	00	02	50
		828	00	09	30
		838	00	00	70
		808	00	02	20
		807	00	05	80
		804	00	07	70
10	BANIBAN - 63	298	00	01	70
		297	00	08	20
		291	00	00	70
		309	00	00	40
		308 (G.P.Road)	00	00	30
		311	00	02	40
		585	00	03	00
		610	00	02	30
		602	00	07	80
		608	00	07	80
		414	00	04	00
		415	00	06	50
		416	00	03	20
		595	00	00	50
		417 (G.P.Road)	00	00	90
		566	00	00	60
		567	00	02	70
		568	00	02	80
		569	00	02	50
		570	00	00	60

1	2	3	4	5	6
	BANIBAN - 63	565	00	02	20
	Contd.....	451 (Irriga.Dpt. Canal )	00	00	90
		467	00	00	70
		466	00	02	90
		469 (G.P.Road)	00	00	30
		475	00	00	40
		474	00	03	40
11	BANIBAN JAGADISPUR - 62	2507	00	02	90
		2509	00	00	70
		2512	00	04	20
		2515	00	02	30
		2514	00	02	40
		2513	00	00	20
		2516	00	00	30
		2517 (Govt Land)	00	08	80
		2484	00	03	70
		2483	00	01	50
		2481	00	06	90
		2480	00	04	30
		2479	00	05	70
		2476	00	02	60
		2477	00	06	70
		2473	00	05	70
		2472	00	00	20
		2550 (G.P. Land)	00	00	70
		2421 (Govt Canal)	00	00	70
		2597	00	05	00
		2598	00	02	00
		2599	00	04	30
		2600	00	03	30
		2595	00	03	00
		2602	00	02	10
		2603	00	05	00
		2604	00	05	60
		2605	00	04	00

1	2	3	4	5	6
	BANIBAN JAGADISPUR - 62	2407	00	02	60
	Contd.....	2611	00	05	60
		2612	00	11	80
		2381	00	00	50
		2379	00	00	30
		2380	00	03	30
		2378	00	19	20
		2377 (Govt Land)	00	01	10
		2371	00	08	70
		2374	00	03	10
		2376	00	01	20
		2375	00	00	20
12	KANTABERIA - 91	4001 (G.P.Road)	00	01	80
		4020	00	00	50
		4019	00	01	30
		4018 (Govt Land)	00	01	30
		4017	00	02	50
		4023	00	00	20
		4305	00	02	70
		4024	00	00	30
		4302	00	05	00
		4301	00	01	40
		4300	00	01	40
		4299	00	02	20
		4298	00	03	70
		4330	00	02	90
		4356	00	02	30
		4352	00	04	50
		4353	00	00	30
		4350	00	04	30
		4377	00	03	30
		4376	00	04	70
		4375	00	05	00
		4374	00	00	20
		4373	00	06	40

1	2	3	4	5	6
	KANTABERIA - 91	4406			
	Contd.....	4407	00	03	60
		4408	00	07	80
		4399	00	05	30
		4398	00	03	90
		4397	00	04	20
		4419	00	00	20
		4396	00	00	20
		4395	00	10	50
		4394	00	02	80
		4393	00	01	40
13	BRINDABANPUR - 90	53	00	08	10
		55	00	09	30
		56	00	00	20
		57	00	06	10
		58	00	03	00
		40	00	00	60
		59	00	01	10
		80	00	03	10
		81	00	00	50
		71 (Govt.Road)	00	00	60
		77	00	01	30
		82	00	05	10
		83	00	02	80
		84	00	00	20
		85	00	02	20
		86	00	00	30
		194	00	05	40
		193	00	05	70
		169	00	01	00
		192	00	02	10
		170	00	04	80
		164	00	00	20
		171	00	01	60
		172	00	01	20
		173	00	04	90

1	2	3	4	5	6
	BRINDABANPUR - 90	175	00	04	40
	Contd.....	146 (Govt Canal)	00	01	20
		357 (Govt. Road)	00	00	50
		158	00	04	80
		157	00	03	30
		156	00	01	10
		379	00	00	20
		380	00	03	80
		381	00	02	40
		376	00	00	20
		873	00	00	40
		872	00	00	60
		397	00	05	50
		394/888	00	04	70
		398	00	04	80
		394/887	00	05	10
		399	00	07	00
		404	00	02	10
14	BASUDEBPUR - 93	2048/2400	00	00	80
		2051	00	04	70
		2052	00	00	30
		2053	00	01	40
		2038	00	00	20
		2037	00	01	35
		2041	00	00	50
		2036	00	00	20
		2035	00	02	40
		2061	00	02	40
		2062	00	05	80
		2060	00	00	20
		2063	00	02	20
		2071	00	01	50
		2070/2389	00	02	10
		2074	00	01	00
		2075 (Irrigation Dpt. Canal)	00	04	20

1	2	3	4	5	6
	BASUDEBPUR - 93	2090 (Govt.Road)	00	00	70
	Contd.....	2090/2359 (Govt.Road)	00	00	60
		2088	00	00	90
		2089	00	08	50
		2091	00	00	20
		2092/2384	00	02	90
		2092	00	02	70
		726	00	02	00
		764	00	01	70
		767	00	00	40
		765	00	03	10
		763	00	05	40
		417	00	01	50
		766 (G.P. Road)	00	01	00
		4258	00	03	40
		4260 (Govt Land)	00	01	30
		4257	00	01	10
		4256	00	01	50
		4253	00	00	20
		4255	00	07	20
		4237	00	00	20
		4238	00	05	60
		4239/5284	00	03	40
		4243/5221	00	00	50
		4215	00	00	30
		4206/5275	00	05	60
		4206/5235	00	01	80
		4212	00	01	90
		4211	00	05	10
		4210	00	06	20
		4209	00	02	50
		4201(Govt.Road)	00	00	40
		4184	00	02	30
		4185	00	04	90
		4186	00	01	30



1	2	3	4	5	6
	BASUDEBPUR - 93	4187	00	02	30
	Contd.....	4188	00	03	20
		4190	00	00	20
		4046(Govt. Nala)	00	00	40
		4127	00	03	30
		4122	00	01	30
		4123	00	00	50
		4124	00	03	40
		4125	00	03	70
		4126	00	01	80
		4132	00	01	20
		4108	00	09	00
		4101	00	02	90
		4087	00	02	00
		4088	00	06	30
		4091	00	03	80
		4090	00	01	40
		4089	00	00	80
		4396/5255 (Govt. Road)	00	00	50
		4536	00	04	40
		4538	00	04	50
		4546	00	00	20
		4540	00	04	40
		4661	00	00	30
		4662	00	01	70
		4667 (Govt. Nala)	00	00	50
		4664	00	00	40
		4666	00	04	50
		4670	00	00	70
		4671	00	02	60
		4671/5259	00	03	50
		4671/5260	00	00	90
		4722	00	03	60
		4721	00	02	30
		4775	00	00	20
		4723	00	03	60
		4719	00	00	20
		4710	00	03	20
		4724	00	00	20
		4725	00	01	90
		4726	00	02	70

1	2	3	4	5	6
	BASUDEBPUR - 93	4728	00	01	70
	Contd.....	4729	00	00	90
		4731	00	05	30
		4752 (Govt.Land)	00	00	40
		4732	00	00	20
15	BAR RAMNAGAR - 97	638	00	05	00
		693(Govt.Canal)	00	00	40
		625	00	00	20
		626	00	02	10
		627	00	01	90
		628	00	02	20
		622 (Govt.Road)	00	00	40
		947(G.P.Road)	00	01	70
		1064	00	01	50
		1065	00	01	50
		1066	00	00	70
		1067	00	03	00
		1074	00	03	70
		621(Govt.Canal)	00	02	20
		600	00	02	50
		599	00	00	20
		598	00	00	70
		1116	00	03	10
		1084	00	00	20
		1115	00	05	50
		1120	00	04	00
		1124	00	05	50
		1121	00	00	20
		1152	00	06	20
		1443	00	03	30
		1445	00	01	00
		1437(Govt.Canal)	00	00	80
		1442	00	01	50
		1441	00	00	70
		1440	00	01	60
		1439	00	00	30
		1160	00	01	70
		1161	00	00	40
		1269	00	01	20
		1414	00	01	60

1	2	3	4	5	6
	BAR RAMNAGAR - 97	1270	00	00	20
	Contd.....	1413	00	01	80
		1415	00	00	20
		1412	00	01	40
		1411	00	01	60
		1274	00	00	90
		1410	00	00	20
		1409	00	00	60
		1394	00	02	50
		1395	00	00	40
		1276	00	00	20
		1393	00	02	70
		1392	00	00	20
		1325	00	03	70
		1388	00	00	30
		1387	00	00	40
		1327	00	01	50
		1326	00	00	50
		1508 (G.P.Road)	00	00	50
		1328	00	00	30
		1339	00	04	80
		1340	00	01	40
		1338	00	02	20
		1343	00	00	20
		1344	00	04	80
		1346	00	00	40
		1345	00	03	00
		1348 (Govt.Canal)	00	01	10
		515 (Govt.Canal)	00	01	20
		514 (Govt.Road)	00	00	90
		437	00	00	80
		439	00	02	90
		440	00	02	40
		434	00	00	30
		430	00	05	20
		431	00	02	20
		427	00	00	40
		277	00	00	60
		257	00	00	70
		154	00	00	70

1	2	3	4	5	6
16	SURIKHALI - 98	156	00	02	80
	Contd...	155	00	03	10
		157	00	02	80
		158	00	03	30
		160	00	00	90
		161	00	00	40
17	RAGHUDEBPUR - 99	1947	00	08	10
		1949	00	01	70
		1948	00	04	80
		1945	00	00	30
		1958	00	04	60
		1940	00	04	70
		1962	00	02	80
		1963	00	05	80
		1964	00	01	20
		1968	00	04	80
		1903	00	04	10
		1902	00	04	20
		1887	00	05	90
		1886	00	00	70
		1879	00	09	50
		1878	00	00	50
		1877	00	04	20
		1829	00	02	70
		1828	00	01	70
		1826	00	00	20
		1822 (Govt. Road)	00	02	10
		1836	00	00	50
		1837	00	01	00
		1961	00	00	20
		1839	00	00	20
		1651	00	00	60
		1838	00	02	00
		1648	00	00	20
		1647	00	03	20
		1649	00	00	20
		1650	00	03	80
		1646	00	03	10
		1652	00	01	70
		1644 (Govt. Road)	00	01	00
		1641	00	00	80
		1636	00	05	90

1	2	3	4	5	6
	RAGHUDEBPUR - 99	1634	00	05	20
	Contd.....	1633 (Govt.Road)	00	00	40
		682	00	01	40
		684	00	02	20
		695	00	05	70
		461 (Govt.Road)	00	02	20
		462 (Govt.Drain)	00	01	00
		1717(R.S. Plot)	00	00	60
		694	00	00	60
		696	00	06	40
		693	00	02	60
		699 (Govt.Canal)	00	01	10
		697 (Govt.Road)	00	30	70
		698	00	00	20
		700	00	04	00
		956	00	02	10
		948	00	06	20
		949	00	04	10
		950	00	02	20
		955	00	00	20
		945	00	08	20
		947	00	00	20
		946	00	06	10
		943	00	01	90
		858	00	05	60
		944	00	00	20
		868	00	01	20
		874	00	05	10
		908	00	01	30
		859	00	00	30
		860	00	02	80
		861	00	01	80
		905	00	00	20
		922	00	04	60
		872	00	13	70
		921	00	00	20
		873	00	03	10
		894	00	14	40
		915	00	00	60
		914	00	01	20

1	2	3	4	5	6
	RAGHUDEBPUR - 99	896	00	00	50
	Contd.....	897	00	07	10
		909	00	02	20
		898	00	02	90
		907	00	01	70
		900 (Govt Land)	00	01	00
		901 (Govt. Road)	00	00	50
		902 (Govt Land)	00	00	90
		904	00	03	90
		417	00	03	90
		413	00	05	70
		412	00	01	80
		402	00	06	90
		401	00	00	50
		397	00	03	00
		398	00	00	30
		399	00	00	20
		396	00	01	10
		160	00	03	80
		147	00	06	50
		146	00	01	50
		131	00	08	00
		130	00	04	20
		129	00	01	30
18	GHARBHANGA BASUDEBPUR -100	19	00	01	70
		28	00	02	00
		27	00	02	10
		25	00	00	70
		26 (Govt Land)	00	02	90
		5	00	02	90
		4	00	02	50
		38	00	01	00
		41	00	00	20

[F.No. R-25011/13/2012-OR-I]

LAL CHHANDAMA, Under Secy.

**श्रम और रोजगार मंत्रालय**

नई दिल्ली, 6 जून, 2012

**का.आ. 2275.** औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार डिस्ट्रीट ओपीअम आफिसर, मन्दौर (एम.पी.) के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय, जबलपुर के पंचाट (संदर्भ संख्या सी.जी.आई.टी./एलसी/आर/64/06) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 6-6-2012 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-42012/17/2006-आई आर (डी.यू.)]

रमेश सिंह, डेस्क अधिकारी

**MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT**

New Delhi, the 6th June, 2012

**S. O. 2275.**—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. CGIT/LC/R/64/06) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Jabalpur as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the management of District Opium Officer, Mandour (MP) and their workman, which was received by the Central Government on 6-6-2012.

[No. L-42012/17/2006-IR (DU)]

RAMESH SINGH, Desk Officer

**ANNEXURE**

**BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT  
INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT,  
JABALPUR**

**NO. CGIT/LC/R/64/06****PRESIDING OFFICER: SHRI MOHD. SHAKIR HASAN**

Shri Madanlal Dabhi

S/o Shri Nandlal Dabhi,

VIII. Semli, Tehsil &amp; Distt. Mandour,

Mandour (MP)

...Workman

**Versus**

The District Opium Officer,

Central Bureau of Narcotics,

S/o the District Opium Officer,

Mandour IIIrd Division,

Mandour (MP)

...Management

**AWARD**

Passed on this 3rd day of May 2012

1. The Government of India, Ministry of Labour vide its Notification No.L-42012/17/2006-IR(DU) dated 12-10-2006 has referred the following dispute for adjudication by this tribunal:-

“ Whether the action of the management of District Opium Officer, Central Bureau of Narcotics, Neemuch in

terminating the services of their workman Shri Madan Lal Dabhi w.e.f. 1-2-2005 is legal and justified? If not, to what relief the workman is entitled to and from which date?”

2. The case of the workman Shri Madanlal Dabhi, in short, is that he was initially appointed by the management as part time casual labour w.e.f. 1-3-2000. Thereafter he became full time casual labour from 3-1-2001. Subsequently he was allowed to work through the alleged contractor which was only for name sake to deprive the workman of various benefits of the labour laws. It is stated that he became sick from 14-1-2005 to 31-1-2005 and was absent from duty. After becoming fit, he came to join duty but the Manager did not allow him to join the duty and was terminate from the service without payment of retrenchment compensation. It is submitted that the workman be reinstated with all consequential benefits.

3. The management appeared through lawyer but subsequently became absent and did not file Written Statement. Lastly the case proceeded ex parte against the management on 2-3-11.

4. On the basis of reference and pleading of the workman, the following issues are settled for adjudication-

I. Whether the action of the workman in terminating the service of Shri Madanlal Dabhi w.e.f. 1-2-2005 is legal and justified?

II. To what relief the workman is entitled?

**5. Issue No. I**

The workman has adduced oral and documentary evidence. The workman Shri Madanlal Dabhi has come to support his case. He has stated that initially he was appointed as a casual labour by the management and worked till 3-1-2001. Thereafter from July 2002, the management had taken a work of contractor till his termination w.e.f. 31-1-2005. This shows that thereafter he was working on contract basis. This clearly shows that the provision of Section 2(oo) (bb) of the Industrial Dispute Act, 1947 (in short the Act 1947) is applicable and he is said to be not a retrenched employee. Since he appears to be not a retrenched employee, the provision of Section 25 F of the Act, 1947 is not attracted. The workman has filed a certificate dated 31-10-2003 which is marked as Exhibit W/13. The said certificate clearly shows that Shri Madanlal Dabhi was working on contract for one year. This document clearly shows that the provision of Section 2(oo) (bb) of the Act, 1947 is attracted and there was no retrenchment. As such the management was legal and justified. The workman has also filed document which is marked as Exhibit W/1 and W/2. Both are same letter dated 7-3-2001. This is filed to show that initially he was engaged as casual labour. Thus it is clear that there is no violation of the Act, 1947. This issue is decided against the workman and in favour of the management.

**6. Issue No. II**

On the basis of the discussion made above, it is clear that Shri Dabhi was working with the management on

contract basis and the contract was not further extended. As such the workman is not entitled to any relief. The reference is, accordingly, answered.

7. In the result, the award is passed without any order to costs.

MOHD. SHAKIR HASAN, Presiding Officer

नई दिल्ली, 8 जून, 2012

**का.आ. 2276.**—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार रूसीकला ग्रामा बैंक के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय, भुवनेश्वर के पंचाट (संदर्भ संख्या 18/2010) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 8-6-2012 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-12011/09/2010-आई आर (बी-1)]

रमेश सिंह, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 8th June, 2012

**S. O. 2276.**—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 18/2010) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Bhubaneswar as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the management of Rushikulya Gramya Bank and their workmen, received by the Central Government on 8-6-2012.

[No. L-12011/09/2010-IR (B-1)]

RAMESH SINGH, Desk Officer

#### ANNEXURE

#### CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT BHUBANESWAR

#### Present:

Shri J. SRIVASTAVA, Presiding Officer,  
C.G.I.T.-cum-Labour  
Court, Bhubaneswar.

#### INDUSTRIAL DISPUTE CASE NO. 18/2010

Date of Passine Order - 18th May, 2012

#### Between:

The Chairman,  
Rushikulya Gramya Bank,  
H.O. Berhampur Gate Bazar, Dist. Ganjam.

... 1st Party-Management.

(And)

Their workman represented through the  
General Secretary, Rushikulya Gramya Bank  
Employees Union, C/o. Rushikulya Gramya  
Bank, Municipality Branch, Berhampur.  
Ganjam.

... 2nd Party-Union.

#### APPEARANCES:

Authorized Representative  
Advocate.

For the 1st Party-  
Management.

None.

Associates, Advocate.

For the 2nd Party-  
Union.

#### ORDER

Case taken up today before Lok Adalat. Authorized representative for the 1st Party-Management is present. General Secretary of the 2nd Party-Union has sent a memorandum of settlement with the request to take up the case at Lok Adalat and treat the dispute as settled. Both the parties have already filed settlement in Form- H. As such the reference is decided in terms of the settlement filed in Form- H and no dispute award is passed. The settlement shall form part of this order.

Dictated & Corrected by me.

JITENDRA SRIVASTAVA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 11 जून, 2012

**का.आ. 2277.**—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार मै. इन्डियन एअरलाइन्स के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय, अहमदाबाद के पंचाट (संदर्भ संख्या 413/2004) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 8-6-2012 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-11012/60/2001 आई आर (सी-1)]

रमेश सिंह, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 11th June, 2012

**S. O. 2277.**—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 413/2004) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Ahmedabad as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of M/s. Indian Airlines and their workmen, which was received by the Central Government on 8-6-2012.

[No. L-11012/60/2001-IR (C-1)]

RAMESH SINGH, Desk Officer

#### ANNEXURE

#### BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, AHMEDABAD

#### Present :

Binay Kumar Sinha, Presiding Officer,  
CG IT-cum-Labour Court,  
Ahmedabad, Dated 18-4-2012



**Reference: CGITA of 413/2004**

**Reference: ITC. 78/2001 (Old)**

1. Heavy Industrial Security and Detective Agency,  
Nr. Patel Mills Ltd., Rakhial Road,  
Gomtipur, Ahmedabad.

2. The Station Manager,  
Indian Airlines, Airport, Ahmedabad. ... First Party

And their workman  
Shri Dilipsinh P. Vaghela,  
C/o Akhil Gujarat General Mazdoor Sangh,  
2nd Floor, Arab Manzil, Pattharkuva,  
Relief Road, Ahmedabad. ... Second Party

For the first party : Shri P.S. Gogia, Advocate

For the second party : Shri M. H. Sankriyat, Representative  
of the workman (Akhil Gujarat  
General Mazdoor Union)

#### AWARD

The Central Government/Government of India/  
Ministry of Labour by its order No. L-11012/60/2001 IR  
(C-1) dated 24.09.2001, in exercise of power conferred by  
clause (d) of sub-section 1 and sub-section 2 A of Section  
10 of the ID Act, 1947 referred the dispute to Industrial  
Tribunal, Ahmedabad for adjudication formulating the  
terms of reference under the schedule as follows :—

#### SCHEDULE

“Whether the action of the management of Indian  
Airlines Ahmedabad in terminating the services of  
Shri Dilipsinh Popatji Vaghela is justified? If not, to what  
relief is the concerned workman entitled?”

2. Upon notices issued to the parties the workman  
second party and the Station Manager, Indian Airlines first  
party No.2 appeared and filed respective pleadings-  
statement of claim at Ext. 8 and written statement at Ext. 12  
respectively.

3. The case of the second party workman is that he  
was appointed as permanent driver to work at the  
Ahmedabad Airport to drive the passenger bus owned by  
first party No.2. He was working since last 3-5 years and  
his daily rate of wage was fixed Rs. 80. Further contention  
is that he was performing his duty faithfully but on  
22-1-2000 the Station Manager (first party No.2) without  
assigning any reasons orally terminated his services which  
is in violation of provision of the Section 25 (F) of the ID  
Act. On these grounds prayer has been made for declaring  
the order of oral termination dated 22-1-2000 illegal,  
improper and for his reinstatement with full back wages  
and continuity of service and for any other relief to which  
he is found entitled.

4. The contention of the principle employer (first party  
No.2) as per written statement is that the workman was  
employed by the contractor M/s Heavy Industrial Security

and Detective Agency, Ahmedabad first party No.1 and  
not by the Indian Airlines Ltd. and that said agency had  
engaged on contract basis two private drivers for  
transportation of travelling passengers. Further contention  
is that there is no employer employee relation between  
Indian Airlines Ltd., and the workman and that the issue of  
termination is between the workman and M/s Heavy  
Industrial Security Detective Agency and not between the  
workman and Indian Airlines Ltd. On these grounds prayer  
has been made that Indian Airlines is not necessary party  
in this case and so its name be deleted. Further contention  
is that the reference is fit to be dismissed with cost.

5. The workman second party did not adduce oral  
evidence in this case some documents were filed, but the  
workman left doing parvy in this case and so the papers  
filed could not be brought into the evidence. On the other  
hand the first party No.2 Indian Airlines submitted affidavit  
of its witness Monisha Nandini Kin at Ext. 74 with  
documentary evidence at Ext. 17 and 18 the list containing  
exhibits 17/1 to 17/8 and 18/1 in support of its case. The  
witness of the management was not cross-examined on  
behalf of the second party workman. On behalf of the first  
party No.2 written argument was also submitted at Ext. 37.  
The workman side did not submit any written argument  
nor submitted oral arguments in this case. Instead the  
representative of the union submitted on 29-11-2011 when  
the record was put up for hearing argument that the  
workman is not interested in this case and has not made  
any contact with the union since long. Whereas on behalf  
of the first party submission was made for putting the case  
for passing award since the workman has not turned up  
since long and he is not interested in this case.

6. From going through the evidence oral and  
documentary on behalf of the first party No.2 Indian Airlines  
it is established that first party No. 2 is not employer of the  
workman. As per written statement of the first party No.2  
the workman had been engaged for driving the bus on  
contractual basis by the contractor. In this case the first  
party No. 1 agency has not filed any pleading so any  
grievances regarding so called termination of the workman  
might be against first party No.1 Heavy Industrial Security  
and Detective Agency, Ahmedabad but the workman has  
not lead any legal evidence in this case to support his  
pleadings and even to support that he is workman of the  
contractor the workman has also failed to establish that he  
completed. 240 days of work with contractual agency first  
party No.1. I also find and hold that even there is no any  
pleading of the first party No.1 Heavy Industrial Security  
and Detective Agency but since there is no any legal  
evidence of the workman side even against first party No.1  
and more so, the workman has left doing parvy that means  
he is not interested to contest this reference case. So, in  
such view of the matter it is held that the reference is not  
maintainable and that the workman has no cause of action  
and that the workman failed to established the employee

employer relationship and so the workman second party is not entitled to any relief in this case. There is no any merit in this reference and so this reference case is rejected on being contested by first party No.2. No order as to cost.

This is my award.

**BINAY KUMAR SINHA**, Presiding Officer

नई दिल्ली, 11 जून, 2012

**का.आ. 2278.**—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार मै. इन्डियन एअरलाइन्स के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय, अहमदाबाद के पंचाट (संदर्भ संख्या 414/2004) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 8-6-2012 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-11012/59/2001-आई आर (सी-1)]

रमेश सिंह, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 11th June, 2012

**S. O. 2278.**—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No 414/2004) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Ahmedabad as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of M/s. Indian Airlines and their workmen, which was received by the Central Government on 8-6-2012.

[No. L-11012/59/2001-IR (C-1)]

**RAMESH SINGH**, Desk Officer

#### ANNEXURE

#### BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, AHMEDABAD

#### Present :

**Binay Kumar Sinha**, Presiding Officer,  
CG IT-cum-Labour Court,  
Ahmedabad, Dated 18-4-2012

**Reference: CGITA of 414/2004**

**Reference: ITC. 79/2001 (Old)**

1. Heavy Industrial Security and Detective Agency,  
Nr. Patel Mills Ltd., Rakhial Road,  
Gomtipur, Ahmedabad.
2. The Station Manager,  
Indian Airlines, Airport, Ahmedabad. ... First Party  
And their workman  
Shri Kanubhai Ratansinh Sinor,  
C/o Akhil Gujarat General Mazdoor Sangh,  
2nd Floor, Arab Manzil, Pattharkuva,  
Relief Road, Ahmedabad. ... Second Party

For the first party :- **Shri P. S. Gogia**, Advocate

For the second party :- **Shri M. H. Sankrityat**  
Representative of the workman  
(Akhil Gujarat General Mazdoor  
Union)

#### AWARD

The Central Government/Government of India Ministry of Labour by its order No. L-11012/59/2001- IR (C-1) dated 24-9-2001, in exercise of power conferred by clause (d) of sub-section 1 and sub-section 2 A of Section 10 of the ID Act, 1947 referred the dispute to Industrial Tribunal, Ahmedabad for adjudication formulating the terms of reference under the schedule as follows :

#### SCHEDULE

“Whether the action of the management of Indian Airlines Ahmedabad in terminating the services of Shri Kanubhai Ratansinh Sinor is justified? If not, to what relief is the concerned workman entitled?”

2. Upon notices issued to the parties the workman second party and the Station Manager, Indian Airlines first party No.2 appeared and filed respective pleadings-statement of claim at Ext. 8 and written statement at Ext. 13 respectively.

3. The case of the second party workman is that he was appointed as permanent driver to work at the Ahmedabad Airport to drive the passenger bus owned by first party No.2. He was working since last 3-5 years and his daily rate of wage was fixed Rs. 80. Further contention is that he was performing his duty faithfully but on 22-1-2000 the Station Manager (first party No.2) without assigning any reasons orally terminated his services which is in violation of provision of the Section 25(F) of the I.D. Act. On these grounds prayer has been made for declaring the order of oral termination dated 22-1-2000 illegal, improper and for his reinstatement with full back wages and continuity of service and for any other relief to which he is found entitled.

4. The contention of the principle employer (first party No.2) as per written statement is that the workman was employed by the contractor M/s. Heavy Industrial Security and Detective Agency, Ahmedabad first party No.1 and not by the Indian Airlines Ltd. and that said agency had. engaged on contract basis two private drivers for transportation of travelling passengers. Further contention is that there no employer employee relation between Indian Airlines Ltd., and the workman and that the issue of termination is between the workman and M/s. Heavy Industrial Security Detective Agency and not between the workman and Indian Airlines Ltd. On these grounds prayer has been made that Indian Airlines is not necessary party in this case and so its name be deleted. Further contention is that the reference is fit to be dismissed with cost.

5. The workman second party did not adduce oral

evidence in this case some documents were filed but the workman left doing pairvy in this case and so the papers filed could not be brought into the evidence. On the other hand the first party No. 2 Indian Airlines submitted affidavit of its witness Monisha Nandini Kin at Ext. 74 with documentary evidence at Ext. 17 and 18 the list containing exhibits 17/1 to 17/8 and 18/1 in support of its case. The witness of the management was not cross-examined on behalf of the second party workman. On behalf of the first party No. 2 written argument was also submitted at Ext. 37. The workman side did not submit any written argument nor submitted oral arguments in this case. Instead the representative of the union submitted on 29-11-2011 when the record was put up for hearing argument that the workman is not interested in this case and has not made any contact with the union since long. Whereas on behalf of the first party submission was made for putting the case for passing award since the workman has not turned up since long and he is not interested in this case.

6. From going through the evidence oral and documentary on behalf of the first party No. 2 Indian Airlines it is established that first party No. 2 is not employer of the workman. As per written statement of the first party No. 2 the workman had been engaged for driving the bus on contractual basis by the contractor. In this case the first party No.1 agency has not filed any pleading so any grievances regarding so called termination of the workman might be against first party No.1 Heavy Industrial Security and Detective Agency, Ahmedabad but the workman has not lead any legal evidence in this case to support his pleadings and even to support that he is workman of the contractor the workman has also failed to establish that he completed 240 days of work with contractual agency first party No.1. I also find and hold that even there is no any pleading of the first party No.1 Heavy Industrial Security and Detective Agency but since there is no any legal evidence of the workman side even against first party No.1 and more so, the workman has left doing pairvy that means he is not interested to contest this reference case. So, in such view of the matter it is held that the reference is not maintainable and that the workman has no cause of action and that the workman failed to established the employee employer relationship and so the workman second party is not entitled to any relief in this case. There is no any merit in this reference and so this reference case is rejected on being contested by first party No. 2. No order as to cost.

This is my award.

BINAY KUMAR SINHA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 11 जून, 2012

**का.आ. 2279.**—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार मै. बी.सी.सी. एल. के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक

अधिकरण/श्रम न्यायालय-II, धनबाद के पंचात (संदर्भ संख्या 104/1999) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 8 6 2012 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-20012/39/1998 आई आर (सी-1)]

रमेश सिंह, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 11th June, 2012

**S. O. 2279.**—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No 104/1999) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court-II, Dhanbad as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of M/s. B.C.C.L. and their workmen, which was received by the Central Government on 8-6-2012.

[No. L-20012/39/1998-IR (C-I)]

RAMESH SINGH, Desk Officer

#### ANNEXURE

#### BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (No. 2) AT DHANBAD

**PRESENT :** Shri Kishori Ram, Presiding Officer

In the matter of an Industrial Dispute under  
Section 10 (1) (d) of the I. D. Act, 1947

**Reference No. 104 of 1999**

**Parties :** Employers in relation to the management of  
Bermo Mines, DVC and their workman.

#### APPEARANCES:

On behalf of the workman : Mr. K. Chakraborty,  
I.d. Adv

On behalf of the employers : Mr. S. N. Chatterjee,  
I.d. Adv

State : Jharkhand

Industry : Mines

dated, Dhanbad, 18th April, 2012

#### AWARD

The Government of India, Ministry of Labour, in exercise of the powers conferred on them under Section 10 (1) (d) of the I.D. Act, 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide their Order No. L-20012/39/98-IR (C-I) dated the 22-1-1999.

#### SCHEDULE

“ Whether the action of the management of Bermo Mines, DVC, PO : Bermo, Dist : Bokaro in not considering the case of Sh. Vijay Kumar Gupta, S/o Late R. N. Gupta, Clerk Gr. I for employment under 9-4-2, in NCWA-IV and V is legal and justified ? If not, to what relief is the concerned workman entitled ?”

2. Neither Mr. K. Chakraborty for petitioner Vijay Kumar Gupta nor Somnath Choudhary, the I.d. Advocate for the management appeared nor any management witness produced for evidence.

From the perusal of the case record, I find the evidence of the workman despite last chance was earlier closed on 25-7-2005 and since thereafter the case has been pending for the evidence of the management, but in spite of three Regd. Notices dtd. 15-11-2010, 7-7-2011 and 22-11-2011 issued to the both the parties on their respective addresses as noted in the reference, none appeared to represent their own case properly. It is remarkable to note that if not a single witness of the workman has been produced in support of his case, so the evidence of the workman/petitioner was closed, then in fact, there was no need of the management to produce the management witness in the present case related to the employment of the petitioner Vijay Kr. Gupta S/o Late R. N. Gupta, Clerk Gr. I because the onus of the proof was on the representative union for the petitioner.

In result proceeding with the case of the year 1999 for infinity is useless. Hence the case is closed and accordingly an order of no industrial dispute existent is passed.

KISHORI RAM, Presiding Officer

नई दिल्ली, 11 जून, 2012

का.आ. 2280.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार मै. बी.सी.सी. एल. के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय-II, धनबाद के पंचाट (संदर्भ संख्या 83/2002) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 8-6-2012 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-20012/152/2002-आई आर (सी-1)]

रमेश सिंह, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 11th June, 2012

S. O. 2280.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 83/2002) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court-II, Dhanbad as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of M/s. B.C.C.L. and their workman, which was received by the Central Government on 8-6-2012.

[No. L-20012/152/2002-IR(C-I)]

RAMESH SINGH, Desk Officer

#### ANNEXURE

#### BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (No. 2) AT DHANBAD

Present : Shri Kishori Ram, Presiding Officer

In the matter of an Industrial Dispute under Section 10 (1) (d) of the I. D. Act, 1947

Reference No. 83 of 2002

**PARTIES :** Employers in relation to the management of Bhowra OCP, E.J. Area of M/s. BCCI. and their workmen.

#### APPEARANCES:

On behalf of the workman : None

On behalf of the employers : Mr. U. N. Lal, Ld. Advocate

State : Jharkhand

Industry : Coal

Dated, Dhanbad, 3rd April, 2012

#### AWARD

The Government of India, Ministry of Labour, in exercise of the powers conferred on them under Section 10 (1) (d) of the I.D. Act, 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide their Order No. L-20012/152/02-IR (C-I) dated the 7-10-2002.

#### SCHEDULE

"Whether the action of the management of BCCL Bhowra OCP in not giving Smt. Kapura Rajwarin Wagon Loader, the benefit of VRS (F) is just and fair ? If not, to what relief is the concerned workman or her dependent entitled ?"

2. None represented the Union/workman Kapura Rajwarin, the Wagon Loader nor witness for the evidence of the workman produced. Mr. U. N. Lal, the Ld. Advocate for the management is present.

Pursued the case record, It stands evident that despite three Regd. notices dt. 10-2-2011, 20-4-2011 (Show Cause) and 6-2-2012 issued to the Branch Secretary of the Union concerned on its address as noted in the reference as well as the last chance for the evidence of the workman, no witness for the evidence of the workman has been produced in this case which has been pending for evidence of the workman since 8-9-2004. The conduct of the Union/workman shows that they are not interested to contest the case which is related to her claim for the benefits of her V.R.S. (F). Under these circumstances the case is closed as non-existent of Industrial dispute and accordingly an order is passed.

KISHORI RAM, Presiding Officer

नई दिल्ली, 11 जून, 2012

का.आ. 2281.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार मै. बी.सी.सी. एल. के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-II, धनबाद के पंचाट (संदर्भ संख्या 50/2003) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 8-6-2012 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-20012/26/2003 आई आर (सी-1)]

रमेश सिंह, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 11th June, 2012

**S. O. 2281.**—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No.50/2003) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court-II, Dhanbad as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of M/s. B.C.C. L. and their workmen, which was received by the Central Government on 8-6-2012.

[No. L-20012/26/2003-IR (C-I)]

RAMESH SINGH, Desk Officer

#### ANNEXURE

#### BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) AT DHANBAD

**PRESENT : Shri KISHORI RAM, Presiding Officer**

In the matter of an Industrial Dispute under Section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947.

#### REFERENCE NO. 50 OF 2003

**Parties :** Employer in relation to the management of Ghanudih Colliery of Bastacolla Area under M/s. BCCL and their workmen.

#### Appearances:

On behalf of the workman : Mr. N.G. Arun, Rep. of Workman.

On behalf of the employer : Mr. U.N. Lal, Ld. Advocate  
State : Jharkhand Industry : Coal

Dated, Dhanbad, the 3rd April, 2012

#### AWARD

The Government of India, Ministry of Labour, in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication *vide* their Order No. L-20012/26/2003/IR(C-I) dated 27-6-2003.

#### SCHEDULE

"Whether the demand of the RCMS from the management of BCCL, Ghanodih Colliery of Bastacolla Area for regularising Shri Harish Chandra, General Mazdoor as Cap Lamp Issue Clerk is justified? If so, to what relief is the workman entitled and from what date?"

2. Neither Mr. N.G. Arun, Rep. of the Union/workman appeared but Mr. U.N. Lal, the Learned Advocate for the Management is present.

After going through the case record, I find that the case has been pending for the evidence of the Management since 6-9-2006 after the closure of the evidence of the workman on 25-4-2006. It is also clear from the case record that the workman by filing a petition on 6-2-2012 as already

submitted that he has been regularised as the clerk (Attendance Clerk) at Ghanudih Colliery of Bastacolla Area w.e.f. 18-4-2009 as per the office order dated 3/6-7-2009, so he wanted to withdraw the case.

In view of the aforesaid facts, the Union/workman Harish Chandra has left the case, as he has been regularised as the clerk w.e.f. 18-4-2009. In the result the case is closed/disposed of as non-existent of any Industrial Dispute for his regularisation, and accordingly an order is passed.

KISHORI RAM, Presiding Officer

नई दिल्ली, 11 जून, 2012

**का.आ. 2282.**—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार मै. सी.सी.एल. के प्रबंधन के संबंध में नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय II, धनबाद के पंचाट (संदर्भ संख्या 188/1999) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 8-6-2012 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-20012/396/2005 आई आर (सी-1)]

रमेश सिंह, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 11th June, 2012

**S. O. 2282.**—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No.188/1999) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court-II, Dhanbad as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of M/s. C.C. L. and their workmen, which was received by the Central Government on 8-6-2012.

[No. L-20012/396/2005-IR (C-I)]

RAMESH SINGH, Desk Officer

#### ANNEXURE

#### BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) AT DHANBAD

**PRESENT : Shri KISHORI RAM, Presiding Officer**

In the matter of an Industrial Dispute under Section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947.

#### REFERENCE NO. 188 OF 1999

**Parties :** Employers in relation to the management of Govindpur Project of M/s. CCL and their workmen.

#### Appearances:

On behalf of the workman : Mr. D. Mukherjee, Ld. Advocate;

On behalf of the employer : D.K. Verma, Ld. Advocate;  
State : Jharkhand Industry : Coal

Dated, Dhanbad, the 19th April, 2012

**AWARD**

The Government of India, Ministry of Labour, in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication *vide* their Order No. L-20012/396/98/IR(C-I) dated 17-4-1999

**SCHEDULE**

"Whether the demand of the Union for regularisation of S/Sri Meghlal Mahato and Manbodh Mahto as Munshi and payment of difference of wages with retrospective effect from the management of Govindpur Project, M/s. CCL, P.O.: Bokaro Thermal, Distt. Bokaro is justified? If so, to what relief the concerned workman are entitled and from which date?"

2. Neither M. D. Mukherjee, the Representative of the Union/workman Meghlal Mahato and one other appeared nor any workman's witness produced for evidence. Mr. D.K. Verma Ld. Advocate for the management is present.

Pursued the case record, I find that the evidence of the workman was previously closed on 14-12-2005 for the failure of the production of any witness on behalf of the workman pending since 1-12-2004. Thereafter on the petition of the Union concerned for recall of the aforesaid order dated 14-12-2005 was allowed on 15-6-2006 for the evidence of the workman, for which since then it has been pending. Moreover despite three Regd. notices dated 20-10-2010, 23-3-2011 and 23-2-2012 the Union Representative failed to produce any witness for the evidence of the workman. Under these circumstance the proceeding with the oldest case of the year 1999 is wastage of time and energy of the Tribunal for infinity. For the reason of unwillingness of the Union Representative concerned/workman, the case is closed, and accordingly order of no dispute is passed.

KISHORI RAM, Presiding Officer

नई दिल्ली, 11 जून, 2012

का.आ. 2283.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार मै. बी.सी.सी. एल के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय II, धनबाद के पंचाट (संदर्भ संख्या 143/2001) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 8-6-2012 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-20012/33/2001-आई आर (सी-1)]

रमेश सिंह, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 11th June, 2012

S. O. 2283.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No.143/2001) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court-II, Dhanbad as shown in the Annexure in the Industrial

Dispute between the employers in relation to the management of M/s. B.C.C. L. and their workmen, which was received by the Central Government on 8-6-2012.

[No. L-20012/33/2001-IR(C-I)]

RAMESH SINGH, Desk Officer

**ANNEXURE**

**BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT  
INDUSTRIAL TRIBUNAL NO.2 AT DHANBAD**

**PRESENT : Shri KISHORI RAM, Presiding Officer**

In the matter of an Industrial Dispute under Section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947.

**REFERENCE NO. 143 OF 2001**

**Parties :** Employers in relation to the management of Nichitpur Colliery of Sijua Area under M/s. BCCL and their workmen.

**Appearances:**

On behalf of the workman : Mr. N.G. Arun, Rep. of Union Workman.

On behalf of the employer : Mr. D.K. Verma, Ld. Advocate

State : Jharkhand Industry : Coal

Dated, Dhanbad, the 17th April, 2012

**AWARD**

The Government of India, Ministry of Labour, in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication *vide* their Order No. L-20012/33/2001/IR(C-I) dated 30-4-2001.

**SCHEDULE**

"Whether the demand of the RCMS for the placement of Sh. Ramanuj Upadhyay, Nichitpur Colliery in Excavation Gr. E. is justified? If so, to what relief is the workman entitled and from what date?"

2. Mr. N.G. Arun, the Union Representative neither appeared to represent the workman Ramanuj Upadhyay nor any witness produced for the evidence of the workman. Dr. D.K. Verma, the Learned Advocate for the management is present.

After going through the case record, I find that the case has been pending for further examination of the workman as W.W. 1 since 19-3-2008 but since then in spite of giving several opportunities and Regd. Notices dated 29-10-2010, 8-11-2011 and Show Cause dated 17-1-2012, the Union Representative failed to produce the workman as witness for further examination in chief. In this way the clear cut conduct of the Union Representative as well as of the workman shows that they are not interested to pursue with the case for its final adjudication. Therefore proceeding

with the case for infinity is like carrying the burden of much eldest case of the year 2001 which will turn out nothing except wastage of time and energy of the tribunal. The case is closed and accordingly the order is passed as non-existent of Industrial dispute at present.

KISHORI RAM, Presiding Officer

नई दिल्ली, 11 जून, 2012

**का.आ. 2284.**—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार मै. बी.सी.सी. एल. के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय-II, धनबाद के पंचाट (संदर्भ संख्या 34/2006) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 8-6-2012 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-20012/162/2005-आई आर (सी-1)]

रमेश सिंह डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 11th June, 2012

**S. O. 2284.**—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No.34/2006) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court-II, Dhanbad as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of M/s. B.C.C. L. and their workmen, which was received by the Central Government on 8-6-2012.

[No. L-20012/162/2005-IR (C-I)]

RAMESH SINGH, Desk Officer

#### ANNEXURE

#### BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2 AT DHANBAD

**PRESENT: Shri KISHORI RAM, Presiding Officer**

In the matter of an Industrial Dispute under Section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947.

#### REFERENCE NO. 34 OF 2006

**Parties:** Employers in relation to the management of Govindpur Area III of M/s. BCCL and their workmen.

#### Appearances:

On behalf of the workman: Mr. N.G. Arun, Rep. of Workman.

On behalf of the employer: Mr. U. N. Lal Ld. Advocate  
State: Jharkhand Industry: Coal

Dated, Dhanbad, the 17th April, 2012

#### AWARD

The Government of India, Ministry of Labour, in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 has referred the following

dispute to this Tribunal for adjudication *vide* their Order No. L-20012/162/2005/IR(C-M) dated 1-6-2006.

#### SCHEDULE

“Whether the action of the management to dismiss Shri Fulu Das, Miner/Loader of Block-IV under Govindpur Area-III of M/s BCCL from service w.e.f. 10-8-2004 is fair, justified? If not to what relief is Shri Fulu Das entitled?”

2. Neither Mr. N.G. Arun, the Representative of the Union concerned for the workman— Fulu Das represented in nor written statement filed on his behalf despite three Regd. Notices issued to the Organisation Secretary of the Union concerned on its address as noted in the Reference. But Mr. U.N. Lal, the Ld. Advocate for the management is present.

From the persual of the case record, it stands clear that the case has been all along pending for filing written statement on behalf of the workman since 27-12-2007. for which several notices were issued in the year 2007 to 2008 as evident from the case record. As such the conduct of the Union Representative as well as that of the workman clearly indicates that they are not interested to contest the case of the dismissal of the workman. Under these circumstances, it stands no reason to proceed with the case for infinity. Hence the case is closed as non-existent of the industrial dispute, and accordingly, an order of no dispute is passed.

KISHORI RAM, Presiding Officer

नई दिल्ली, 11 जून, 2012

**का.आ. 2285.**—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार मै. बी.सी.सी. एल. के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय-II, धनबाद के पंचाट (संदर्भ संख्या 50/2006) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 8-6-2012 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-20012/34/2006-आई आर (सी-1)]

रमेश सिंह, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 11th June, 2012

**S. O. 2285.**—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 50/2006) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court-II, Dhanbad as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of M/s. B.C.C. L. and their workmen, which was received by the Central Government on 8-6-2012.

[No. L-20012/34/2006-IR (C-I)]

RAMESH SINGH, Desk Officer

**ANNEXURE**  
**BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT**  
**INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO.2) AT DHANBAD**

**PRESENT; Shri KISHORI RAM, Presiding Officer**

In the matter of an Industrial Dispute under Section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947.

**REFERENCE NO. 50 OF 2001**

**Parties:** Employer in relation to the management of Katras Area of M/s. B.C.C. Ltd.

**Appearances:**

On behalf of the workman : None

On behalf of the employer : Mr. D. K. Verma, Advocate

State : Jharkhand Industry : Coal

Dated, Dhanbad, the 19th March, 2012

**ORDER**

The Government of India, Ministry of Labour, in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication, *vide* their Order No. L-20012/34/2006/IR(CM-I) dated 10th July, 2006.

**SCHEDULE**

"Whether the demand of the Coal Mines Engineering Workers Association from the management of BCCL, Katras Area-I that Sh. Rajendra Singh and six others (as per list) be promoted as 'foremen' on completion of 4 years service as excv. Sr. Mechanic Cat 'A' is justified? If so, to what relief are the concerned workmen entitled and from what date?"

2. None represented either workmen or their sponsoring union. Perused the case record, I find that the case has been pending for filling Rejoinder and documents (both sides) of the workmen since 20-10-2010, for which Registered notice dated 20-10-2010 and Show Cause notices dated 29-4-2011, 16-11-2011 and 18-1-2012 were issued to their Union Representative on its address as noted the Reference. The Area President, Coal Mines Engineering Workers Association At 19 No. Bekarbandh, Dhanbad as well as to the General Manager, Katras Area-I Post-Sijua, Dhanbad. It appears that in spite of giving sufficient opportunity to both the parties even then the union representative/workman never appeared to pursue the case on account of their disinterestedness.

In view of the aforesaid facts, proceeding with the case for uncertainty is worthless and wastage of time. Therefore, the case is closed and accordingly an order of no industrial dispute existent is passed.

KISHORI RAM, Presiding Officer

**No. L-20012/34/2006-IR(CM-I)**

**List of workmen**

1. Sri Rajendra Singh
2. U. K. Nirala
3. Raghupati Prasad
4. Chandrika Prasad
5. Jallandhar Mahato
6. Ram Naresh Singh
7. Amey Prasad

नई दिल्ली, 12 जून, 2012

का.आ. 2286.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार मैसर्स डोंगरी लाईम स्टोन एवं बार्गार्ह सीमेंट वर्क्स एसीसी लिमिटेड मैसर्स प्रदान कोन्टर ऑफ डोंगरी स्टेन क्वारिज ऑफ एसीसी लिमिटेड बार्गार्ह के प्रबंधन के संबंध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/रम न्यायालय, भुवनेश्वर के पंचाट (संदर्भ संख्या 8/2008) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार का 4-6-2012 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-29012/25/2008-आई आर (एम)]  
 जोहन तोपनो, अवर सचिव

New Delhi, the 12th June, 2012

S.O. 2286.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No.8/2008) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Bhubaneswar as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of M/s. Dungri Lime Stone and Bargarh Cement works, ACC Ltd., M/s. P.N. Pradhan, Cont of Dongri Lime Stone Quarry of M/s. ACC Ltd. Bargarh and their workmen, which was received by the Central Government on 4-6-2012.

[No. L-29012/25/2008-IR (M)]  
 JOHAN TOPNO, Under Secy.

**ANNEXURE**  
**BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT**  
**INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT**  
**BHUBANESWAR**

**PRESENT : Shri J. SRIVATAVA, Presiding Officer,**  
**C.G.I.T. -cum-Labour Court, Bhubaneswar.**

**Industrial Dispute Case No. 8 of 2008**  
**Date of Passing Order-18th May, 2012**

**Between:**

The Manager (Mines), Dungri Lime Stone Quarry, B.C.W. of ACC Ltd. At/Po. Dungri, P.S. Ambabhona, Bargarh.  
 Sri R.S. Rathora Vice President, Bargarh Cement Works, ACC Ltd., At/Po. Cement Nagar, Bardel Bargarh.  
 M/s. P.N. Pradhan, contractor of Dungri Lime Stone Quarry of M/s. ACC Ltd., Bargarh Cement Works, At/Po. Dungri.  
 Dist. Bargarh-768052.

1st Party-Management.

(And)

Their workman Shri Golap Chandra Deheri,  
 At/Po. Dungri, Bargarh.

2nd Party-Workman.



**Appearances:**

Authorized Representative	For the 1st Party- Management No. 1&2
Shri R. N. Rath, Authorized Representative	For the 1st Party - Management No.3.
Shri Golap Chnadra Deheri	For the 2nd Party- Workman.

**ORDER**

Case taken up today before Lok Adalat. Authorized representatives for the 1st Party- Management No. 1&2 and 1st Party- Management No. 3 i.e. the contractor are present. The 2nd Party-workman is also present in person.

2. A settlement between the 1st Party-Management No. 3 M/s. P.N. Pradhan, Contractor of Dungri Lime Stone Quarry of M/s. ACC Limited and the 2nd Party-workman Shri Golap Chandra Deheri has already been Today a receipt in proof of payment of compensation through cheque in terms of settlement has been filed on behalf of the 2nd Party-workman. Hence the dispute is finally settled.

3. The reference is accordingly decided as per terms of settlement in Form-H by the above parties which shall form part of this order. The 1st Party-Management No. 1 and 2 are in no way concerned with the dispute as per schedule of reference.

J. SRIVASTAVA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 12 जून, 2012

**का.आ. 2287.**—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार मैसर्स अविनास इन्टरप्राइजेस ठेकेदार डोंगरी लाईम स्टोन क्वारीस आफ मैसर्स ए सी सी लिमिटेड बरगड के प्रबंधन के संबंध में नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय, भुवनेश्वर के पंचाट (संदर्भ संख्या 11/2008) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 4-6-2012 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-29012/28/2008-आई आर (सीएम)]

जोहन तोपनो, अवर सचिव

New Delhi, the 12th June, 2012

**S. O. 2287.**—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 11/2008) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Dhanbad as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the management of M/s Avaneesh Enterprises Cont of Dungri Lime Stone Quarry of M/s. ACC Ltd Bargarh and their workmen, received by the Central Government on 4-6-2012.

[No. L-29012/28/2008-IR (CM)]

JOHAN TOPNO, Under Secy.

**ANNEXURE**

**BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT  
INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT,  
BHUBANESWAR**

**PRESENT.**

**Shri J. Srivastava,  
Presiding Officer, C.G. I.T. -cum-Labour  
Court, Bhubaneswar.**

**Industrial Dispute Case No. 11 of 2008**

**Date of Passing Order-18th May, 2012**

**Between:**

The Proprietor, M/s. Avaneesh Enterprises,  
Contractor of Dungri Lime Stone Quarry of  
M/s. ACC Ltd., Bargarh Cement Work.  
At/Po Dungri, Bargarh- 768052.

1st Party-Managements.

(And)

Their workman represented through the  
General Secretary, Dungri Khani Mazdoor Sangh,  
At/Po. Dungri Dist. Bargarh.

2nd Party-Union.

**Appearances:**

Shri R. N. Rath, Authorized Representative	For the 1st Party- Management
Shri Dukhisyam Pandey.	For the disputant Workman.

**ORDER**

Case taken up today before Lok Adalat. Authorized representative for the 1st Party- Management No. 2 I.E. M/s. Avaneesh Enterprises, Contractor of ACC Cement and the disputant workman himself are present.

2. A settlement in Form-H has been filed by the above parties. Full and final payment as per settlement has been made by the contractor to the disputant -workman and the photostat copy of receipt of the disputant workman has also been filed. In view of the settlement filed in Form-H the reference is decided accordingly. The settlement in from-H shall form part of this order.

J. SRIVASTAVA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 12 जून, 2012

**का.आ. 2288.**—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार मैसर्स भारत पेट्रोलियम कौरपोरेशन लिमिटेड बेरमपुर डिपो लंगीपली भुवनेश्वर के प्रबंधन के संबंध में नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय, भुवनेश्वर के पंचाट (संदर्भ संख्या 26/2011) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 1-6-2012 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-30011/34/2010 आई आर (सीएम)]

जोहन तोपनो, अवर सचिव

New Delhi, the 12th June, 2012

**S. O. 2288.**—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No.26/2011)

2272 GI/12-24

of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Dhanbad as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the management of M/s B.P.C. L, Berhampur Depot, Langipalli, (Bhubaneswar) and their workmen, received by the Central Government on 1-6-2012.

[No. L-30011/34/2010-IR (CM)]

JOHAN TOPNO, Under Secy.

#### ANNEXURE

#### BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, BHUBANESWAR

#### PRESENT.

Shri J. Srivastava,  
Presiding Officer, C.G. I.T. -cum-Labour  
Court, Bhubaneswar.

Industrial Dispute Case No. 26 of 2008

Date of Passing Order-4th May, 2012

#### Between:

The Depot In-charge,  
B.P.C.L. Berhampur Depot,  
Langipalli, Goods Shed Road Po. Berhampur,  
Ganjam.

1st Party-Management.

And)

Their workman represented through the  
General Secretary, Bharat Petroleum Corporation  
Limited Employees Union (ER), Gold Green, 31  
KIT Scheme, 118, Prince Gulam Md. Saha Road,  
Kolkata-95

2nd Party-Union.

#### Appearances:

None.	For the 1st Party- Management
None.	For the 2nd Party- Union.

#### AWARD

An industrial dispute to the following effect :

“Whether the termination of workmen S/Shri Ganapati Murti, Babal Das, Jharia Das and Rama Rao, daily wage casual workmen by the management of BPCL, Berhampur w.e.f. 1-10-2008 is legal and /or justified? what relief the workmen are entitled to?”

has been referred to this Tribunal for adjudication by the Government of India in the Ministry of Labour in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 vide letter No. L-30011/34/2010-IR(M), dated 26-04-2011.

2. 2nd Party-Union espousing the cause of the workmen has sent statement of claim through post alleging that the management of BPCL at Berhampur Depot had

recruited casual workers by calling the names of candidates seeking employment for the position of General Operatives (casuals) at the depot from the National Employment Exchange, Berhampur, Dist. Ganjam and going through the selection process by way of written test, interview and medical examination like those of permanent workers. The disputant workmen had also gone through the above process and were engaged as causal labourers in the year 1990 initially for a short period against absenteeism and thereafter on regular basis for years together. They were engaged on every day including Sundays, but on the attendance register their presence were not shown on Sundays. This was done to escape the time limit of 240 days to avoid permanency. These causal workers were also paid bonus every year, but they were not covered under the Employees Provident Fund & Employees State Insurance Schemes and no benefits were extended to them. The management of BPCL after engaging the casual labourers for years together against permanent vacancy terminated their services with effect from 1-10-2008 without serving any notice or paying any compensation under section 25-F of the Industrial Disputes Act. The 2nd Party-Union has prayed that these workmen should be given permanent employment under the management as the action of the management is malafide and in contravention of the established principles of law and natural justice.

3. The 1st Party-Management despite appearing in the case and filing interim reply did not file any written statement even after having afforded sufficient opportunity. Hence the case was ordered to proceed ex parte against it by order dated 29-2-2012 and consequently was fixed for ex parte evidence of the 2nd Party-Union.

4. The 2nd Party-Union since the date of receipt of the reference from the Government i.e. 16-5-2011, has not put in appearance in this Tribunal either through the General Secretary of the Union or any of its office bearers duly authorized, though several notices through ordinary and registered post were sent to it. Thus the 2nd Party-Union failed to adduce any evidence in support of its claim. Therefore the case is being decided without any evidence from the side of the 2nd Party-Union.

5. The dispute in question is whether the termination of workmen S/Shri Ganapati Murti, Babla Das, Jharia Das, and Rama Rao daily wage casual workmen by the management of BPCL, Berhampur w.e.f. 1-10-2008 is legal and/or justified. The 2nd Party-Union has asserted that the disputant workmen had served the 1st Party-Management nearly for 15 years as causal workers on daily wage basis and thereafter on “self employed contract of wagon unloading” said to be a sham and bogus contract in the eye of law. The burden to prove all these assertions lies on the 2nd Party-Union/disputant workmen, but they have not adduced any evidence in support of these assertions. As such their assertions stand only as assertions and

cannot be taken as true for want of evidence. Even no documentary evidence has been filed to show and prove that they were given employment by the 1st Party-Management as alleged by the 2nd Party-Union and they were discontinued from work from the date so alleged by them. The unproved documents have no evidentiary value. Admittedly their status as a workman is casual in nature and payment of wages is said to have been made to them on daily wage basis. It has not been specifically pleaded as to when their engagement under the 1st Party-Management started and continued up to which date and they had worked continuously for 240 days in a period of 12 calendar months preceding the date of their termination. Unless this fact is proved, no benefit under Section 25-F of the Industrial Disputes Act, 1947 can be allowed to them. The Union has simply espoused the cause of the disputant workmen but miserably failed to make out a case and lead evidence in support of their claim. Therefore, this Tribunal is constrained to hold that the disputant workmen's alleged termination from job under the 1st Party-Management is not illegal and unjustified and the workmen are not entitled to any relief or claim made in this regard.

6. The reference is answered accordingly.

J. SRIVASTAVA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 12 जून, 2012

**का.आ. 2289.**—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार मैसर्स उडिसा माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भुवनेश्वर के प्रबंधन के संबंध निर्यातकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय, भुवनेश्वर के पंचाट (संदर्भ सं. 407/2001) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 4-6-2012 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-29011/1/2001-आई आर (एम)]

जोहन तोपनो, अवर सचिव

New Delhi, the 12th June, 2012

**S. O. 2289.**—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No.407/2001) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Bhubaneswar now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of M/s. Orissa Mining Corporation Ltd. and their workmen, which was received by the Central Government on 4-6-2012.

[No. L-29011/1/2001-IR (M)]

JOHAN TOPNO, Under Secy.

#### ANNEXURE

#### CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, BHUBANESWAR

##### Present:

Shri J. Srivastava,  
Presiding Officer, C.G. I.T.-cum-Labour  
Court, Bhubaneswar.

#### INDUSTRIAL DISPUTE CASE NO. 407/2001

Date of Passing Award - 25th May 2012

##### Between:

The General Manager,  
Orissa Mining Corporation Ltd.,  
PO. Barbil, Keonjhar-769035.

... 1st Party-Management

(And)

Their workmen represented through the  
General Secretary, Keonjhar Mines Mazdoor Union.  
Po. Guruda, Keonjhar- 758 034

... 2nd Party-Union

##### Appearances:

None. For the 1st Party-Management.

None. For the 2nd Party-Union.

#### AWARD

The Government of India in the Ministry of Labour has referred an industrial dispute existing between the employers in relation to the management of Orissa Mining Corporation Limited, the General Manager, PO. Barbil and their workman in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section 1 and sub-section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 vide their letter No. L-29011/1/2001-IR(M), dated 14-6-2011.

2. The dispute as mentioned under the Schedule is quoted below :—

"Whether the action of the management of Orissa Mining Corporation in not giving designation/fitment as per the award of Industrial Tribunal, Bhubaneswar to Sri Banabihari Pradhan and Sri Rashid Anwar as Jr. Assistant and proper fitment as per the nature of job actually done by them from 14-9-87 and further promotion as per the OMC Rules is justified? If not, what relief the workmen are entitled to?"

3. Claim statement on behalf of the workmen has been filed by the General Secretary of the 2nd Party-Union. It states that the disputant workmen are working at SGBK. Mines, At./PO. Guruda, Dist. Keonjhar under administrative control of Orissa Mining Corporation Limited. Both the workers are members of the Keonjhar Mines Mazdoor Union (AITUC) which is a registered Union. They have been discharging the duties of higher posts but getting less wages corresponding to the nature of job. Both the workmen have been designated as Statistic Assistant/Junior Time Keeper in B-Form, but actually they are performing the job of Junior Assistant/Junior Accountant. Earlier they were the employees of M/s. Sirajuddin & Company, examine owner and have now become the employees of the Orissa Mining Corporation Limited since 18-6-1982 after taking over the mines by the 1st Party-Management. Shri Banabihari Pradhan was entrusted with the work related to all matters of Accounts Section including payment of

wages, preparation of vouchers, handling cash, maintenance of cash book etc. He was also directed by Mines Manager to work as Store Keeper and P.F. In-charge for some time. He was also posted at Transport Section. After operation of Mines by the 1st Party-Management all ex-lessee employees including the disputant-workmen demanded equal status at par with direct employees as per their nature of job. When the 1st Party-Management did not consider the grievance of the workman they filed industrial dispute before the Assistant Labour Commissioner, Rourkela (C). After failure of the conciliation proceedings the Government of India referred the dispute to the Industrial Tribunal, Bhubaneswar for adjudication which passed award in I.D. Case No. 61/1987(C) in favour of the workmen. As per award of the Industrial Tribunal the disputant workmen were not placed properly in the designation of Jr. Assistant/Junior Accountant corresponding to their nature of job. They have passed matriculation examination and as per their long experience in respective job from 1982 to 1990 they should be designated in the post of Senior Assistant/Senior Accountant, but they have been posted as Time Keeper. Due to fitment in lower post both the workmen have sustained huge loss and their promotional aspects are affected. Thus the award of the Industrial Tribunal has been clearly violated by the 1st Party-Management. Md. Rasid Anwar was also engaged by the 1st Party-Management in various jobs of Accounts Section and other official work relating to statistic and costing statutory returns. After fitment in the cadre post of Junior Time Keeper, both the workmen have never been issued with any order by the 1st Party-Management to work as Junior Time Keeper. They have been continuing in the job of Jr. Assistant/Junior Accountant which they had been performing before their regularization in the cadre post. Upon moving the representations for change of their designation as Junior Assistant/Junior Accountant, the Corporate Office of the 1st party-Management issued directions to the Regional Office to constitute a committee for verification of nature of job of six persons including the disputant workman. The said committee has recommended to give designation of Junior Assistant to Shri Banabihari Pradhan and Junior Accountant to Md. Rasid Anwar. The report of the committee was sent to the Head Office for consideration. When the matter was delayed two of the six workmen filed industrial disputes before the Assistant Labour Commissioner (Central), Rourkela and on failure of the conciliation the matter was referred to the Industrial Tribunal for adjudication. The Industrial Tribunal, Rourkela passed award in I.D. Case No. 42/97(C) in favour of the workmen and accordingly the workmen involved in the case Shri Bidyadhar Mahakud was re-designated as Asst. Teacher and Shri Mitrabhanu Pradhan was re-designated as Record Keeper with corresponding pay scale as per their nature of job with effect from 14-9-1987. The disputant workmen are entitled

for the wages of Junior Assistant/Junior Accountant as per nature of their job. The present salary of Junior Assistant/Junior Accountant is higher by Rs. 1164 per month. The action of the 1st Party-Management in not granting proper designation and pay scale corresponding to the nature of work actually performed by the disputant workmen is extremely arbitrary and amounts to their exploitation and harassment. Therefore they have demanded for giving them proper designation of Junior Assistant/Junior Accountant as per actual nature of duty performed by them with corresponding pay scale and other benefits.

4. The 1st Party-Management has filed written statement alleging that the reference is not maintainable in as much as no person can claim a post unless he has requisite qualification and has been successful in the recruitment test as per the Recruitment Rules of the establishment. The disputant workmen do not possess the requisite qualification for the posts claimed and they have been regularized in the post of Junior Time Keeper in consideration of their nature of duties and qualification in accordance with the O.M.C. Recruitment & Promotion Rules, 1976 and the award passed in I.D. Case No. 61/87(C). The post of Junior Assistant belongs to the Personnel and General Service cadre requiring the minimum qualification of graduation whereas the post of Junior Accountant belongs to the Financial Service cadre and requires the minimum qualification of B. Com. Both the posts are the base posts in the respective cadre required to be filled in by direct recruitment as per the Orissa Mining Corporation (R & P) Rules. As per the direction of the Tribunal given in the aforesaid award the disputant workmen were fitted into the scales of Junior Time Keeper in keeping with their qualification, nature of job and eligibility as per Orissa Mining Corporation (Recruitment & Promotion) Rules, 1976. They were also allowed higher pay than they were getting earlier with effect from 14-9-1987. The dispute for fitment having been decided in I.D. Case No. 61/1987(C), further claim on that count is not maintainable being hit by the principles of res-judicata. After accepting the fitment in the post of Junior Time keeper for more than 10 years the workmen are stopped to raise further claim of fitment with effect from 14-9-1987. The disputant workmen Shri Banabihari Pradhan and Md. Rasid Anwar have never discharged the duties of Jr. Accountant/Junior Assistant. Posting of Shri Pradhan and Md. Rasid at various departments comes under the routine duties of Junior Time Keeper does not prove that they were assigned the job of Junior Assistant by such posting. The report of the committee being against the express provisions of the statutory rules of recruitments and promotion of the Corporation and not being in conformity with the nature of duties of the workmen as well as the records of the previous employer was rejected by order dated 24-6-1994. The promotion to the higher post cannot be claimed as a matter of right. It is always subject to the availability of the vacancy

and eligibility and suitability of the candidate determined by the Departmental Promotion Committee and requirement of the Management. The present reference is not with regard to the fitment of the workmen in the post of Junior Accountant. Hence the claim on that Post can not be gone into and the workmen are not entitled to get any relief.

5. The 2nd Party-Union through its rejoinder has submitted that they have been performing the duties of Junior Assistant/Junior Accountant from the very beginning i.e. from 18-6-1982. They have never worked at mines quarry but have been working at Manager's office dealing with personal files of the employees and statistical report of the mines. The qualification is not the sole criteria of promotion or fitment of any workmen. Both the workmen have gained a lot of experience. Hence they require fitment in the post of Junior Assistant as per their nature of job. They have all the time been complaining and objecting against the fitment as Junior Time Keeper but the Corporate Office did not consider the same inspite of favourable report of the Committee. Shri M. Poddar, Junior Time Keeper has been re-designated as Junior Assistant on the request of the Union vide office order No. 25125, dated 28th September, 1991 though he possesses the qualification of matriculation.

6. On the pleadings of the parties, following issues were framed.

#### ISSUES

1. Whether the reference is maintainable ?

2. Whether the action of the Management of Orissa Mining Corporation in not giving designation/fitment as per the award of Industrial Tribunal, Bhubaneswar, to Shri Banabihari Pradhan and Shri Rashid Anwar as Jr. Assistant and proper fitment as per the nature of job actually done by them from 14-9-1987 and further promotion as per the O.M.C. Rules is justified ?

3. If not, what relief the workmen are entitled to?

7. In order to prove its claim the 2nd Party-Union has examined W.W.-1, Shri Banabihari Pradhan and relied upon several documents marked as Ext.-1 to Ext.-22, whereas the 1st Party-Management has examined Shri S.C. Parida as M.W.-1 and relied upon five documents marked as Ext.-A to Ext.-E.

#### FINDINGS

##### ISSUE NO.1

8. The 1st Party-Management on this issue has pleaded that the industrial dispute so referred is not maintainable in as much as no person can claim a post unless he has the requisite qualification and has been successful in recruitment test as per Recruitment Rules of the establishment. But this case is not related to initial recruitment to a post. It is simply a case of merger or absorption of employees working with ex-lessee after taking over the mines by the present employer i.e. the 1st Party-

management. The claim of the disputant workmen is that they should be given fitment/designation of Junior Assistant/Junior Accountant as per nature of job they are performing according to the award passed in I.D. Case No. 61/1987 (C). The maintainability of the dispute so referred is based on the facts involved in the case and not on any point of law going to the very root of the case. Hence without going into the findings on facts and entitlement of their claim it cannot be stated at the very outset that the reference is not maintainable. The reference is not solely based on law. Hence it can safely be said that the reference is maintainable and can be brought out for redressal of grievance before a legal forum. This issue is therefore decided in the affirmative and against the 1st Party-Management.

##### ISSUE NO.2

9. The disputant workmen have come up to this Tribunal for giving proper designation/fitment as per the award given by the Industrial Tribunal, Bhubaneswar in I.D. Case No. 61/1987 (C).

10. The concluding para of the Award, which relates to the relief granted to the workmen in that case reads as follows:-

"I could only direct that these 34 2nd Party-workmen should be paid wages at the rates equivalent to the minimum pay in the corresponding junior grades available without any increment with effect from the date of the reference i.e. from 14-9-1987 with corresponding D.A. and A.D.A. as admissible to them. I would also direct that the Management of Orissa Mining Corporation would decide the question of fitment of those of the 2nd Party-workmen who have claimed equalization of wages/pay with that of the Senior Grade Accountant, Senior Grade Assistant, Mechanic, Grade-I, Wireman, Creche Nurse within three months from the date of publication of this award and allow pay scale admissible to them and pay the arrears, if any, due to them on account of such fitment".

11. In pursuance of this award it is said that the disputant workmen were Placed in the post of Junior Time Keeper with effect from 14-9-1987 with the pay scale in their corresponding Junior Grade available in Orissa Mining Corporation Limited along with usual increments, D.A. and D.P. and other allowances. The contention of the disputant workmen is that they had been discharging the duties of Statistic Assistant in the erstwhile employer's company M/s. Sirajuddin & Company and now after taking over the mines by the Orissa Mining Corporation Limited they have been entrusted with the work relating to Accounts Section besides being posted intermittently in different sections for other office works, but they were not given fitment/designation as Junior Assistant/Junior Accountant to which they are entitled, instead they were fitted in the post of Junior Time Keeper. The nature of job which they were performing entitle them to be fitted in the post of Junior Assistant/Junior Accountant. Earlier they were designated

as Statistical Assistant when they were working with M/s. Sirajuddin and Company i.e. the ex-Mine owner and this fact has not been disputed by the 1st Party-Management. The disputant workmen have filed copies of office orders Ext.-I to 5, 7 to 17, 19 and 20 which go to show that the disputant workmen were posted from time to time in different wings of the Orissa Mining Corporation and they have done least work of Time Keeper. Hence their fitment in the post of Junior Time Keeper does not seem to be befitting in accordance with their nature of job.

12. The objection of the 1st Party-Management is that the disputant workmen are matriculate, while educational qualification for the post of Junior Assistant is graduation while that of the Junior Accountant is graduation in commerce as per Orissa Mining Corporation (Recruitment and Promotion) Rules, 1976 which were subsequently amended in the year 1983. Here it is to be noted down that when the disputant workmen were fitted or designated as Junior Time Keeper, why they were entrusted with the work of other departments and why they were not paid the salary of the post to which they were posted. The post of Junior Time Keeper is just above the Class-IV post while the disputant workmen were working as Statistical Assistant from before they came under the employment of the 1st Party-Management i.e. Orissa Mining Corporation. The disputant workmen, Shri Banbihari Pradhan has deposed in his evidence as W.W.-I that "the pay scale of Statistic Assistant is not equal to the post in which I was asked to work at different times. The scale of the post for which I was asked to work was more than the scale of the post of Statistic Assistant". He has further stated that "though I have been designated as Time Keeper but I was not done the work of Time Keeper. My service has been utilized in the office for office work". He has also filed the copy of the award passed by the Presiding Officer, Industrial Tribunal, (Rourkela) in LD. Case No. 42/97 (52/94) (C) Ext.-22 in which the award was passed in favour of the workmen with the direction to absorb them in their original post with the pay scale of that post. Although M.W.-I Shri Subash Chandra Panda has stated in his evidence that "the above fitment have been made not on the basis of educational qualification of any of the employees of the erstwhile Management but such fitment has been made on the basis of the nature of work and the scale of pay they were getting under the erstwhile Management and that such fitment has been made as per the award passed in LD. (Case No.) 61/1987(C)". He has earlier stated that one Mitrabhanu Pradhan and one Shri Bidyadhar Mahakud working as Record Keeper and Teacher respectively under the erstwhile Management were designated in the same post as these posts were available under the Orissa Mining Corporation, but no post as Statistical Assistant were available under the Orissa Mining Corporation. The disputant workmen were designated and fitted into the post of Junior Time Keeper. It may be true that the post of Statistic Assistant were not available under

the Orissa Mining Corporation at the relevant time but the nature of job the disputant workmen were discharging cannot be looked down upon. I may quote few lines from the award made in I.D. Case No. 61/1987(C) which speak volume about the importance and significance of nature of job in deciding the present dispute:-

13. "I quite agree with the contention advanced on behalf of the second Party-workman that it is the nature of the duties performed by the second Party-workman that will determine the issue and not their qualification".

14. Earlier to it the Learned Presiding Officer observed in the same award that "thus considering the evidence adduced in the present proceeding before me and the contentions of the parties I would hold that the 34 second Party-workmen are entitled to wages in the regular scale of pay equivalent to the scale of pay paid to the employees of the Corporation in equivalent cadres rendering same type of work under the Corporation".

15. The Learned Presiding Officer also observed that many employees of the Corporation functioning as Junior or Senior Assistants and Accountants are under-matriculates. Even persons holding the post of Mining Foreman have read up to Class-VIII or IX without any diploma in engineering.

16. Therefore the educational qualification does not matter very much. It is the nature of job and experience which is the main criteria for deciding the dispute.

17. Placing the disputant workmen in the post of Junior Time Keeper cannot be justified as this post is a promotional post under the Orissa Mining Corporation (Recruitment & Promotion) Rules, 1997, while the disputant workmen were working as Statistical Assistant since long under the erstwhile employer and after taking over the mines by the Orissa Mining Corporation they continue to be designated as Statistic Assistant but after award passed in LD. Case No. 61/1987 (C) they were fitted/designated into the post of Junior Time Keeper which is not justified and suited according to nature of their job. They have been working in different departments in various clerical jobs and were never entrusted with the work of Time Keeper. Hence their fitment and designation as Junior Assistant is quite justified and deserving as per their nature of job. Accordingly the action of the 1st Party-Management in not giving designation/fitment to the disputant workmen Shri Banbihari Pradhan and Shri Rasid Anwar as Junior Assistant as per award of the Industrial Tribunal, Bhubaneswar cannot be held to be justified. Hence they shall be fitted/designated as Junior Assistant with effect from 14-9-1987 with corresponding D.A. and A.D.A. as admissible to them from time to time. After their fitment in the post of Junior Assistant with effect from 14-9-1987 further promotion as per Orissa Mining Corporation (Recruitment & Promotion) Rules will be allowed to the disputant workmen subject to their suitability. This issue is accordingly decided in favour of the 2nd Party-Union

## ISSUE NO. 3

18. As per conclusions arrived at under Issue No.2 Shri Banbihari Pradhan and Shri Rasid Anwar are entitled to get fitment/designation as Junior Assistant with effect from 14-9-1987 with all allowances admissible to them under the Rules along with consequential benefits including promotion.

19. Accordingly the 1st Party-Management is directed to give designation/fitment to Shri Banbihari Pradhan and Rasid Anwar as Junior Assistant with effect from 14-9-1987 with the arrears of pay and allowances from the above date within three months from the date of publication of the award. The above said two employees will also be eligible for promotion subject to their suitability and fitness.

20. Reference is answered accordingly.

J. SRIVASTAVA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 12 जून, 2012

**का.आ. 2290.**—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार मैसर्स चीफ एक्सीक्यूटिव माइन्स एफ ए सी ओ आर, भुवनेश्वर के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय, भुवनेश्वर के पंचाट (संदर्भ संख्या 117/2001) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 4-6-2012 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-29011/40/96-आई आर (एम)]

जोहन तोपनो, अवर सचिव

New Delhi, the 12th June, 2012

**S. O. 2290.**—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 117/2001) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Court, Bhubaneswar now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of M/s. Chief Executive (Mines) FACOR (Bhubaneswar) and their workmen, which was received by the Central Government on 4-6-2012.

[No. L-29011/40/96-IR (M)]

JOHAN TOPNO, Under Secy.

## ANNEXURE

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-  
CUM-LABOUR COURT, BHUBANESWAR

## Present:

Shri J. Srivastava,  
Presiding Officer, C.G. I.T.-cum-Labour  
Court, Bhubaneswar.

**Tr. Industrial Dispute Case No. 117/2001**

**Date of Passing Order - 18th May, 2012**

## Between:

The Chief Executive (Mines),  
FACOR, Kuans, Bhadrak.

... 1st Party-Management

(And)

Their workmen represented through the  
General Secretary, Chrome Zone Employees  
Union, PO. Soso, Dist. Keonjhar.

... 2nd Party-Union

## Appearances:

Shri P. K. Sahu, ... For the 1st Party  
Authorized Representative. Management.

Shri A. K. Rout ... For the 2nd Party  
General Secretary. Union

## ORDER

In this case during the pendency of restoration application settlements in Form-H have been filed separately in respect of all 11 workmen which were entered into between the 1st Party-Management and the disputant-workmen. The General Secretary of the 2nd Party-Union has further moved a petition on 28-3-2012 that the workmen have settled their dispute out of the court amicably and received their legitimate dues in full and final settlement of the claim. They have no further dispute in the matter. As such no dispute award be passed. A joint application on behalf of both the parties have also been filed to the same effect on the above date.

2. The settlements in Form-H arrived at between the 1st Party-Management and the 11 workmen involved in the reference are available on the record, which are duly signed by the Director of Mines and the concerned workman. It has also been mentioned therein that the workmen have received the agreed sum in full and final settlement of their claims and have signed separate receipts.

3. In view of the settlements arrived at between the parties and filed in Form-H in the court there remains no dispute to be adjudicated upon. Hence no dispute award is passed in terms of settlements in Form-H which shall form part of this order.

J. SRIVASTAVA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 12 जून, 2012

**का.आ. 2291.**—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार मैसर्स भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एवं मैसर्स दीपक इंजीनियरिंग वर्क्स, भुवनेश्वर के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय, भुवनेश्वर के पंचाट (संदर्भ संख्या 433/2001) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 4-6-2012 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-11011/10/2001-आई आर (एम)]

जोहन तोपनो, अवर सचिव

New Delhi, the 12th June, 2012

**S.O. 2291.**—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 433/2001)

of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Bhubaneswar now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of M/s. Airport Authority of India and M/s. Deepak Engineering Workers (Bhubaneswar) and their workmen, which was received by the Central Government on 4-6-2012.

[No. L-11011/10/2001-IR (M)]

JOHAN TOPNO, Under Secy.

#### ANNEXURE

#### CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL- CUM-LABOUR, COURT BHUBANESWAR

##### Present:

Shri J. Srivastava,  
Presiding Officer, C.G. I.T.-cum-Labour Court,  
Bhubaneswar.

**Industrial Dispute Case No. 433/2001**

Date of Passing Award - 16th May, 2012

##### Between:

The Director,  
Airport Authority of India,  
Biju Pattnaik Airport,  
Bhubaneswar, Orissa - 751 009.

M/s. Deepak Engineering Workers,  
C/o Ajay Kar, Plot No. 252/A,  
B.J. B. Nagar, Lewis Road, Bhubaneswar

... 1st Party-Managements

(And)

Their workmen represented through the  
General Secretary, Biju Pattnaik Bimana  
Bandar Thika Mazdoor Sangh, Plot No. 219/A,  
Mancheswar Industrial Estate,  
Bhubaneswar (Orissa) - 751 010

... 2nd Party-Union

##### Appearances:

None ... For the 1st Party-Managements.

None ... For the 2nd Party-Union.

#### AWARD

The Government of India in the Ministry of Labour has referred an industrial dispute existing between the management of Airport Authority of India, M/s. Deepak Engineering Workers, The Director, Biju Pattnaik Airport, C/o Ajay Kar, Plot No. 252/A, B.J.B. Nagar, Lewis Road, and their workman in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 vide their letter No. L-11011/10/2001-IR (M), dated 20-12-2001 with respect to following matter:

“Whether the action of M/s. Deepak Engineering Works by terminating the services of Shri Mahendra Ku. Pradhan, Sri Haladhar Basantia and Shri Rajkishore Parida after serving two years of

continuous service in the same nature of job/field is justified? If not, what relief the workmen are entitled to?”

2. The authorized representative on behalf of the 2nd Party-Union has filed the statement of claim alleging that the workman S/Shri Mahendra Kumar Pradhan, Haladhar Basantia and Rajkishore Parida had been working in the Biju Pattnaik Airport, Bhubaneswar through M/s. Deepak Engineering Works since 1998 as Pump Operators. Their services were of continuous and permanent nature and they were discharging their duties without any interruption. Despite rendering services to their full capacity and full satisfaction of the 1st Party-Management they were not paid adequate wages and other consequential benefits. No deductions towards E.P.F. and E.S.I. were made from their wages. When the lapses of such a grave and serious nature were brought to the notice of the Management and the principal employer they were threatened to be driven out of the employment. Thereupon they approached Assistant Labour Commissioner (Central-II), Bhubaneswar on 7-9-2000 for immediate intervention. When the matter was admitted for conciliation, the management retrenched them without taking approval from the conciliation officer and they were refused employment on 26-9-2000 on the ground of having no electrical license which is contrary to C.P.W.D. Manual and in violation of Section 33 (2)(b) and Section 25-F and 25-G of the Industrial Disputes Act. But when the management having given assurance to engage them in place of new incumbents in the semi-skilled category and they were not taken back, the workmen again approached the Asst. Labour Commissioner (Central-II), Bhubaneswar regarding non-implementation of assurance given by the management and demanded reinstatement with full back wages. Subsequently the 1st Party-Management re-engaged them in Sept., 2001 as Pump Operator but did not pay wages for the period from 26-9-2000 to 31-8-2001. Therefore, they are entitled for wages from 26-9-2000 to 31-8-2001 when they remained out of employment.

3. The 1st Party-Management No.1 in its written statement has stated that the workers employed by the contractor are not the employees of the Airport Authority of India. The Airport Authority of India is only engaging the contractor to perform the contractual work and it has no direct control over the contract labour. The appointing authority of the labour being the contractor, the Airport Authority of India has no role in appointing or driving out any labour. Hence the proceeding against the Airport Authority of India may be dropped.

4. The 1st Party-Management No.2 has stated that the reference is bad in law and not maintainable as the disputant workmen were never employed by it. As such they are not the 'workmen' under Section 2(s) of the Industrial Disputes Act, 1947 and no relationship of master and servant exists between them. The 1st Party-



Management No.2 had taken up some job on contract basis in Biju Pattnaik Airport, Bhubaneswar under Management No.1 which is bound down under the terms of contract. Engagement of contract labourers by the contractor is subject to availability of work and their engagement is co-terminus either with the completion of work or with the expiry of the contract. The contract labourers do not acquire any right to continue for unlimited period. In the instant case the contract was for one year each in two spells. The last contract was from Sept., 2000 to August, 2001. The disputant workmen were never employed by the 1st Party-Management No.2. Hence they do not come within the definition of 'workmen'. When there was no employment of the 2nd Party-workmen under the 1st Party-Management No.2 the question of refusal of employment does not arise. Their contention that they have been re-engaged in the month of Sept., 2001 and they should be paid wages from 26-9-2000 to 31-8-2001 is vague. Considering the above facts and circumstances the workmen are not entitled to any relief.

5. The learned predecessor has framed the following issues for adjudication.

#### ISSUES

1. Whether the reference is maintainable ?
2. Whether the action of M/s. Deepak Engineering Works by terminating the services of Shri Mahendra Kumar Pradhan, Shri Haladhar Basantia & Shri Rajkishore Parida after serving two years of continuous service in the same nature of job/field is justified ?
3. If not, what relief the workmen are entitled to ?
6. The case was set exparte against the 1st Party-Management No.1 and 2 several times and it now stands so.
7. The 2nd Party-Union after having taken several adjournments and also allowing several opportunities by the Tribunal itself could not adduce any evidence in support of its case. Hence the case stands on no evidence and it is being decided as such.
8. As has been stated above no evidence from the side of either of the parties has come to support their respective contentions as raised in their pleadings, hence they remained unsubstantiated or unproved. Since the case is proceeding exparte against the 1st Party-Management No.1 and 2 there is no need to deal with the case issue-wise.
9. The maintainability of the reference is itself established from the pleadings of the 2nd Party-Union that the disputant-workmen had been working in the Biju Pattnaik Airport, Bhubaneswar through M/s. Deepak Engineering Works. Therefore M/s. Deepak Engineering Works i.e. the 1st Party-Management No.2 is their employee who in reply denies their status of workman. Although there is no evidentiary proof either in shape of oral or documentary to hold that the disputant workmen were working in the Biju Pattnaik Airport, Bhubaneswar through

M/s. Deepak Engineering work, yet the pleadings of the 1st Party-Management No.1 and the conciliation proceedings which took place before the Assistant Labour Commissioner (Central), Bhubaneswar go to show that there was some dispute regarding their employment and payment of wages against the 1st Party-Management No.1 and 2. However pleadings of the parties cannot take shape of proof and cannot justify the truthfulness of their contention. The party who alleges certain facts in their favour has to prove them by unflinching and reliable evidence. Here in this case the 2nd Party-Union has not adduced any evidence nothing to say of reliable and unflinching piece of evidence.

10. First of all the disputant workmen or their union contesting the case on their behalf have to prove that they were employed by the 1st Party-Management No.2, M/s. Deepak Engineering Works and placed under the Management of Biju Pattnaik Airport, Bhubaneswar to work as Pump Operators. There is no evidence on this point. There is also no evidence on the point that the disputant workmen had worked for two years continuously in the same nature of job as contractor workers under M/s. Deepak Engineering Works and they were terminated after serving for two years without complying the statutory provisions of law. When the evidence on these material points is lacking and the disputant workmen had failed to bring out any evidence on record, they cannot be said to have any right or title for their claim. It appears from the averments made in the statement of claim that they have been re-engaged by the 1st Party-Management No.1 to work as Pump Operators in the month of Sept., 2001. Hence no dispute remains in existence to be adjudicated upon in this respect. The only dispute seems to be pending is with regard to non-payment of wages from 26-9-2000 to 31-8-2001 when they remained out of employment. Apparently when they were not in employment during the aforesaid period they cannot be paid any wages. Therefore their claim for payment of alleged outstanding wages does not seem to be justified and cannot be granted.

11. In the result the disputant workmen are not entitled to any relief claimed for.

12. Reference is answered accordingly.

J. SRIVASTAVA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 13 जून, 2012

का.आ. 2792.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार मैसर्स मैगनीज ओर इंडिया लिमिटेड के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में विनिर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय, नागपुर के पंचाट (संदर्भ सं.89/2006) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 1-6-2012 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-27012/8/96-आई आर (एम)]

जोहन तोपनो, अवर सचिव

New Delhi, the 13th June, 2012

**S. O. 2292.**—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No.89/2006) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Nagpur now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of M/s. Manganese Ore (India) Ltd. (Nagpur) and their workmen, which was received by the Central Government on 1-6-2012.

[No. L-27012/8/96-IR (M)]

JOHAN TOPNO, Under Secy.

#### ANNEXURE

**BEFORE SHRI J.P.CHAND, PRESIDING OFFICER,  
CGIT-CUM-LABOUR COURT, NAGPUR**

Case No. CGIT/NGP/89/2006 Date: 4-5-2012.

#### Party No.1

The Chariman -cum - Managing Director,  
M.O.I.L. 3 Mount Road Ext., Sadar,  
Nagpur 440001.

#### Versus

#### Party No.2

The General Secretary,  
Bhartiya Manganese Mazdoor Sangh,  
At. Chikla, Chikla Jod Sarak, Tal. Tumsar  
Distt. Bhandara. (MS)

#### AWARD

(Dated: 4th May, 2012)

In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) and sub-section 2(A) of Section 10 of Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) ("the Act" in short), the Central Government had referred the industrial dispute between the employers, in relation to the management of M.O.I. L. and applicant, Shri Amarkanth Tukaram Sonwane, for adjudication, to CG IT-cum-Labour Court No.1, Bombay, as per letter No.L-27012/8/96-IR (Misc.) dated 13-11-1996, with the following schedule:—

"Whether the action of the management of Manganese Ore (India) Ltd, Nagpur, in denying suitable employment to Shri Amarkanth S/o. Late Tikaram Tukaram Sonwane, a Lohar in Chikla Mines of Manganese Ore (India) Ltd. is justified? If not, to what relief the workman is entitled?"

Subsequently, the case was transferred to this Tribunal for adjudication in accordance with law.

2. On receipt of the reference, the parties were noticed to file their respective statement of claim and written statement in response to which, the union, "Bhartiya Manganese Mazdoor Sangh (BMS)," ("the union" in short) filed the statement of claim on behalf of the applicant, Shri Amarkanth Tukaram Sonwane, ("the applicant" in short) and the management of the M.O.I.L. ("Party No.1" in short) filed its written statement.

The case of the applicant as projected by the union in the statement of claim is that Late Teekaram, the father of the applicant was a permanent employee of party no.1 and

he was working as "Hammer man" in Chikhla Mine in Bhandara district and while he was in service of party no.1, on 16-7-1988, he died due to illness and at the time of the death of his father, the applicant had already aged about 12 years, his date of birth being 3-9-1976 and mother and maternal grandmother of the applicant has predeceased his father and there was a settlement dated 1-9-1979 under section 12 (3) of the Act, between the party no.1 and the union and there was provision in the said agreement for providing employment to one of the dependents of an employee, in case of the death of the employee while in service or of his becoming permanently disabled or of his termination from service on medical grounds and the applicant after attaining majority, as per the said settlement applied to the party no.1 for employment, but the party no.1 refused to provide employment to the applicant, so he raised the industrial dispute before the ALC (C), Nagpur on 18-12-1995, through the union and as the conciliation failed, failure report was submitted by the ALC to the Central Government and the Government in its turn, referred the dispute to the Tribunal for adjudication and the action of party no. 1 in denying employment to the applicant is arbitrary, illegal, discriminating and against the provisions of the settlement as party no. 1 had given employment to such dependants of other deceased employees and the applicant is entitled to employment.

Prayer has been made by the union to provide employment to the applicant w.e.f. the date of the death of his father and to give all consequential benefits to him.

3. The party no. 1 in its written statement has pleaded inter-alia that the applicant cannot be treated as a workman, as he was never in its employment and is seeking employment with it and therefore, terming the applicant as a workman in the reference is a misstatement and Teekaram, the deceased father of the applicant was working as a hammer man and while in service, Teekaram died on 16-7-1988, due to illness and in the agreement dated 1-9-1979, there was provision for giving employment to a dependent of an employee on the event of his death while in service and for such employment, it was necessary for the dependent of the deceased employee to submit the application for employment on compassionate ground within six months of the date of death of the employee and the applicant made such an application for the first time to the ALC (C), on 15-1-1996 and prior to the same, the union had made a communication dated 24-7-1995 to ALC (C) Nagpur stating that the applicant had given an application on 27-6-1995 requesting for employment in the company and on 11-12-1995, the union had addressed a communication to ALC (C), wherein, it was pointed out that the applicant was minor at the time of death of his father on 16-7-1988 and the applicant requested for the terminal benefits of his deceased father only after attending majority at the age of 18 years and the management paid a sum of Rs. 21195 by demand draft on 15-9-1995 to the applicant towards the terminal benefits of his deceased father and the applicant for the first time made the application for compassionate appointment after eight years of the death of his father and that too to the ALC (C) and even at the time of receiving the terminal benefits of

his deceased father, no formal application was made by the applicant and the purpose of compassionate appointment is an exception to the general rule to open recruitment, as intended, to meet the immediate financial problem being suffered by the members of the family of the deceased employee and such consideration cannot be kept pending for years and the ground of compassionate appointment cannot be allowed after the lapse of reasonable period specified in the rules itself and in view of the settlement, which has a sanctity of a rule, the case of the applicant for compassionate appointment after 8 years of the death of his father cannot be considered and there is also no material to come to a conclusion that the applicant was unable to meet the financial crisis resulting from the death of his father and therefore, the applicant is not entitled for any relief.

4. It is necessary to mention here that though the applicant had filed his evidence on affidavit in support of his claim he did not appear before the Tribunal for cross-examination on 29-3-2011 and thereafter, even though sufficient opportunity was given to him for the same. None also appeared on behalf of the applicant to contest the case. Hence, the evidence of the applicant was expunged and evidence was closed from his side.

The party no. 1 filed the evidence of witness, Nitin Yashwant Pagnis on affidavit. The evidence of the said witness remained unchallenged, as none appeared on behalf of the applicant to cross-examine him.

As the applicant did not appear in the case, order was passed on 19-3-2012 to proceed with the case ex parte against him.

5. It is well settled that when a party challenges the legality of an order, the burden lies upon him to prove the illegality of the order and if no evidence is produced, the party invoking the jurisdiction of the Court must fail.

In this case, neither the applicant nor the union has adduced any evidence in support of the claim.

6. The party no. 1 has not disputed about the death of the father of the applicant on 16-7-1988 and that the applicant was a minor at that time, his date of birth being 3-9-1976. It is found from the documents on record that there was no provision either in the settlement dated 1-9-1979 or in the settlement dated 21-6-1984, to keep a vacancy reserve for a minor dependent of an employee, who dies while in service. It is well settled by the Hon'ble Apex Court in a number of decisions including the decision reported in AIR 2000 SC-2782 (Sanjay Kumar Vs. State of Bihar) that, "belated claim of compassionate appointment cannot be entertained and the object of making appointment on compassionate ground is to provide immediate substance to the dependent family members of deceased employee and vacancy cannot be reserved for a minor claimant till he attains majority after number of years and such reservation would be against the intent behind compassionate appointment namely to provide immediate relief to family of deceased employee." Applying the principles as enunciated by the Hon'ble Apex court, to the present case at hand, it is found that the applicant is not entitled for compassionate appointment. Hence, it is ordered:-

## ORDER

The action of the management of Manganese Ore (India) Ltd., Nagpur, in denying suitable employment to Shri Amarkanth S/o. Late Tikaram Tukaram Sonwane, a Lohar in Chikla Mines of Manganese Ore (India) Ltd. is justified. The applicant is not entitled to any relief.

J. P. CHAND, Presiding Officer

नई दिल्ली, 15 जून, 2012

का.आ. 2293.—केन्द्रीय सरकार संतुष्ट है कि लोकहित में ऐसा अपेक्षित है कि लोहा एवं इस्पात उद्योग में सेवाओं को जिसे औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि 7 के अन्तर्गत निर्दिष्ट किया गया है, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवाएं घोषित किया जाना चाहिए।

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (द) के उप-खण्ड (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए तत्काल प्रभाव से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[सं. एस-11017/7/2011 आई.आर. (पी.एल.)]  
चन्द्र प्रकाश, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 15th June, 2012

S. O. 2293.—Whereas the Central Government is satisfied that the public interest requires that the services in the Iron and Steel Industry which is covered by item 7 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), should be declared to be a 'Public Utility Service' for the purposes of the said Act.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-clause (vi) of clause (n) of Section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947, the Central Government hereby declares with immediate effect the said industry to be a 'Public Utility Service' for the purpose of the said Act for a period of six months.

[No. S-11017/7/2011-JR (PL)]

CHANDRAPRAKASH, Jr. Secy.

नई दिल्ली, 15 जून, 2012

का.आ. 2294.—केन्द्रीय सरकार संतुष्ट हो, जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (द) के उप-खण्ड (vi) के उपबंधों के अनुसरण में भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. दिनांक 14-12-2011 द्वारा लोहा अयस्क खनन उद्योग जो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि 16 में शामिल है, को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए दिनांक 18-12-2011 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था।

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छः मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (द) के उप-खण्ड (vi) के अन्तर्गत द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए दिनांक 18-6-2012 से छः

मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[सं. एस-11017/13/97-आई. आर. (पी.एल.)]

चन्द्र प्रकाश, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 15th June, 2012

**S. O. 2294**—Whereas the Central Government having been satisfied that the public interest so requires that in pursuance of the provisions of sub-clause (vi) of the clause (n) of Section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), declared by the Notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment, dated 14-12-2011 the service in the Iron Ore Mining Industry which is covered by item 16 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) to

be a Public Utility Service for the purpose of the said Act, for a period of six months from the 18th December, 2011.

And whereas, the Central Government is of opinion that public interest requires the extension of the said period by a further period of six months.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of Section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947, the Central Government hereby declares the said industry to be a Public Utility Service for the purposes of the said Act, for a period of six months from the 18th June, 2012.

[No. S-11017/13/97-IR (PL)]

CHANDRA PRAKASH, Jr. Secy.

नई दिल्ली, 18 जून, 2012

**का. आ. 2295.**—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा -1 की उपधारा-(3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 1 जुलाई, 2012 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिनको उक्त अधिनियम के अध्याय-4(44 व 45 धारा के सिवाय जो पहले से प्रवृत्त हो चुकी है) अध्याय-5 और 6 (धारा-76 की उप धारा-(1) और धारा -77,78,79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) के उपबंध कर्नाटक राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :-

क्रम. संख्या	राजस्व ग्राम का नाम	होबली	तालुक	जिला
1	2	3	4	5
1.	बसापुर	बेगूर	बेंगलूरु साउथ	बेंगलूरु
2.	बसवनपुरा	बेगूर	बेंगलूरु साउथ	बेंगलूरु
3.	बिली शिवाले	बिदरहल्ली	बेंगलूरु	बेंगलूरु
4.	बैराती	बिदरहल्ली	बेंगलूरु	बेंगलूरु
5.	चिक्कबेल्लंदर	वर्तूर	बेंगलूरु साउथ	बेंगलूरु
6.	दासरहल्ली	के. आर. पुरम	बेंगलूरु	बेंगलूरु
7.	देवरबीसनहल्ली	वर्तूर	बेंगलूरु साउथ	बेंगलूरु
8.	दोड्डकन्नल्ली	वर्तूर	बेंगलूरु साउथ	बेंगलूरु
9.	दोम्मसन्ना	वर्तूर	बेंगलूरु साउथ	बेंगलूरु
10.	गेददलहल्ली	के. आर. पुरम	बेंगलूरु	बेंगलूरु
11.	गोल्लहल्ली	उत्तरहल्ली	बेंगलूरु साउथ	बेंगलूरु
12.	गुब्बलालु	उत्तरहल्ली	बेंगलूरु साउथ	बेंगलूरु
13.	गुन्जूर	वर्तूर	बेंगलूरु साउथ	बेंगलूरु
14.	हगदूरु	के. आर. पुरम	बेंगलूरु	बेंगलूरु
15.	हरलूर	वर्तूर	बेंगलूरु साउथ	बेंगलूरु
16.	हेम्मिगेपुरा	केंगेरी	बेंगलूरु साउथ	बेंगलूरु
17.	होरमावु आगरा	के. आर. पुरम	बेंगलूरु	बेंगलूरु
18.	के. चन्नसन्ना	बिदरहल्ली	बेंगलूरु	बेंगलूरु
19.	काडबीसनहल्ली	वर्तूर	बेंगलूरु साउथ	बेंगलूरु
20.	काइकोडरहल्ली	वर्तूर	बेंगलूरु साउथ	बेंगलूरु
21.	कल्केरे	के. आर. पुरम	बेंगलूरु	बेंगलूरु
22.	कम्पन्नहल्ली	बेगूरु	बेंगलूरु साउथ	बेंगलूरु
23.	करियम्मन अग्रहा	वर्तूर	बेंगलूरु साउथ	बेंगलूरु
24.	कौत्तहल्ली	उत्तरहल्ली	बेंगलूरु साउथ	बेंगलूरु
25.	कोडती	वर्तूर	बेंगलूरु साउथ	बेंगलूरु

1	2	3	4	5
26.	कोत्तनूर नारायणपुरा	के. आर. पुरम	बेंगलूरु	बेंगलूरु
27.	कोत्तनूरु	के. आर. पुरम	बेंगलूरु	बेंगलूरु
28.	क्यांलसनहल्ली	के. आर. पुरम	बेंगलूरु	बेंगलूरु
29.	नागोंडहल्ली	के. आर. पुरम	बेंगलूरु	बेंगलूरु
30.	पणत्तूर	वर्तूर	बेंगलूरु साउथ	बेंगलूरु
31.	परप्पन अग्रहार	बेगूरु	बेंगलूरु साउथ	बेंगलूरु
32.	पिल्लगानहल्ली	उत्तरहल्ली	बेंगलूरु साउथ	बेंगलूरु
33.	राचेनहल्ली	के. आर. पुरम	बेंगलूरु	बेंगलूरु
34.	थणिसन्ना	के. आर. पुरम	बेंगलूरु	बेंगलूरु
35.	तिप्पसन्ना	उत्तरहल्ली	बेंगलूरु साउथ	बेंगलूरु
36.	तूरहल्ली	उत्तरहल्ली	बेंगलूरु साउथ	बेंगलूरु
37.	वड्डरपाल्य	उत्तरहल्ली	बेंगलूरु साउथ	बेंगलूरु
38.	वन्नगासी	बिदरहल्ली	बेंगलूरु	बेंगलूरु
39.	वर्तूरु	वर्तूर	बेंगलूरु साउथ	बेंगलूरु
40.	येलेनहल्ली	बेगूर	बेंगलूरु साउथ	बेंगलूरु

[सं. एस-38013/19/2012-एस.एस.1]

नरेश जायसवाल, अवर सचिव

New Delhi, the 18th June, 2012

**S. O. 2295**—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) the Central Government hereby appoints the 1st July, 2012 as the date on which the provisions of Chapter IV (except Sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapter-V and VI (except Sub-Section (1) of Section 76 and Sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force) of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Karnataka namely : —

Sl. No.	Name of the Rev. Village or Municipal Limits	Hobli	Taluk	District
1	2	3	4	5
1.	Basapura	Begur	Bengaluru South	Bengaluru
2.	Basavanapura	Begur	Bengaluru South	Bengaluru
3.	Bilishivale	Bidarahalli	Bengaluru	Bengaluru
4.	Byrathi	Bidarahalli	Bengaluru	Bengaluru
5.	Chikkabellandur	Varthur	Bengaluru South	Bengaluru
6.	Dasarahalli	K.R.puram	Bengaluru	Bengaluru
7.	Devarabeesanahalli	Varthur	Bengaluru South	Bengaluru
8.	Doddakannalli	Varthur	Bengaluru South	Bengaluru
9.	Dommasandra	Varthur	Bengaluru South	Bengaluru
10.	Geddalahalli	K. R. puram	Bengaluru	Bengaluru
11.	Gollahalli	Uttarahalli	Bengaluru South	Bengaluru
12.	Gubbalalu	Uttarahalli	Bengaluru South	Bengaluru
13.	Gunjur	Varthur	Bengaluru South	Bengaluru
14.	Hagadur	K.R.puram	Bengaluru	Bengaluru
15.	Haralur	Varthur	Bengaluru South	Bengaluru
16.	Hemmigepura	Kengeri	Bengaluru South	Bengaluru
17.	Horamavu Agara	K.R.puram	Bengaluru	Bengaluru
18.	K.channasandra	Bidarahalli	Bengaluru	Bengaluru
19.	Kadabeesanahalli	Varthur	Bengaluru South	Bengaluru

1	2	3	4	5
20.	Kaikondarhalli	Varthur	Bengaluru South	Bengaluru
21.	Kalkere	K.R.puram	Bengaluru	Bengaluru
22.	Kammanahalli	Begur	Bengaluru South	Bengaluru
23.	Kariyamma Aghara	Varthur	Bengaluru South	Bengaluru
24.	Kembathahalli	Uttarahalli	Bengaluru South	Bengaluru
25.	Kodathi	Varthur	Bengaluru South	Bengaluru
26.	Kothanur Narayanapura	K.R.puram	Bengaluru	Bengaluru
27.	Kothanuru	K.R.puram	Bengaluru	Bengaluru
28.	Kyalasanahalli	K.R.puram	Bengaluru	Bengaluru
29.	Nagondahalli	K.R.puram	Bengaluru	Bengaluru
30.	Panathur	Varthur	Bengaluru South	Bengaluru
31.	Parappana Aghara	Begur	Bengaluru South	Bengaluru
32.	Pillaganahalli	Uttarahalli	Bengaluru South	Bengaluru
33.	Rachenahalli	K.R.puram	Bengaluru	Bengaluru
34.	Thanisandra	K.R.puram	Bengaluru	Bengaluru
35.	Thippasandra	Uttarahalli	Bengaluru South	Bengaluru
36.	Thurahalli	Uttarahalli	Bengaluru South	Bengaluru
37.	Vaddarapalya	Uttarahalli	Bengaluru South	Bengaluru
38.	Varanasi	Bidarahalli	Bengaluru	Bengaluru
39.	Varthur	Varthur	Bengaluru South	Bengaluru
40.	Yelenahalli	Begur	Bengaluru South	Bengaluru

[No. S-38013/19/2012-S.S.I]

NARESH JAISWAL, Under Secy.

नई दिल्ली, 19 जून, 2012

का. आ. 2296.—केन्द्रीय सरकार संतुष्ट हो, जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (द) के उप-खण्ड (vi) के उपबंधों के अनुसरण में भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.- दिनांक 19-12-2011 द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड, मैसूर (कर्नाटक) एवं सालबोनी (पश्चिम बंगाल) जो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि 25 में शामिल है, को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए दिनांक 19-12-2011 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था।

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छः मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है ;

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (द) के उप-खण्ड (vi) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए दिनांक 19-6-2012 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[सं. एस-11017/2/96-आई आर (पीएल)]

चन्द्र प्रकाश, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 19th June, 2012

S. O. 2296.—Whereas the Central Government having been satisfied that the public interest so requires that in pursuance of the provisions of sub-clause (vi) of the clause (n) of Section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), declared by the Notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment dated 19-12-2011 the services in the Bhartiya Reserve Bank Note Mudran Limited, Mysore (Karnataka) and Salboni (West Bengal) which is covered by item 25 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) to be a Public Utility Service for the purpose of the said Act, for a period of six months w.e.f. 19-12-2011.

And whereas, the Central Government is of opinion that public interest requires the extension of the said period by a further period of six months.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of Section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947, the Central Government hereby declares the said industry to be a Public Utility Service for the purposes of the said Act, for a period of six months w.e.f. 19-6-2012.

[No. S-11017/2/96-IR (PL)]

CHANDRA PRAKASH, Jt. Secy.